ORISSAN ARCHITECTURE

NIRMAL KUMAR BOSE

1931

INTRODUCTION

Indian architecture has been studied from various points of view by students of Indian history. The studies of Fergusson, Prasannakumar Acharya, Manomohan Ganguli and Havell may be taken as representative of the four methods of approach which are generally followed in this connection.

Fergusson and others after him, like Cousens or Rakhaldas Banerji, depended principally in their researches on personal field-observations. Almost all that we know at present regarding Indian architecture has been learnt through this process ; still, the method itself has suffered from an important limitation in the past. The workers from the west, as well as their Indian disciples, were trained in the schools of Europe, and as they were not in touch with Indian craftsmen, they lost the means of gaining an insight into the traditional point of view in regard to architecture. They did not know how buildings and temples were classified by the builders themselves, what distinctions were drawn between different varieties of temples, which were considered the finer points in building-technique and so forth. In other words, what was essential and what secondary according to the local science of architecture was not known to any one. This is the reason why, in some historical reconstructions of the Fergusson school, primary matters have given the place of importance to matters of secondary value. Such a shortcoming was however inevitable, in view of the fact that Indian scholars generally followed the tracks of the western pioneers, instead of trying to restore the original science of Indian architecture, which they might more profitably have undertaken.

Recently, a number of Sanskritists like Ganapati Sastri and Prasannakumar Acharya, have been led into an examination of the canons of Indian architecture, the existence of which had been known for a long time past. They have succeeded in restoring the text of about a dozen books, but their labours have not yet yielded the results which were expected of them. The fact is that the master-builders of ancient India transmitted most of their technical knowledge to pupils by word of mouth. So they never considered it worth while to keep in writing such details as the methods of polishing or dressing stones or the means of transporting them to great heights and so on. These were left to the practical training which every architect was expected to undergo under the guidance of his preceptor. The craftsmen (*silpins*) therefore only recorded such information as they were likely to forget; such as the points of difference between various types of temples, details regarding their ornamentation, the relation between different parts of the body of a temple and so forth. But these details were kept in a sort of cryptic form. At one place, the numeral 5 or 7 might appear beside a term. This may stand for 5 units of measurement or it may mean 5 times the length of some other object; only the experienced craftsman was expected to know what it really stood for. The canonical books of the *silpins* are therefore of the nature of mnemonic notes and are consequently unintelligible to one not belonging to the caste of *silpins.* This has been the reason why, in spite of the labours of the scholars, our knowledge of Indian architectural science has not advanced as far as might have been expected.

The third approach to architectural study in India was initiated in the year 1835 by Ram Raz in an essay entitled "Architecture of the Hindus." Ram Raz read the Sanskrit text of certain *silpasāstras* with the aid of local craftsmen and employed the knowledge so gained in analysing architectural forms extant in the Deccan. A combination was thus effected between the craftsman's traditional knowledge, field-work and Sanskrit learning, and the results yielded were correspondingly of a very valuable character. In the year 1912, an engineer named Manomohan Ganguli, who was also a Sanskritist and a wide traveller applied the same method to an analysis of Orissan architecture.* Ganguli had secured an Oriya manuscript on architecture, but having no parallel reading in his possession, he had failed to make proper use of it. He therefore analysed the forms with the help of local craftsmen and also applied his knowledge of western architecture to the task. In this manner he succeeded in restoring a large part of the traditional knowledge of ancient Orissa.

The present book may be taken as a continuation of the work which Ganguli thus began in Orissa. Several readings of the Orissan canons of architecture have been secured and studied with the help of local craftsmen. This has been supplemented by field-work done in different parts of Orissa and the neighbouring provinces. A workable restoration of the science of architecture in Orissa has thus been secured. When similar restorations are available for other provinces in India and the existing examples of architecture studied in their light, it will be possible to reconstruct the history of Indian architecture with some degree of certainty.

---

* Manomohan Ganguli : *Orissa and her Remains*, Calcutta, 1912.

The above three methods do not however exhaust the approaches to the study of architecture. Forms are employed by the artist to express certain thoughts, and the student of architecture may either be interested in the history of the forms or in that of the ideas which they are meant to convey. In one case he is like a student of grammar, while in the other, he is like a student of literature. Havell, unlike Fergusson, was chiefly interested in the latter aspect of Indian architecture. To him, architectural history became a means of investigating into the history of Indian thought and civilisation. But the profound penetration necessary for this task is not only rare, but the results are also not capable of scientific verification. We shall therefore have to be content with a scientific study of the outer forms alone and rest satisfied with the light which it may throw upon the development of Indian history.

A word has to be said regarding the nature of the mss. used in connection with the present work. Altogether seven mss. have been examined so far, most of them having been collected from the district of Puri. Only one of the mss. comes from the village of Lalitgiri in Cuttack district. Five of the mss. are different recensions of a treatise on architecture named *Bhubanapradipa,* the rest being copies of a different book dealing with the erection of thatched huts. The name of the latter book is merely given as *silpi-pothi* or *silpa-sāstra* which means "The Book on the Arts." Certain general matters regarding the selection of building-sites, the classification of soils etc. are common to both the treatise ; both have therefore been used in writing the first part of the present book. The second part of the book dealing with the architecture of temples has been based on the five recensions of the *Bhubanapradipa* referred to above.

The mss. are written on palm-leaf with an iron style. The type and language are not archaic but appear to be quite modern in character. In fact, the Lalitgiri ms. and that belonging to Nilkantha Maharana are actually known to have been written within the last thirty or forty years. No evidence regarding the age of the other mss. is forthcoming, but it is certain that the tradition recorded in them has been handed down from very ancient times.

The mss. have been referred to in the present book by means of *nāgari* letters as follows :

(क) Ms. belonging to Rama Maharana, Puri. *Bhubanapradipa.* 96 leaves or 192 pages.

(ख) Ms. belonging to Babaji Maharana, Puri. *Bhubanapravesha* or *Pradipa.* 108 leaves.

(ग) Ms. belonging to Nilkantha Maharana, village Bantuli, Dist. Puri. *Silpi pothi.*

(घ) A printed book entitled *Silpasāstra* in Oriya, published from Cuttack by Sj. Mohan Sahu in 1923 (4th edition). The book is purported to have been written by Bauri Maharana.

(ङ) Ms. belonging to Surya Maharana of Lalitgiri, Dist. Cuttack. (*Bhubanapradipa*)

(च) Ms. belonging to Bairagi Maharana of Bhubaneswar, Dist. Puri. (*Bhubanapradipa*). 146 leaves.

(छ) Ms. belonging to Dharma Maharana, Puri. (*Bhubanapradipa*) 124 leaves.

(ज) Ms. belonging to Damodar Maharana, Bhubaneswar.

Khadi-Sangha,
Bolpur, 26th January, 1931

NIRMAL KUMAR BOSE

I. The Book of Architecture and its Author.

Regarding the name of the MS., we find the following passages:

(क) इति नैमिषारण्ये भुवनप्रदीपे विसिक्रमा मुनिसंवादे प्रसादलक्षण (पृः ४०)

(ख) इति नउमिसारण्ये भुवनप्रवेसे विस्वकर्मा मुनिसंवादे (पृः १)
प्रसाद घटणा पोथि घटणा प्रदीप ˙ ˙ (पृः ८१)

(च) श्री विघ्नेस्वराय नमः । : । इती नउमिसा आरण्ये ॥ भुवनप्रदिपे । विस्वक्रमा मुनि संम्वादे । प्रसाद् लक्षण । १ । (पृः २)

It will appear from a consideration of these passages that the name of the book is BHUBANAPRADIPA. The book was so well-known that it was sometimes referred to as the PRADIPA, merely.

The word *bhubana* means the fourteen worlds including heaven, earth and the nether worlds. In the present case, it might be taken to mean 'heaven' or the abode of the gods. As a matter of fact, in the BHUBANAPRADIPA, we find only descriptions of temples, altars and similar structures. There is practically no reference to secular architecture. Hence the word BHUBANAPRADIPA may be taken to mean 'The Lamp (which sheds light on the characteristics) of the abode of the gods'.

The Author—The author of the book is referred to as Viswakarmā, the sage. But the word *viswakarmā* seems to have adopted a generic significance, as will be evident from the following passage in MS. (ख)

(ख) यपकला ब्राह्मणंकर दक्षिणा। एहि धरणरे ज्योतिषर दक्षिणा। ए दक्षिणां अधेके विस्वकर्मा दक्षणा। एहिस्मृपे उपदेष्टाः दक्षिणा…… (पृः १७५)

(With reference to the parting dues of each functionary at the end of a ceremony, it is said that)

The Brahmin who will perform *japa,* his dues; equivalent (are the dues) of the Astrologer. Half of that are the Viswakarma's dues; equivalent that of the preceptor, etc.

Names of certain artists—It is unfortunate that we know hardly anything about the great artists of Orissa who built the temples of Bhubaneswar, Puri or Konarak. In the present mss. there occur two names, one being that of an artist, while the other is that of a carpenter.

(क) पिङ्गलनामना श्लिपि ॥ अहिद्र सुत्रधारणा (पृः ६३)

(ख) पींगलीनामना स्लिपी। अहिव शूत्रधारणा (पृः १४)

Pingala, the artist; Ahidhara (?) the carpenter.

II. Classification of Soils

I. The four classes of soils

(क) एवे ब्रह्मक्षेत्री वैश्य शूद्र चारिजाति जानिवा ।। भूमि वाड़ीवा ।। सेतवर्ण ब्रह्माण भूमि ।। लोहित वर्ण क्षेत्रिय स्त्री ।। पीतवर्ण भवे वैश्य ।। शूद्रा च कृष्ण वर्णिका । अर्थ—वामन भूमि श्वेत क्षेत्रिय भूमि रकत वैंश्य भूमि पीत शूद्र भूमि कला । एमन्ते भूमि चिनहि ना पारिले चाखिले जानिम । कषा वामण भूमि क्षेत्रीय पीत तथा । आम्बिल वैश्य जातिना शूद्रानि मधुकश्रुते । ५ । अर्थ ब्राह्मण भूमि कषा । क्षेत्रियभूमि पीता । वैश्यभूमि आम्बिल । शूद्रभूमि मधुर ।।·········।। माटीवर्ण चाखि न पारिले गन्ध शुंघि जानिमा । ५ । अदा गन्धे भवे ब्रह्म रजगन्धेन क्षेत्रिया । क्षारगन्धे भवे वैश्य शूद्राधि विष्ठागन्धिकाः । अर्थ । ब्रह्मभूमि अदागन्ध वैश्य क्षेत्रिय भूमि गोरज गन्ध । वैश्यभूमि लूणगन्ध । शूद्रभूमि विष्ठागन्धः । गन्ध हीने यदाभूमि गोलक परिवर्जयेते । भ्रमयेत हलतत । यो चिनन्ति विदोमो गन्धरे भूमि वा चिनहि ना पारिले हल चषाँइ तिल बुनिवा । सोयभूमि ब्राह्मण कृजा । क्षेत्रिय गृह माख्याति । फचराते भवे वैश्य । सड़मे शूद्रिमेवच । अर्थ— तिल येवे तिनिरात्रे उठई से भूमि ब्रह्मजाति । तिल येवे चारि राते उठइ से भूमि क्षेत्री जाति । तिल येवे पञ्चराते उठइ । से भूमि वैश्यजाति तिलयेवे छराते उठइ से भूमि शूद्रजाति । (२-५ पृः)

(ख) श्वेतवर्ण ब्रह्मसिव । रक्तवर्ण क्षत्रिय । शामल वैश्यमो सैन्य । सुद्राधि कृष्णवर्णिका । (१ पृः)

एवे चारि याती भूमि याणिमा । भृसिरोवाचः । सेतवर्ण ब्राह्मणं चैव । रक्तवर्ण क्षत्रिअं स्तथाः । पितवर्ण भवे वस्य । शुद्रादि कृष्णवर्णिकाः । अर्थ । ब्राह्मणभूमि सेतवर्ण दिसई । क्षत्रिअभूमि रक्तवर्ण दीसई । वस याती पीतवर्ण दिसई । शुद्रयाती कृष्णवर्ण दिसई । एमन्ते भूमि चिन्हि याणिले । चाखि करि याणिमा । कसायं ब्राह्मण भूमि । क्षत्रिअ पितकोस्तथाः । आम्बिलं वस

यातीनां । शुद्राधि मद्यकोस्तथाः । अर्थः । ब्रह्मयाती भूमि कसा लागई । क्षत्रिअभूमि पिता लागई । वसभूमि आम्बिल लागई । श्रद्रयातीभूमि मद्यप्राए लागई । ५ । माटी चाखि न याणिले अघ्राण करि याणिमा । अदा गन्धे भवे ब्रह्म । रजगन्ध क्षत्रिअस्तथाः । खार गन्ध भवे वस्य । शुद्रा आमिस गन्धकं । गन्धभूमि वारि न पारिले हल चसाई तिल बुणाइवा । श्लोकः । त्रयोरात्रे ब्राह्मणं भूमि । क्षतीयो प्रोहोमा यती । पञ्चरात्रे भवे वस । सड रात्रे शुद्रमेवच । अर्थः । तील येवे त्रियरात्रे उठ से ब्रह्मयाती भूमि बोली याणिमा । चारि रात्रे उठीले क्षत्रिअ भूमि याणिम । पञ्चरात्रे उठिले वस बोली याणिमा । सडरात्रे उठीले शुद्रबोली याणिमा ।…………। सप्तरात्रे येवे तील उठई से पिचास भूमि बोली यानीम तहो केहो न रहिवः । (पृः ३६, ३७, ३८)

(ग) श्रीगणसाए नमः । अथ सिल्प लिक्षते । ब्रह्मक्षेत्रीं वसशुद्रं शुक्लारक्ता पितये । कृष्णवर्ण च क्रमेणा अतैव वास्तु लक्षण ।। अर्थ । ब्राह्मण यातिभूमि शुक्लवर्ण । क्षत्र याति भूमि रक्तवर्ण । वसयातिभूमि पितवर्ण । शुद्रयाति भूमि कृष्णवर्ण । ० । कशाया ब्रह्मणभूमि । अम्बिला क्षेत्रीयस्तथा । तिक्त वैस समाक्षाता मधुर शूद्रमेवच । अर्थ । ब्राह्मण भूमि कसा । क्षत्रीयभूमि आम्बिल । वैस्य भूमि पिता । शूद्रभूमि मधुर । घृत गन्धोभवेत् ब्रह्म रक्तगन्धापि बाहुजा । क्षीरगन्धाभवे वैस्य शूद्र विष्ठानुगन्धिता । अर्थ । ब्रह्मयाति भूमि अश्वगन्ध । क्षत्रीय याति भूमि रक्तगन्ध । वसयातीभूमि सुरागन्ध । शूद्र याति भूमि विष्ठागन्ध । स्वादेन लभते यत्र गन्ध तत्र विनीर्द्दिशेत । अर्थ । भूमिरे तिल बुणिम सावित्री मन्त्रे । एहा समभूमि करिब । त्रिरात्रञ्चभवेत् पत्रं ब्रह्मेश्वर प्रकीर्त्तिताः । क्षत्रियं पञ्चरात्राणि वैश्या सप्तभिस्तथा नवमो शूद्रविख्यातो । एवं भूमि परीक्षिताः । वास्तुभूमि चतुरस्र करि लङ्गले चषाइव । सावित्री मन्त्रेंण करि ।

(घ) ब्रह्माण क्षत्रिया वैश्या शूद्रा भूमिश्चतुर्विधा ।
शुक्ला रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्णं रिति क्रमात् ।।
अजागन्धा ब्रह्मभूमि रजोगन्धा च क्षत्रिया ।
क्षारगन्धा भवेद् वैश्या शूद्रा पुरीषगन्धजा ।।

कषाया ब्राह्मणा भूविरम्ला च क्षत्रिया तथा ।
वैश्या ख्याता तथा तिक्ता मधुरा शूद्रजातिजा ॥
तिलानां वपने तत्र ज्ञातव्या भूमिजातयः ।
त्रिरात्रेणाङ्कुरो यत्र ब्रह्मजाति प्रकीर्त्तिता ॥
क्षत्रिया पञ्चभिरात्रै वैश्या स्यात् सप्तभिस्तथा ।
नवरात्रे च शूद्राया अङ्कुरो जायते ध्रुवं ॥ (पृः २)

अदा, अजा etc. are evidently corruptions of **आज्य,** *ghrita.*

1. The Brahmin soil is white in colour. It smells like clarified butter and is astringent to the taste.

The Khsatriya soil is blood-red in colour, smells like blood and is bitter to the taste.

The Vaisya soil is yellow in colour, smells like alkaline earth and is sour to the taste.

The Sudra soil is black in colour, smells like fæces and has a taste like that of wine.

If one is unable to determine the caste of a soil by colour, taste or smell, he should prepare a small piece of ground with the plough (while uttering the *Sāvitri mantra* at the same time) and sow sesamum seeds therein. If sprouts appear after the third night, it is Brahmin soil; similarly, if they appear after 4, 5, or 6 nights, they should be recognised as Kshatriya, Vaisya and Sudra respectively. If the seedlings appear after 7 nights, then the soil belongs to the caste of *pisāchas* (devils) and men should not build on such soil.

2. The selection of soils

(क) विप्रस चतृभूमि । क्षेत्रिय तिति सुमृत ।
वैश्य दुरामाशयः । शूद्रसका प्रक्रतिता ॥
ब्राह्मण जसदा भूमि । क्षेत्रिय गृहमाख्याति ।

से ते निधने यान्ति ॥ जर्थ—कृतव्रजश्रो । क्षेत्रियस यदा भूमि वैश्यमागृह माख्याति । स ततम् निधनं यान्ति । व्रजस्व गुहामम । वैश्वसखा यदाभूमि शूद्र गृहामासति । सततं निधनं यान्ति । द्रवागिरि प्रवाएते ।

ब्राह्मणजान्ति भूमिरे क्षेत्रिवास न करिब । वैश्यभूमिरे शूद्र न रहिब । रहिले कि होइ । तिर आगि तथैव च । (५ पृः)

(ख) ब्राह्मणस जदा भूमि क्षत्रिअ प्रियमीछती । स ततो नीधनो यान्ति । यमा गती व्रजंसिरि । क्षत्रिअस जदा भूमी । वंसस प्रिअमिछती । सत्रयं नोधने यान्त । व्रयस्य गृहमासमं । अर्थ । क्षत्रीअ तील येवे छ रात्रे उठइ से शूद्रभूमि तँही वस न रहोब । वस्यर येवे तील पाञ्ज रात्ररे उठई । से भूमिरे क्षत्रिअ न रहीब । तील येवे चारि रात्रे उठई । से भूमिरे क्षत्रित्र न रहई । (३८-६ पृः)

(ग) स्वजाति सूखमाप्नोति ब्रह्मस्य चतुरभूमौ । क्षत्रियाय स्थिभिस्थाश्च वैश्यश्च द्वयभूमि च । शूद्रनामेक भूमिश्च चतुर्व्वर्गो विधोयते । ये याहार स्वजाति भूमिरे रहिले सुख प्राप्त होइव । ब्राह्मण चारि जातिरे रहिले सुखी होइ । क्षेत्रिय तिनि जातिरे रहिब । वैश्य दुई जातिरे रहिब । शूद्र ताहार जातिरे रहिब ॥ श्लोक ॥ ज्यैष्टश्चैव यदाभूमि वर्णहीनत्र यो नर । सोपि वास्तु विनाशस्तु गृहमजम्बूक रोदिते । अस्यर्थ—गृहस्थ भूमिरे येवे भूमि स्वर्ण होइ गृहस्थर वर्णहीन होइ । से भूमिरे रहिले सकाले शियाल बोबाइ । वर्णहीन यदा भूमि । वर्णज्येष्ठन्तु यो नरः । सोपि वास्तु प्रसस्त । सुखो भवन्ति मानवाः । भूमिरे वर्णहीन वर्णहेव गृहस्थर श्रेष्ठ वर्ण हव से वास्तुरे कुटुम्ब बढ़इ, मनुष सुखी भवन्ति ।

(घ) स्वजात्या सुखमाप्नोति ब्राह्मणस्य चतुर्भूमिः ।
क्षत्रियाणां त्रिभूमिः स्याद्वैश्यस्तु द्वयभूमिगः ॥
शूद्राणामेकभूमिश्च चतुर्जाति विधियते ॥
ब्रह्मजातिं यदा भूमिं लोभादिच्छति क्षत्रियः ।
सर्व्वे ते निधनं यान्ति शैला वज्रहता इव ॥ (३ पृः)

2. If a man lives on the soil which belongs to his own caste, he will be happy. But a Brahmin may

live on any one of the four classes of soils, a Kshatriya can live on three, a Vaisya on two, and a Sudra on only that which belongs to his caste.

If, through temptation, a man lives on soil which belongs to a caste higher than his own, then surely destruction shall follow him. The place where his house stands shall be converted into a waste, and jackals shall fill the place with their cries even during the daytime.

If a man lives on soil belonging to his own caste or on one lower than his own, then surely will he live happily with friends, relations and attendants.

III. The best site for dwelling purposes

(घ) स्निग्धा स्थिरा सुरभिगुल्मलता सुगन्धा ।
शस्ता प्रदक्षिणजला च निवासभूमिः ॥
नेष्टा विपर्य्ययगुणा कच-कर्करास्थि ।
वलीक कन्टक विभीतक-संकुला च ॥

स्थिर सुस्निग्ध ये सुरभि । गुल्मलतारे होई शोभी ॥
सुगन्ध युक्त होइ थिव । प्रशस्त भूमि देखा यिव ॥
से भूमि चारिपाख जल । घेरि थिव ए सुमङ्गल ॥
एपरि स्थाने कले घर । मङ्गल घटइ अपार ॥
एथिरु होइ विपरीत । केश झिङ्कुर गोड़ि युत ॥
बालि हुङ्का वा थिव यहिं । कण्टकवण भय थाइ ॥
एपरि स्थाने कले घर । घटइ अनिष्ट सत्वर ॥

3. A place which is sheltered by fragrant plants, cool and undisturbed, spacious and surrounded on all sides by water, is good for dwelling purposes. A site with the opposite of these qualities is not good.

A place full of hairs (human ?), gravel, bones, sand or thorns is fearsome. If one builds on such a site, misfortune will rapidly overtake one.

IV. Divination by means of a lighted lamp

(ग) जानुमात्रे खन्यते भूमि दिकस्तु तिनि योजयेत् नक्षत्रकरणं कुर्य्यात् वद्धजात्। अर्थ। भूमि जानुमात्रकरि खोलिब। दीप गोटिए जालिब। तँहि भितरे वसाइब। घरजाक येवे दीप दिसइ तेवे भल। एतदर्थकु ये दिसइ से मरण होइ। बड़ क्षीण होइ ज्वलिले से वास्तुरे गृहस्थ नाश याइ। श्लोक। दीपशाखा वजन्दन्ति प्रणमे दीपतोज्ज्वल धर्म्म अर्थ चिन्यतेते दीर्घायुमतिरुच्यते। दीपशिखा येवे बड़ होइ जळइ प्रलम्य वोइवे शरीर तिन्ति पड़इ तेवे से घरे सम्पत्ति होइ। दीर्घायुष होइ।

(घ) वास्तोर्मध्ये तु विवरं कृत्वा बाहुप्रमाणतः।
दीपं तत्र स्थापयित्वा चिन्तयेत्तत्फलादिकं॥
श्रीदा दीपशिखा धूम्रा वृद्धिः प्राचीगता भवेत्॥
आग्नेये वेश्मदाहः स्याद् याम्ये मृत्यु र्न संशयः॥
नैर्ऋते च भवेद्दुःखं वारुण्ये धननाशनं।
वायव्ये व्याधिपोड़ा स्यादुत्तरस्यां च सम्पदः।
ऐशान्ये सुखवृद्धिः स्याद्दित्याशाभाग निर्णयः॥ (३–४ पृः)

4. A hole, one cubit deep (or knee-deep), should be made in the ground, and a lighted lamp placed therein to determine the 'luck' of the site. It is good if the lamp lights the entire cavity. If it burns dimly, the householder will die. If the flame becomes elongated, then the house will bring prosperity and long life (to the owner).

If the flame burns gray (gives forth smoke ?), it will bring prosperity. If it leans towards the east, there will be prosperity ; if towards the S. E. , the house shall be burnt ; if to the south, there will doubtless be death ; if towards the S. W., sorrow shall come ; if towards the west, there will be loss of property ; if towards the N. W., there will be sickness ; if towards the north, prosperity shall come ; if towards the N. E.. there shall be an increase in happiness. Thus are indicated the signs with respect to the different points of the compass.

V. Classification of building-sites

(क) वास्तु लक्षणः—थातर प्रवक्षामि गृह कार्य्याणि विनस्वय यदाकाल शुभविद्या तद। भुवनमाचरेत् थायात ॥ चतुरस्र □ ॥ वृत ◎ ॥ भद्रासनः ॥ चक्रः ॥ विसुवाडि  ॥ क्षिकोणः △ ॥ सकटाधि  ॥ दण्ड ॥ प्रणमथान ॥ ५५। मुक्तुन्दक ॥ वृहन्तर्पः ॥ ○ ॥ वृजन  ॥ कुमपृष्ठ ॥ धनुसुज ॥ (१ पृः)

(ख) वास्तु लक्षण। अथतर प्रवक्षामि। गृहकार्यादि संसयः। यदी कुल शुभं वहा। तदा भुवनमाचरे। अर्थः। अथवा कल्पणा करि कीअवा गृहकार्य करई। यदि शुभविभा करई। तथापि ये ईच्छा करई। अव ये गृह से क्षमान करई! याहार ये वास ताहा याणिमा। आयतप। △। चतुरश्र। □। कृत। । चक्र।  । विष्णुवाड।  ॥ त्रिकोण △ ॥ सकाट  ॥ दण्ड  । प्रलम्ब । मृछन्द। हर्म्यपिठ। व्यञ्जन ॥  ॥ कूमपृष्ठ ॥ धनर्यय।  । (३४-५ पृः)

(ग) षोडशभूमिता। श्लोकः। आयतन। □ ॥ चतुश्रेष्ठः ॥  ॥ यत्र भद्रासनः  । चक्रः विषमवाहु ॥  । त्रिकोण △ । शकटाकृति  दण्ड  । प्रणवस्थान  । सुरिक्त  । वृहन्मुख  व्यजन  कूर्म्मपृष्ठः  । धनु  । सूर्य्यचक्रः ⊗ ।

(घ)
आयतं चतुरस्रं च छत्रं भद्रासनं तथा ।
चक्रं विषमबाहुः स्यास्त्रिकोणं शकटाकृतिं ॥
दण्डं च प्रणवं मूर्त्ति गृहदं व्यजनं तथा ।
कूर्म्मकं धनुराकारं सूर्य्यकं चेति षोड़शः ॥ (४ पृः)

VI. The effects of living upon each kind of building-site

(क) षोड़शभूमि षोड़श प्रकारे गला। केवन भूमिरे केबन गुण जानिबा ॥ ३४। आअते सविसिध्व ॥ चतुरस्रे धन आगम। भद्रासने कृतार्थः। वृते पुट विवर्द्धनः। चक्रे दारिद्रेय च पूजेमः चभितथा। ५४। विसुवाड़ि वा दाने राजभया त्रिकोणसा। ५४। शकटञ्च धनक्षयः पशुदण्डि तथा दण्ड। प्रणमे ज्येष्ठनाशनः न सहन्ति गृहे भार्य्या ॥ अर्थनाशन वृहनृपे। दुर्ज्जने विश्वनाशाय कृमणधनपीड़न। सूर्य्ये धनक्षयविदात्। धनु चौरभय भवतु ॥ (१—२ पृः)

(ख) सोड़स भूमि सोड़स प्रकारये। कँउ कण के भूमिरे कँउ गुण याणिमा। अर्थ। श्लोक। आयते सर्वसिधि च। चतुरश्रे धनागम। भद्रासने कृतार्थाय। कृती पुष्टविवर्धनं। चक्रे दारिद्र च। वसवाड़ तपाहनं। राज्ञभय त्रिकोणसा। सकटाधि धनक्षयः। पशुहोत्रि तथा दण्डं। प्रलम्बे येष्ठनाशनं। अथनास कृत्यनृपे। नमन्ति शुरे भारिया। अर्थनासं वृहनृप। व्यञ्जने विद्यानास च। कृमेण धन पिड़नं। शुर्य्ये धनक्षयादित। धनु चोर भवे मृतु। (३५—३६ पृः)

(ग) ए भूमि मानङ्कर शुभाशुभ फल। आयतने सिध्यते सर्व्वं। चतुरस्रे धनागमः। क्षत्र पुष्टि विवर्धनं। भद्रासने कृतार्थश्च। चक्रे दारिद्र्य मेवोक्तम्। शोक विसमबाहुके। नृपभीति त्रिकोणेस्यात्। शकटे च धनक्षयं। नश्यति चिरवो दण्ढ। प्रणवे क्षयलोचनं। सुरिक्ते म्रियते भार्या। अर्थनाशं वृहम्मुखे। व्यजनं वित्तनाशञ्च। कूर्म्मे च धनपिड़ते। चापे धनभयं जातं। सूर्य्ये नत्रक्षयं भवेत्।

(घ)
आयते सिद्ध्यते सर्वं चतुरस्रे धनागम।
छत्रे प्रीतिविवर्द्धी च भद्रासने कृतार्थिनः ॥
चक्रे दरिद्र-रोगं च शोकं विषमवाहुके।
राजभीतिस्त्रिकोणे स्यात् शकटे च धनक्षयं ॥
चौरा नश्यन्ति दण्डेन प्रणवे नेत्रनाशनं।
सुमुत्तौ म्रियते भार्य्या गृहदे सुखनाशनं ॥

व्यजने वित्तनाशनं च धनलाभं च कच्छपे ।
चापे चौरभयं विद्याद्भास्करे च दरिद्रता ॥ (४-५ पृः)

6. From an examination of these names, it appears that they can be arranged in three groups as follows :

a. *Names common to all the mss* : *āyata*, rectangular ; *chaturasra*, square ; *bhadrāsana*, the beautiful site ; *chakra*, shaped like the wheel ; *trikoṇa*, triangular ; *sakaṭa*, shaped like the bullock-cart ; *kurma*, shaped like (the back of) a tortoise ; *dhanu*, shaped like a bow ; *surya*, shaped like the sun ; *daṇḍa*, shaped like a staff.

b. *Names regarding which there has been some typographical error:* *pralamba*, the elongated one ; *byajana*, like the fan ; *chhatra(?)*, like the umbrella ; *bisamabāhu*, with unequal arms ; *brihanmukha*(?), with a big mouth.

c. *Names which are not common to all the mss* : *Muchhandaka, Mruchhanda, Grihada ;* surikta, *sumurti ; harmyapitha.*

Of these, *āyata* brings prosperity in all matters ; *chaturasra* brings wealth ; *bhadrāsana* brings satisfaction ; *brita* or *chhatra* brings welfare (?) ; *chakra* brings poverty : *trikoṇa* is the cause of the king's displeasure ; s*akata* brings loss of wealth ; *daṇḍa* brings about the death of cattle ; *pralamba* brings about the death of an elder ; *brihanmukha* brings about the loss of wealth ; *byajana*, the loss of wealth ; *surya*, the loss of wealth and *bisamabāhu*, bereavement.

VII. Signs and indications at the time of the first measurement

(क) घरसुतिवा श्लोक ।। सूतपात प्रवक्ष्यामि सुरसम्भोवमेतधर ।। न गृह्न सुतध्रुवे ।।

अर्थ—घर सुता थरिवा बेले सुता छिड़ि गले के काहाकू खताई हेले एमन्त होइले से डिहरे घर न तोलिब। से डिहरे घर तोलिले गुरूस्थ नाम याई ।। (५-६ पृः)

(ख) एवे श्रत्रलक्षण कहीवा। षुत्रपात प्रबक्षामि। शुरसम्भोवने घर। तद् गृहीकं शुत्रधृवं। ल्नतु याती मानव। १। अर्थः शुता धरिवा बेले येबे छिड़ी याई नोहीले केहि खताई होई। एमन्त होईले से भूमिरे केही घर न करिव। से डोहरे घर कले आपणा स्वामो नाश याई। (३६ पृः)

शुता धरीबा बेले यदो बा उडीव। तेवे याणीम से घरस्वामी नास याई तहीं न रहीवः। (४० पृः)।

(ग) एवे भूमिरे खम्भ आरोपण करिबाकु सुतासुतमान पाति दीर्घप्रति करि वन्धमान धरिवाकु सुत्र पातिवा वेले स्वरभेदर लक्षण अलक्षण कहिवा। सुता धरि सुतिधरिबा बेले सुता हाथरु खसि गले विपत्ति पड़इ। सुता छाड़ि गले गृहस्थ मरइ।

(घ) सूत्रस्य छेदनात्क्षिप्रं दुःखं स्यान्मरणान्तकं।
अतो विधिविधानेन शान्तिहोम तु कारयेत् ।। (१५ पृः)

When the thread (measuring tape) is being laid on a building-site for determining the *bandha** of the place, and also the particular spot where the *subhastambha*

---

* See Chap, 6, § XX.

(the auspicious post), should be set up (indications regarding the future can be drawn from certain sounds heard at the time). This science of sounds, heard during the laying of the thread is being indicated here.

If the thread slips from the hand or is blown off (by the wind), or if anyone happens to make faces at the owner of the house at the time, one should not build there. In that event, even the title of 'householder' shall disappear (i. e. the person will not continue for long to be a householder).

(क) सुतविस्तार्यमानेन शङ्खशब्द यदा भवेत्। देवभूमि भवेतस मानव वर्ज्जये सदा ॥

अर्थ—सुता पारिवा बेले येबे शङ्खशब्द शुभइ से देवभूमि। तँहि मानवी न रहिव॥ (६ पृः)

(ख) श्लोकः। शुत्रप्रसारमात्रेण। संखं सव्द शुभे जदि। देवभूमि भवेजस्य। मानव वर्यए सदाः।

अर्थः। शुता धरिबा बेले येबे संख शब्द शुभई से देवभूमि तही मानव न रहोव। (३६ पृः)

If a conch-shell be heard at the time of laying the thread, then the spot is sacred to the gods; men should not live upon it. (It is usual to blow the conch-shell during religious ceremonies in India).

(क) श्लोक॥ सुतविस्तर्य्यमानेन महावात भवे यदि
व्रजअ दुसी भूमि वात हन्तो भवे तदा।

अर्थ। सुता धरिवा बेले येबे बा करिव से घर बारे भग्न होइ यिव। (६ पृः)

श्लोक॥ सुत्रप्रसादमात्रेण महावात शुभते यदि
वर्ज्जये तादृश भूमि वातये भाजते भवे॥

अर्थ। सुता पारिवा बेले येबे बड़ राव होइ जानिमा से घर बाये भग्न होइब। (१३ पृः)

(ख) श्लोकः। शुत्रवीस्तारमानेन। महावात भवे जदी। बर्यए तादृशं भूमि। बातभयं भवे जदो। अर्थः। शुता धरिवा बेले येबे बड़वात बोलन्ते की पवन बहई से घर बाए भग्न होई। (३९-४० पृः)

If the wind blows strongly at the time, the house shall be destroyed by storm.

(क) श्लोक सुतविस्तर्य्यमानेण शिलाघात यदाभूमि
भीमानासव्रसजदा वर्ज्जयेत् तदाभूमि। (७ पृः)
श्लोक सुत्रप्रसादमात्रेण शिलावृष्टि भवे यदि।
वर्ज्जए तादृशम् वस्त गृहभग्नापिजायते

अर्थ। सुता पारिवा बेले यदि शिलावृष्टि करइ जानिमा से घर शिलावृष्टिरे भग्न होइव। (१४ पृः)

(घ) येवे पथर बरषिव। बड़ आश्रय भाङ्गियिव॥ (१७ पृः)

If there be a hail-storm at the time, the house shall be destroyed in a hail-storm.

(क) श्लोक॥ सुत्र विस्तार्यमानेण उत्तरे गावहः श्रुते ससन्श्री सता तत भूमि। बर्ज्जते वास्मतः सदा॥ अर्थ। सुता देवा बेलकू उत्तर आड़े गाइ देखिले से भूमि श्रीहानि। वर्ज्जित करिब ताहा। (७ पृः)

श्लोक। सुत्रप्रसादमात्रेण उतगव हसते से समितत्रता भूमि व्रजते वास्तुत सदा।

अर्थ। सुता पाड़िवा बेले येवे उत्तर आड़े गाइ गरु देखिले जानिमा से भूमि राक्षसभोग्य होइ। (१२ पृः)

(ख) शुता धरिबा बेले येवे उतरदिगे गाई बोवाई। याणिम से भूमिरे सोरीहानी होई। (४१ पृः)

(ग) सुतविस्तार्य्यं मानस्तु गबाय रोदन्ते यदि। गोरु अस्थि विजानीयात्

मृत्येवास्तु यथार्थज्ञा। अर्थ। सुता पातिवा वेले येवे गरु बोबाइके बास्तुरे गरु हाड़ गोटाए थाइ। ना काढ़िले मृत्यु होइ।

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु धेनुः शब्दायते यदि ।
गवास्थिन्यत्र जानीयान्मृत्यूर्वास्तुपतेर्भवेत् ॥

सुता बेले गाई बोबाइ। से घरे गोरु हाड़ थाइ। घरुकु पञ्चभाग कर।
पूर्वादि तृतीय भागर ॥ अण्टाए खोलि हाड़ घेन। कुकुर हाड़ कथा सुन ॥ (१६पृ:)

If a cow be seen or heard bellowing towards the north, the site should be known as fit only for *rākshasas* to live upon. A man cannot be prosperous while living in such a place. (Also) if the cow bellows, then know that there is a piece of cow's bone in the ground. Unless it is extracted, the householder shall die. Divide the length of the site (from east to west) into five parts. The bone is in the third division from the east at a level which is waist-deep.

(क) श्लोक सुत्रविस्तार्य्यमानेण मास शब्द सुहते यदि ।
देत्रभूमि बिजानीया मनुष्ये व्रजते सद ॥

अर्थ—सुता देवा बेलकु येवे बड़ चहल शोभइ से भूमि देवताङ्कर तँहि बास न करिब। (८ पृ:)

श्लोक। सुत्रप्रसादमात्रेण महाशब्द शुभते यदि
तु देवभूमि विजानीयात् मनुष्य तत्र वर्ज्यये ।

अर्थ। सुता पारिबा बेले येवे बड़ चहल शुभइ। जाणिमा से भूमि देवभूमि तँहि बास न करिब। (१२-१३ पृ:)

(ख) सुता पातीवा बेले जदि बड़ चहल शुभई। जाणिम से भूमि राक्षस भोग होई। (४४ पृ:)

(घ) सूतार बेले बड़ शब्द। हेले देवभूमि जाणिव ॥ सर्व्वथा तहिं न रहिब। रहिल उपदर्प हेब। राक्षस देखिले न रहि। राक्षस भूमि जाण सेहि ॥ (१७ पृ:)

If a great noise be heard when the thread is being laid, know the place to be the abode of gods. Do not live there on any account. In that event, (the gods ?) will create trouble. (According to another version, such a site is a proper abode for *rākshasas*).

(क) श्लोक—सुत्रविस्तार्य्यमानेन माशं शब्द शुभते यदि। ५।
वर्ज्जते दुष्टवास्तम् च मरण तत्र न संशयः।

अर्थ। सुता पालिश्रा बेले यदि मासं शब्द शुभइ नहिले देखइ तँहि रहिले मरण निःसंसये होइ। (८ पृः)

श्लोक—सुत्रप्रसादमात्रेण मासंशब्द शुभते यदि
वर्ज्जयेवृसवस्तच्चम् मरण तत्र निःसंशयः।

अर्थ। सुता पारिबा येबे येबे मासम शब्द शुभइ नहिले देखइ जानिमा से मृत्युसंशये। (१३ पृः)

(ख) श्लोकः। शुत्रविस्तारमानेन मानवसब्द शुभे जदी।
वर्यए तत्र भूमिसा। मरण तत्र निसंसयः।

अर्थ। सुत्र धरिबा बेले यदि मांस देखई नोहिलें हे सुणई से घरे रहिले मरण निश्चयें होई। (४१ पृः)

During the laying of the thread, if.........be seen or...... heard, then doubtless there shall be death for one who lives upon it.

(क) श्लोक सूत्रविस्तार्यमानेण गीतशब्द शुभते यदि तेषा भूमि कोवरसा धन धान्यबहुपुत्रिका। सुता देवा वेळे येवे गीत (८-६ पृः)

(ख) श्लोक॥ सुत्र विस्तारमात्रेण गित शवद शुभते यदि॥ तेभूमि कुवेरस्य धनधान्य विहिता॥ सुता देवा बेले येवे गित सवद सुभई याणिमा वे तेवे से घरे धन वृद्धि होई। पुत्र बहुत होई। (४१ पृः)

If music be heard during the laying of the thread, then surely the land belongs to Kuvera (the god of wealth).



Rekha *deul*, Anantavāsudev Temple, Bhubaneśwar

In that house there shall be an abundance of wealth and progeny.

(क) श्लोक। सूत्रविस्तार्य्यमानेण दह्भूमि प्रजायते वाए तत्र विजानीय देश सवरजोस्त्र तथा। सुता पारिवा बेळे येवे अग्नि दह्न देखिव कि वा बह्वि आपनार देश हेले छाड़िव। (६-१० पृः)

(ख) श्लोकः शुत्रवीस्तारमानेन। दह्नो यदी दृस्यते। वर्यए नादसं भूमि। देसस्य परिवर्यएत। अर्थः। शुता धरिवा बेळे जदी अग्नि दह्न देखिव आपणा देस हेले छाड़ि पलाइव। (४१-४२ पृः)

If fire be seen at the time, then that place should be avoided. One should flee from the place even if it be one's own country.

(क) सुत श्लोक। सुतमास्तर्य्यमानेण मनुषेरादिते यदि। पचर पचम् पकि क्रियते भाग सुत्रेक। सुता पारिवा वेळे येवे मनुष्य कान्दइ…………जानिमा से डिहरे मनुष्यर हाड़ अछि। (११ पृः)

(ग) श्लोक सुत्रविस्तार्य्यमानस्तु रोदिते श्वासते अथवा नाभिमात्रस्थिते। सल्य मुण्ड माला त्रिनिर्द्दिशेत्। अर्थ। सुता पातिवा बेळे येवे लोके कान्दुथान्ति कासुथान्ति एमन्त बेळे जानिमा से वास्तुरे नाड़िमात्र गभीरे सल जे मुण्ड गोटिए थाइ।

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु रोदनं श्रुयते यदि।
नाभिमाने स्थितं शल्यं मुण्डमाला विनिर्द्दिशेत्।

सूता पातिवार लक्षण। कहिवा सावधाने शुन। मनुष्यमानङ्क रोदन। किअवा भयङ्कर स्वन॥ शुणिले शुभकु न देव। ए हाड़ थिवार जाणिव॥ घरकु षोलभाग कर। पूर्व्वरु ये पाञ्चभागर॥ अण्टागहीरे मुण्ड पाइ। एथि संशय किछि नाहिं॥ (१५-१६ पृः)

If a person be heard weeping or sighing when the thread is being laid, know that there must be human bones in the ground. Divide the length of the site (from east to west) into 16 parts. It the fifth division from the east, at a level which is waist-deep, you will doubtless find a human skull.

(क) सुत्रविस्तार्य्यमानेण स्वानभि रदिते यदि ददिमात्र प्रमाध्ये जमुतमत भागे वागण। सुता पारिवा बेले येवे··········कुक्कुर वोवाइ जानिमा से डिहरे मनुष्यर हाड़ अछि। (११ पृः)

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु कुक्कुरो यदि रुयते।
अचिरेणैव कालेन शूना निहत एव सः।

सूत्र पातिवा बेले येवे। श्वान वोवाए शुण तेवे ॥ कुक्कुर हाड़ थाए तँहि। वाहार करि शुभ देइ ॥ तार पूर्वरु तिनिभाग। अण्टाए गभीर करिब। श्वान हाड़ बाहार कर ॥ एमन्ते शुण सूत्रधर। अलप दिने श्वान योगे। गृहो पड़इ दुःखभोगे ॥ (१६-१७ पृः)

If a dog barks when the thread is being laid, know that there is a dog's bone (according to another version, human bone) in the place. Extract it before performing the auspicious ceremony. (After dividing the length into...parts) you will find the dog's bone in the third division from the east. Oh carpenter, you must remember this ; (otherwise) some danger from dogs will overcome the householder within a short time.

(क) श्लोक—सुतविस्तार्य्यमानेण मुण्डमुण्डितोय भवेत् मुण्डतत्र विजानिजात नेखत वस्तुभिलक्ष्मण। अर्थ सुता पारिवा बेले येवे लाण्डमुण्ड देखि जानिमा से डिहरे नाण्डमुण्ड अछि। त्रिभाग करते सूत्र देवङ्गी वचन्तिक नाभिमात्रमनुतं भूमि लेखते मुण्डमुण्डिक ॥ सुता तिनि भाग करिव सुता देवा वेले येवे मनुष्य देखि जानिमा मनुष्य मुण्ड अछि। ५४। से सुता चारिभाग करिवा पूर्व्वभागे गर्त्तरे हातक गहीरे अछि मुण्ड। (११-१२ पृः)

घटभमद···गेवत्। मृत्युका जोम्बोको रोदिशा ॥ (७ पृः)

(ख) श्लोकः। शुत्र विस्तार मानेन नाण्डमुण्ड दृस्यते जदी। दृष्ठायं घटभग्नस। जम्बूको रोदीताः। अर्थः। शुता धरिवा बेले येवे नाण्डमुण्ड दिसई देखीव। कीअवा घटभग्न देखीव। कोअवा मृतु पिण्ड देखीव। कोअवा जम्बूका राव देव। याणिम से डिहरे मुण्ड गोटाए अछि। सुता चारि भाग करिव। पूर्वभाग उपर गहिरे से मुण्ड अछि। (४०-४१ पृः)

If a shaven-headed man or rice-offerings to the manes be seen or the howl of a jackal be heard when the thread is being laid, know that there is a skull in the ground. Divide the thread (i. e. length from east to west) into 4 parts. In the eastern division (i.e. the first one), there is a skull at a level which is one cubit deep.

(क) श्लोक—सुत्र प्रसादमात्रेण महावृष्टिभवे यदि धनधान्य भवेवास्त शुभक्षणे भवे यदि। अर्थ। सुता पारिवा बेले येवे दिअ वृष्टि करई जानिमा से घरे धनधान्य पुत्र पुत्री अनेक होइ। (१३-१४ पृः)

(ख) श्लोकः। शुत्र वीस्तारमानेण शुरवृष्टि भवे जदी। धनधान्प भवे वास्तु। शुलक्षण भवे जदी। अर्थः। शुता पाडीवा बेले येवे दीअँ वृष्टि करई। याणीम से भूमिरे धनपुत्र बहुत होई। । :०: । (४४ पृः)

(घ) घरे सूता पातिवाबेले। सेठारे हीनवृष्टि कले॥ से राज्ये दुर्भिक्ष हूअइ। महा अरिष्ट होए तहिं॥ येवे अलप बरषइ। सुख नाहिं राज्य भाजइ।

If the gods send rain when the thread is being laid, there will be an abundance of wealth and of children in the house. If the rain be scanty, there will be no happiness and the king shall lose his kingdom.

(ग) सुतविस्तार्य्यमानस्तु गजध्वनिमुदामृत गज अस्थि विजानीयात् वास्तुभूमिमौ न संशय। अस्यार्थं। सुता पातिबा बेले येवे गजध्वनि शुभइ से

वास्तुरे गज ये हस्ती हाड़ गोटाए थाइ। ए सल न काढ़िले वास्तुभूमि संशय होइ।

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु गजशब्दो यदा भवेत् ।
गजस्यास्थि विजानीयाद्वास्तुभूमौ न संशयः ॥

येवे हाती गर्ज्जन हेब ॥ से घरे हातीहाड़ थिब। एहाकु एरुपे जाणिब। घर नवभाग करिव ॥ मध्यभागकु खोलाईले। बुकुए गहीर करिले। अवश्य हाती हाड़ थाइ। एरूपे एहा जणा याइ ॥ (१६ पृः)

If an elephant trumpets when the thread is being laid, then there is an elephant's bone in the place. Divide the length into 9 parts. In the middle division, at a level which is breast-deep, the elephant's bone is surely present.

(ग) सुत्र विस्तार्य्यमानस्तु हयध्वनि मुदाहृतं। हय अस्थि विजानिया सस्त तिष्ठति नान्यथा। अर्थ। सुता पातिवा बेले येवे हय बोबाइ से वास्तुरे घोड़ा हाड़ गोटाए थाइ।

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु हयशव्दो यदा भवेत् ।
तत्राश्वास्थि विजानीयाद्धनहानिर्भवेद्ध्रुवं ॥

घोड़ा हेषा येवे शुनिव। से घरे घोड़ा अस्थि थिव ॥ पूर्व पश्चिम घर हेब। घर तिनि भाग करिव ॥ पूर्वभागकु खोलाइब। नाभिए गभीर करिब ॥ अस्थिकि बाहार करिण। शुभकु देव निश्चे जान ॥ उत्तर दक्षिण गृहर। तिनि भागरे ये उत्तर। नाभिए गभीरता कर। हेब ए अस्थि ये बाहार ॥ (१६ पृः)

If a horse neighs when the thread is being laid, there is a horse's bone in the ground. Divide the length of the house from east to west or from north to south (according as it is longer one way or the other) into 3 parts. The bone is in the first division at a level which is navel-deep.

(क) मुण्डकम्वश्च सुश्रृहा दुष्टायाननीचसेत् ॥ (७ पृः)

(ग) मण्डुको ध्यानने चैब दृष्टिभेदे भवे गृहं । घटभेद भवेत्स गृहं जम्बुक रोदते । अर्थ । सुता पातिवा वेले येवे वेङ्ग बोवाई से घर गृहस्थ अत्राहि होइ । से घर अछुआ होइ । से वास्ततः ध्वस्त होइ । शिआल बोवाइ ।

If a frog croaks at the time, it will be impossible for the householder to live there. The house will be ruined. The thatching of that house will not be completed. Jackals will howl there.

(ग) श्लोक गर्धवो यस्य स्यात् परिवर्ज्जयेते रोदन्ते पूत्रकालस्तु ध्रुव मृत्यु विनिर्द्दिशेत् । सुता पातिबा बेले येवे गध ध्वनि शुभइ तेवे पुत्रशोक होइ । गृहस्थ मृत्यु होइ ।

(घ) गर्द्दभो शब्द्यते यत्र तद्गेहं परिवर्ज्जयेत् ।
काकोदृष्ट्या मुखं रौति ध्रुवं मृत्युविनिर्द्दिषेत् ॥ (१७ पृः)

If an ass brays when the thread is being laid, the householder will lose his son. The householder will die. If (also) a crow caws it denotes death without doubt.

(ग) सुत विस्तार्य्यमानस्तु पन्नङ्गो यदि दृश्यते अचिरेणैव कालेन स्वामीन हत पनग । अस्यार्थ सुता पातिवा बेले येवे सर्प देखइ तेवे अल्पदिने मरइ । सर्प खाइ ।

(घ) सूत्रे विस्तीर्य्यमाणे तु पन्नगो यदि दृश्यते ।
अचिरेणैव कालेन सर्पेण निहतो ध्रुवं ।

If a snake be seen at the time, (the householder) will die within a short time, bitten by a snake.

(ग) श्लोक । बकश्च सहसश्यचन वसल्याक्षरानि च । न चैव सुप्रसन्न सन बसल्या विवर्ज्जयते । अर्थ । सुता पातिबा बेले येवे बक देखि बाम पाखे से भूमि नुआ सल जे हाड़ गोटिए थाइ ।

If a crane is seen towards the left, there is new piece of bone in the ground.

(ग) श्लोक। शत्रू क्षयति निर्घोषे वसन्ति विप्रसद्गृहे। ज्योतिषो कथयानश्च कीर्त्तिश्च वित्तवर्द्धन। सुता पातिवा बेले येवे मेघ गर्ज्जन करइ दर्पणे प्रसाद् उत्तम।

If there is a peal of thunder when the thread is being laid, then, according to the science of Astrology, the householder's fame and wealth shall increase and enemies diminish in number.

IV. Determination of the Nāga's Position

According to the *silpasāstras*, it is imagined that a great serpent(nāga)lies encircling every building-site. Its body is divided into eight equal portions, namely the head, heart, stomach, navel, anus, knee, shin, ankle and tail. The serpent moreover moves round and round in a clockwise direction. Its head lies at the eastern point of the compass in the middle of the month of Āswina. It takes a year to come round to the same point. It is therefore possible to determine, on any date, where the different limbs of the nāga will lie along the boundary of the site. It is required in the *sāstras* that the auspicious pillar should be posted at certain points of the nāga's body in order to ensure good luck. The orientation of the door is also determined by the lie of the nāga.

VIII. The lie of the naga

(क) श्रीश्रीश्री वामेण सेअते नाग ५० कोटि मायेते अन्यत्रे तिखियाचम् पृथिवी जायते जायते सदा ।

श्रीश्रो-भाद्रव असाण कारितिषु सार नागसु पुर्वक । दक्षिणे उद्‌रे सैव पुष्टि सैव उत्तरे । पश्चिमे गोक्षसित अगोया सबलागुल तिभिमासे सुनिचल

मार्गसिरे पुष्य माघे शिर नागसु दक्षिणे । पश्चिमे मुदोरशैव पृष्टिसम्पुर्वक । उत्तरेण पुच्छघात नैशाए सबलागुल तिभिमासे सुनिचल ।

फाल्गुणे मधु वैशाखे शिरो नागसु पश्चिमे । उत्तरे उदरे सेव पुष्टि सैव दक्षिणे । पुवोस्य यदा पुच्छ बबेस्तीति लाङ्गुल तिभिमासे सुनिचल ।

जेष्ठ आषाढ़ श्रावणेषु शिरनागस उत्तरे पासि उत्तरेसैव पुष्टिसैक पश्चिमे । दक्षिणे यदा सक्ष ईशानेसैव लाङ्गुल (१४-१५ पृः)

(ख) एबे नाग परिणाम याणिमा। श्लोकः। वासेन सयने नाग। पथास केटो मीयुते। अनन्त ईती वीयात। पृथिवी यायते सदाः।

भाद्रव आसिन्य सिर नागो पृष्टके दखीणे उतरं चैव। पुष्ठं च एव उतरे। पश्चिमे शपुच्छस्थितं। अग्निए सर्वलाङ्गुल। त्रिभीमासे शुनीश्चल।

मार्गसिर पुस माघेण। सिर नागस्य दखिणे। पश्चिमे उदर चैव। पृष्टत चैवक पूर्वकं। उतरे पुछस्थितं। नैऋते सर्वलाङ्गुलं। त्रिभीमासे शुनोश्चल।

फाल्गुण्ये चैत्र वैसाखे सिर नागोशु पश्चिमे। उतरे उदर चैव। पृष्ठ चैंव क दखोणे। पूर्व्वस्यक (कृ?) दा पुछ। वाइवे स्थितो लाङ्गुलं। त्रीभी मासे शुनोश्चलं।

येष्ठ साढ़ श्रावणेशु। सिर नागस उतरे। पाटी ओष्ट सर्वचैव। पश्चिमे दखीणे जबा पुछ। ईसान्ये सर्वलाङ्गुल। त्रीभीमासे शुनीश्चल। (४४-४५ पृः)

(ग) श्लोक। तस्या ईशान भागेन स्तम्भरोपणमेव च। नागराजा क्रमेनैव ईशानं परिचिन्तयेत्। पूर्व्वे शिर भाद्रबाद्धे ३ मार्गे दक्षिणमस्तके ३ फाल्गुणे वारुणेन्धेसे ३ जेष्ठे उत्तरमूर्द्धणि ३। अस्यार्थ। भाद्रवाश्विनकार्त्तिक नागशिर पूर्व्वे थाइ। माग्रसिरपुष्यमाघ नागशिर दक्षिणे थाइ। फाल्गुनचैत्रवैशाख नागशिर पश्चिमे थाइ।

(घ) भद्रादौ तु शिरः पूर्व्वे मार्गादौ दक्षिणे शिरः।
फाल्गुनादौ शिरः प्रत्यक् ज्येष्ठादावुत्तरे शिरः॥

8. The nāga lies on its left side. During the months of Bhādra, Āswina and Kārtika, the head lies to the east, the back faces the north, the belly faces the south and the tail (extends from the western point of the compass to the S. E. point ?). It remains in that position for three months.

During the months of Mārgasira, Pousa and Māgha, the head is towards the south, the belly faces the west, the back, the east and the tail (extends from the northern point of



Miniature Khākharā Shrine, near Siddheśwar the compass to the s. w. point ?). It remains in that position for three months.

During the months of Phālguna, Chaitra and Baisākha, the head of the nāga is towards the west, the belly faces the north, the back, the south and the tail (extends from the eastern point of the compass to the N. W. point ?). It remains in that position for three months.

During the months of Jaisṭhya, Āsāṛha and Srāvaṇa, the head of the nāga lies towards the north, the belly faces the west, the back, the east and the tail (extends from the southern point of the compass to the N. E. point ?). It remains in that position for three months.

IX. The movements of the nāga

(क) अहिधर महिराज्ञा नित्य गम्य भ्रमन्तोह। चलित चरण दिने। षष्ट तिभि सतश्च। हिबहनयष्टसका। चाळते मेकपादेक त्रिभि त्रिभि त्रिभि मासे। (४८पृः

(ख) नाग येँउक्रृपे। नीत्यानी चलुअछि ताहा याणिमा। अचहर महीराया। निनीगौ मगती दोत्येँ च। चलीत चरण दीने दोने। अष्ट त्रिभिसतं च। दीबहत परिसंक्षा चलती मेक पादेन। त्रिभिमासे। (५३-५४ पृः) ईशान्य कोण माडि नाग चलुछि। ५। (५३ पृः)

(ग) वास्तु प्रमाणे न हि तस्य गात्रं वामेन सेति समतित कालं।
त्रिभिनमासे परिनुत्य भूमौ तं वास्तु नाग प्रवदन्ति सिद्धाः। अस्यार्थः।

वास्तु येते सर्पगात्र ये देह तेनोहि। वाम अङ्ग माढ़ि सोइ थाइ। तिनि मासे भूमौक बोलन्ते दिगे लेखाए खाउ थान्ति। वास्तु नाग एमन्त बुलि सिद्धमाने ऋृषिमाने बोलन्ति।

पूर्व्वा दिक्षु शिरः कुर्व्वा नागणेते त्रिभिः त्रिभिः।
भाद्र वा दैर्वामुपार्श्वं तस्य चक्रते शुभं गृहं॥

नागशिर पूर्व्वं थाइ। ईशान कोणठारु तिनि मास दिगे लेखाए याइ। ए तिनि मास ये ९० दिन एमन्ते दिग नउ ९० भाग होइ। एमन्ते ९० दिने दिगभोग करइ। एहि प्रमाणे पूर्व्वं दक्षिण पश्चिम उत्तर ए चारि दिग चलइ एरूपे।

(घ) तिनि दिग माड़ि शुअइ। दिगक अनाक्रान्त थाइ॥
वामपारुश माड़ि नाग। शोइण वास्तु करे भोग॥
ऐशान्य कोणु आद्य होइ। तिनि मास पूर्वं रहइ॥
वास्तुर येते पूर्वदिग। दिनकु दिन करे भोग॥
नउ दिवसे शेष होइ। दक्षिणदिगकु माड़इ॥
एहि प्रकारे चारिदिग। भोग करइ वास्तुनाग॥ (१३-१४ पृः)

9. During the months of Bhādra, Āswina and Kārtika, the head of the nāga lies towards the east. On the first day of this quarter, the head lies exactly at the N. E. point of the compass, while on the last day it lies similarly at the S. E. point. The head of the nāga thus moves one degree every day, in a clockwise direction.

In this connection, it is said in one of the passages quoted above that the nāga covers by its length that portion of the boundary which subtends an angle of 270° at the centre leaving an angle of 90° open. It should be noted however that this does not agree with the opinion quoted in the previous article.

X. The eight divisions of the nāga's body

(क) चत्रुश्रम भवे यदा नाग तत्र प्रमाणश्च विष्ठातो लांगुलमुखः। नागते यत्र हस्तश्च भागसै आते तथा। भागसत तालमेको सारस्या दुगुण तद्रुधो। सिरहृद्र मुदरसो नाभि पुच्छ जानुजङ्घ। आनुसैव लाङ्गुलेश्च जानिमा वृद्धसदात॥ ताल मेको फेणाभाग द्विताल हृदभा तथा। तृभमुउदरेशैव चतुर्थ ताळ नाभि



Vaitāl *deuḷ*, Bhubaneśwar

दस्यति। गुहिजे पञ्चतालञ्च षष्ठताल या जङ्घनः सपतताल अन्टास्तेव पुच्छे चाष्ठमेवचम्। (१५-१६ पृः)

(ख) गृहस्य यत हस्तं च। चतृश्रम भवे जदा। नाग तत्र प्रमाणं च। पृष्ठतो लांगुले मुख.।। नाग सेभे जत हस्तं च। भाग तस्य कारए तथा। भागस्य तालमेको। सीरसा दुगुणं तदाः। तालमेको फणाभागे। द्यय ताल द्ययस्तथाः। त्रीअ ताल उद्रे चैव। चतृताल नाभीदेसक। हृदए पञ्चतालं च। सष्टताल यानुजंघन। सप्ततालं आन्टु चैव पुछे च अष्टमेवचः।। (४५-४६ पृः)

(ग) नागसिर आठताल वेवर्त्तांना सर्प येउ मासे येउ तिनि दिग माढ़ि थाइ तिनि दिग माढ़िले येते हाथ होइ आठभाग करिव। आठभागर संख्या। श्लोक। ताल मेको फणाशिरः द्विताल कण्ठस्तस्ता। त्रिभिताल हृदयेश्चैव चतुर्तालोदरं भवेत् पञ्चताल नाभिश्चैव षष्ठताल गुहकस्तथा सप्तताल जघनश्चैव अष्टतालश्च पुच्छये। अस्यार्थ नागर ये शरीर आठताल।

(घ) अष्टभाग कृत्वाभूमिः प्रथमं शिर उच्यते।
द्वितोये हृदयं चैव तृतीये जठरं तथा।
चतुर्थ नाभिकं विद्यात् पञ्चमं गुह्यमेवच।
षष्ठं स्याज्जानुदेशं च सप्तमं जघनं तथा।
अष्टमं पुच्छभागं स्यान्नागराजः प्रकीर्तितः।। (१४ पृः)

10. Divide the line along which the nāga lies into 8 parts. The first portion forms the nāga's head, while the rest constitute the heart, belly, navel, anus, knee, shin and tail. According to another reading, the length should be divided into 9 equal parts, of which the head is constituted by the first two, the rest being formed by the remaining divisions.

When the position of the nāga has thus been determined, various religious ceremonies are performed before the actual commencement of building-operations.

One of these is the setting up of the auspicious pillar called *subhastambha*. This pillar should only be posted at certain points of the nāga's body.

XI. Where the pillar should be posted on the nāga's body

(क) नागर स्थम्भ जहि पड़िले घटदारापुत्र प्रणाशे भीति। खनमस्तेके नाग गराहि श्रीसम्पद यदि जष्टरे। श्रीवभोग्य रूपते नाभि ख्यातोतु जातर त्रिसोभ एदुम्र देशविरोध॥ जानुदीर्घ सवासोक्ष क्षतावलतघ्र सोदेशश्वरोगी॥ सीरो मृतु भये विद्वात्। पिठि शोक दारिद्रेक पुच्छे विविधभोग्यानि। क्रोटेण अर्थ-सम्पद शिर थम्भे भवे मृन्यु। प्रुहा पुत्रशोक पुच्छ साधननासस्य। उदरे सर्व्वसम्पद॥ (१६-१७ पृः)

(ख) नागर येँउ स्थाने खम्ब पड़ई तहीँ लक्ष्यण कहीवा। अर्थः। सिररे मृतु दिअई। पुष्टेरे सोक संन्ताप द्यई। क्रोडरे अर्थ दीअई। गलारे पुत्रसोक होई। पुछ उदरे धनधान्य वर्धमान होई। (४६ पृः)

(ग) शिरः सा पृष्ट पुच्छाभ्याः शश्रृशेतदिगम्तत्र शयने वाम पार्श्वेन तस्य क्रोते शुभं गृहं। अर्थवार्थ। शिर मस्तक पृष्ट वोलन्ते पिठि। पुच्छ वोलन्ते लाञ्ज सश्रु श्वेत वोल तिनि दिग माढ़ि थाइ। वाम अङ्ग माढ़ि शोइ थाइ। तस्य क्रोटं शुभं गृहं। गृह वोलन्ते क्रोट वोलन्ते पेटरे गृह शुभ देले सर्व्व भोगादि होइ।

* * * *

केँउ तालरे शुभ देले कि होइ। श्लोक। दारापत्य प्रणाशो भवति च खनने मस्तके नागराज्ञि श्रीसम्पत्ति प्रभुतो यदि हृदय जठरेस्य व भोगौरूपेत। नाभि गात्रे रतिशयभयदो गुहसं देहभोगं। जानु दीर्घप्रवासो खलुमपि शेषये पुच्छदेशे विरोधः। अर्थ। सर्पर मस्तक ये फेणा ए फेणारे शुभ देले गृहस्थ पुत्रनास याइ। खनन वोलन्ते कण्ठ। एथि शुभ देले भार्य्या नाश याइ। हृदयरे शुभ देले श्रीसम्पत्ति नाश याइ। जठर ये पेट एथि शुभ देले सकल भोगादिमान होइ। नाड़ीरे शुभ देले शत्रुभय होइ। गुहरे शुभ देले भोग करइ। जानुरे शुभ देले

गृहस्थ दीर्घ प्रवासी होइ। गृह भोग करि न पारइ। पुच्छरे शुभ देले विरोधमान होइ। एमन्त होइ नाग अष्टशरीर अष्टताल विवेचना। संक्षेप करि बुध ये पण्डितमाने वास्तु अर्घ देले से गृहेरे गृहस्थ अत्यन्त सुखार्त्ति पाइ। श्रीसम्पत्ति पाइ। इति नागपरिमाणसमाप्ति।

(घ) दारापत्य प्रणाशो भवति च खनने मस्तके नागराज्ञः।
श्रीसम्पत्तिः प्रभुत्वं यदि हृदि जठरे सर्वभोगैरूपेतः॥
नाभौक्षीणं त्वराते रतिशयशुभदो गुह्यदेशे च रोगे।
ज्ञान्वेर्दीर्घप्रवासी क्षयमपि जघने पुच्छदेशे च मृत्यु॥ (१४ पृः)

11. If the hole for posting the auspicious pillar be dug at the head of the nāga, the wife and children of the householder will die ; at the heart and belly, wealth, prosperity and the enjoyment of power will follow ; at the navel, the enemies of the householder will be overtaken by misfortune and good luck follow him instead ; at the anus, sickness will follow ; at the knee, the householder will .have to live away from home for a long time, and death shall come if the pillar be posted at either the ankle or the tail.

If the pillar be set up towards the back of the nāga, bereavement will follow, while prosperity will come if it is placed towards its lap.

XII. Where the door should be fixed with reference to the body of the nāga

(ग) नागविधि द्वारलक्षण॥ नागस्थान स्थान द्वारे विश्वकर्म्मा च भोषित दोषगुण समासाद्य कथितं वास्तुविस्तर॥ अर्थ। नागर स्थान मनि द्वार करिब। एमन्त बोलि विश्वकर्म्मणि वोइले दोषगुण मनि बुझि नाग स्वस्थाने द्वार कले धनजन बहुत होइ। घर शुभकाले येमन्त नागर आठताल बुझि हृदय जठरे

शुभ देइ एवे सेहि प्रकारे करि परिणाम करि बुझि नाग हृदयरे जठरे द्वार करिब। ए भल होइ। आउ स्थानमानङ्करे घर कले विरोध होइ।

12. The position of the door should be fixed from the position of the nāga's limbs. Viswakarmā says that if the effects of placing the door-way in relation to the limbs of the nāga are taken into consideration before fixing its position, then great prosperity will be enjoyed by the householder.

Locate the eight limbs of the nāga ; then place the door at either its heart or its stomach. That will bring good luck. In any other case, dangers and strife will follow.

V. Astrological Considerations

XIII. The effects of building in different months of the year

(क) चैत्र्ये व्याधि माघेति। वैशाखे धन सम्पूर्ण। जेष्ठेन पशुचेव। आषाढ़े पशुनाशनः। श्रावणे ब्रह्महानि। भाद्रवे हानि रोगिणः। असिने जन दारिद्रे च।

(२०-२१ पृः)

कार्त्तिके धन नाभय। माघेण बहु शोक घृता। फाल्गुने बहु पुत्रीय। (१६ पृः)

(ख) एवे बारमास भल मन्द कहीबा। श्लोकः। चैत्रे व्याधि तीष्ठन्ति। वैसाखे धनसम्पद। येष्ठेन पशु चौर्य्या च। आषाढ़े पशु नाशनं। श्रावणे बहुहानी च। भाद्रवे बहु रोगीणो। आसिन्ये जन नश्यन्ति। कार्तिके धन लाभक। मार्गसिरे बहुधन चैव। पुसेणं टस्करं भवेत। माघे बहु सोकं च। फाल्गुने बहु पुत्रकं (४८ पृः)

(ग) एवे गृह मासफल कहिबा।

श्लोक। चैत्रे च शोकमवाप्नोति। गृहकारयेन्नरः।
वैशाखे धनरत्नानि। जेष्ठ्ये मृत्यु विनिर्द्दिशेत्।
आषाढ़े धननाशश्च। पशु वृद्धिमवाप्नुयात्।
श्रावणे भूमिलाभाय। हानि भाद्रपदे तथा।
पत्नी नाशश्च वाश्विने। बहु धान्यानि कार्त्तिके।
मार्गशिरे धनः प्राप्ति। पौषे चौरभय तथा।
माघे अग्निभयं कुर्य्यात्। फाल्गुणे काञ्चनं भवेत्॥

अर्थ। चैत्रमासरे शोक जात होइ। वैशाखे धन रत्नानि होइ। जेष्ठे गृहस्त मरइ। आषाढ़े धन हानि होइ। श्रावणे भूमि लाभ होइ। भाद्र मासे सर्व्वहानि होइ। आश्विने भार्य्या मरइ। कार्त्तिकरे बहुधन होइ। मार्गशिरे बहुधन होइ। पौषे चौरभय होइ। माघरे अग्निभय होइ। फाल्गुने धनपुत्र होइ।

(घ) वैशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्युविनिर्द्दिशेत् ।
आषाढ़े धनलाभं च पशुबृद्धि मवाप्नुयात् ॥
श्रावणे भूमिलाभः स्याद्धानि भाद्रपदे तथा ।
पत्निनाशश्चाश्विने च बहुभार्य्या च कार्त्तिके ॥
मार्गशोर्षे धनावाप्तिः पौषे चौरभयं तथा ।
अशुभं च भयं विद्यादग्नि माघे विनिर्द्दिशेत् ॥
फाल्गुने काञ्चनं पुत्रं चैत्रे च शोकवान भवेत । (५ पृः)

13. *Vaisākha* brings wealth; *Jaisṭhya*, theft of cattle or death ; *Āsāṛha*, the death of cattle; *Srāvaṇa*, great loss (the acquisition of landed property, according to another version) ; *Bhādra*, loss and illness ; *Āswina*, famine in the land (?) or loss of one's wife ; *Kārtika*, gain of wealth or the acquisition of many wives ; *Āgrahāyana*, wealth ; *Pousa*, theft ; *Māgha*, bereavement or danger from fire ; *Phālguna*, abundance of progeny or gold and progeny ; *Chaitra*, sickness or bereavement.

XIV. Effects of building in the light or dark half of the month

(क) कृष्ण शुक्ल वेणी पक्षर कथा ॥ श्लोक ॥
शुकलपक्षे भवे सुख्य कृष्णेण टसकर भवेत्
तैम्बच्या विचार कृतइव यदि चेत महाहानि ॥ (२१ पृः)
(ख) कृष्णपक्षे तस्कर चोरभय होई । शुक्लपक्षे शुख सम्पद देइ । (४६ पृः)

14. If the building-operation is begun during the dark-half of the month, then there will be danger from thieves ; if, on the other hand, it is begun in the light-half, there will be prosperity and happiness.

XV. Effects of building on different days of the week

(क) भास्करे शुभदायक। नृपभय रविसुते भूमिपुत्रेन नाशकः। गुरुशुक्र बुधवारेन गृहकर्म्मानि कारये। इति वदति वगहे ॥ ५ ॥ (२१ पृः)

(ख) एते सात वा लक्षण कहिब। शशि क्लेश दारिद्र च। भास्करे शुभदायकः। अग्निभये गविपुत्रे। बुध गुरु शुक्रवारेण। गृह कार्य्यानि कारए (४६ पृः)

(ग) वारशुद्धि ॥ शशि कलह दारिद्र्ये। भास्करे ह्यग्निदाहे शाकविल च रविपुत्रे भूमिपुत्रे मृतेषु। बुधगुरु कविवारे सस्तलग्ने प्रशस्ते इति वदति वराहो। ……अर्थ। गृहाघट देवाकू। सोमवारे कलह होइ। दारिद्र्य होइ। रविवारे अग्निदाह होइ। शणिवारे शोक होइ। धनक्षय होइ। मङ्गल वारे मृत्यु होइ। बुधवार गुरुवार शुक्रबार ए तिनि वारे गृह ईशान कले धन सम्पत्ति होइ। बारफल।

वदेयं भवति भानु दिने अर्थनाशः
शौरेरपि क्षितिसुतस च वज्रघातः।
प्रासादसद्मपुरपुष्करिणोक्रियासु
धम्मार्थं वाञ्छित फलानि शुभाग्रहानि।

(घ) वन्हेर्भयं भवति भानुदिनेऽर्थनाशः।
शौरेर्दिने क्षितिसुतस्य च वज्रपातः।
प्रसादसद्मपुरपुरष्करिणी क्रियासु।
धम्मार्थवाञ्छितफलानि शुभग्रहाणां ॥

सोमवारे कलह होइ। दरिद्र होइ दिन याइ॥ रविवारे अग्निभय। शनिवारे धनक्षय॥ आबर शोकहिँ दिअइ। मङ्गले वज्रपात होइ। गुरु भार्गवा बुध तिनि। शुभे प्रशस्त एहा घेनि। (६-७ पृः)

15. Monday brings strife and poverty ; Tuesday, death from stroke of lightning ; Wednesday, Thursday and

Friday bring good luck to the householder ; Saturday, danger from fire or bereavement or the king's displeasure ; Sunday brings good luck or danger from fire (according to another version).

XVI. Effects of building during different phases of the moon

(क) पञ्चमे उच्चाटने तथा दशमी चोरभय। एकादशो नृपतिभय। अमिवै पति न सहन्ति। भार्य्या ना सहन्ति पूर्णिमा। पञ्चदश तिथिच्चैव। नवमी परिवर्ज्जये नन्दा अर्धक्षय जातु॥ भद्रर्द्ध परिवर्ज्जये। यया निधने पुत्रेश्चैव। रुज आप सु परजाक्षत्र। पूर्णत पतिक्षआत। ईश्वाने तेषु भाशुभु। (१६ पृः)

(ग) तिथिशुद्धिः। प्रतिपद गृहकार्य्यञ्च दुःख प्राप्नोति नित्यसः। अर्थक्षय तथा षष्ठि पञ्च मोच्चाटनं तथा। चौरभय दशम्यञ्च एकादशी द्वादशि नृपाभयात। पत्नीनाशञ्च पौर्णमास्या पतिनाशो कुहुस्तथा। अस्यार्थ। गृहीमानङ्कु प्रतिपदारे दुखी होइ। षष्ठीरे धनक्षय होइ। पञ्चमिरे उच्चाटन होइ। दशमीरे चौरभय होइ। एकादशो द्वादशीरे राजभय होइ। पौर्णमीरे .भार्य्या नाश याइ। अमावस्यारे गृहस्थ मरइ। चतुर्थी नवमी चतुर्द्दशी ए तिनि तिथि रिक्त। एथि गृह शुभ देले शस्त्रभय होइ। द्वितीया सप्तमी चैव तृतीया अष्टमि त्रयोदशी पञ्चे ते धनरत्नानि स्थम्भलग्नो शुभेक्षणे। द्वितीया सप्तमी तृतीया अष्टमी त्रयोदशी ए पाञ्च तिथिरे गृहार्घ देवाकू शुभ। स्थिर लग्न हेब। शुभ वेल हेब। एमन्त हेले शुभ हेले श्रीसम्पत्ति होइ। तिथि फलमाह। नन्दानाः करि ज्ञेया भद्रा मङ्गल नामदा। न रिक्त च शुखं वित्तं पासोयच्छन्ति यायइ। मृत्यिजच्छन्ति रिक्तन्ति गृहारम्भे शुतां त्यजेत्। कुहुन्दुरि तदा ज्ञेयाभ पूर्णा लक्ष्मी प्रजच्छति। पौर्णम्या लक्ष्मीकर।

(घ) गृहं कृत्वा प्रतिपदि दुःखं प्राप्नोति नित्यशः।
अर्थक्षयं तथा षष्ठ्यां पञ्चम्यां चित्तचञ्चलः॥
चौरभीतिर्द्दशम्यां तु चैकादश्यां नृपाभयं।
पत्नीनाशञ्च पौर्णम्यां स्थाननाशः कुहौ तथा॥

रिक्तायां सर्वकार्य्याणि नाशमायान्ति सर्व्वदा ।
द्वितोया सप्तमी चैव तृतीयाष्ट त्रयोदशी ॥
पञ्चसु स्तम्भकर्म्माणि स्थिरलग्ने शुभेक्षणे ॥ (६ पृः)

16. If the building-operation is begun on the first day (after either the new or the full moon), one is sure to be overtaken by sorrow ; the sixth brings about loss of wealth, while the fifth brings unrest of mind. The tenth causes loss from theft, while the eleventh brings about the king's displeasure. The full moon causes the death of one's wife, while the new moon brings about loss of landed property (?). The fourth, ninth and the fourteenth (commonly known as *rikta*) are responsible for the frustration of all efforts. The second, seventh, third, eighth and thirteenth are favourable for performing the ceremony of the auspicious pillar.

XVII. Rabisuddhi

(ग) रविशुद्धिः श्लोक । यत्रराशिस्थितं सूर्य्यः त्रिषष्ठदशलाभक एकादश द्विपञ्च नवमोप्यष्टा त्रयोदश विनात्परं । प्रथमे रविगोचर शुद्धि होइव । तृतीय षष्ठ दशम एकादश इये चारि राशिरु एक राशि होइव । २य ५म ६म ए तेर दिन उतारु शुभ होइ । आऊ पाञ्चरासि जन्म १ चतुर्थ ४ सप्तम ७ द्वादश १२ अष्टम ८ । एतेथारे सूर्य्यं थिले विघ्न होइ । रविशुद्धि । जन्मन्यर्कं त्यजे विद्वान यदीच्छेद्दात्मनः शुभं । जन्मन्यर्कें समायायो भार्य्यापुत्रादि संक्षय । द्वितीये धननासस्यात् । तृतीये धनसम्पदः । चतुर्थे बन्धु वैषम्यं । पञ्चमे पुत्रसंक्षय । षष्ठे धनादि सम्प्राप्ति । गृहच्छिद्रं तु सप्तमे । अष्टमे म्रियते भर्त्ता । नवमे कीर्त्तिनाशनं । दशमे धनधान्यादि । धर्म्मश्चैकादश रवौ । शोकव्याधि विपर्द्धन्न विरधा द्वादशे स्थिते ॥ इति रविशुद्धिः ।

(घ) जन्मराशेः शुभः सूर्य्य-स्त्रि-षष्ट दश लाभगः ।
द्विपञ्च नवमोऽपिष्ट त्रयोदश दिनात्परं ।।

ए अन्ते रविशुद्धि शुण। गृहकर्मरे ये कारण ।। तृतीय षष्ठ ये दशम। एकादश घेनि उत्तम ।। द्वितीय नवस पञ्चम। तेरदिन अन्ते उत्तम ।। जन्म चतुर्थ सपतम। द्वादश आवर अष्टम ।। पाञ्च राशिरे सूर्य्य थिव। सर्वदा शुभकु न देव ।। (६ पुः)

17. The zodiacal sign in which the sun was present during the birth of a person is his birth-sign. That person should not set the auspicious pillar (*i. e.* begin building-operations) when the sun is in the same position. Counting that as one, the third, sixth, tenth and eleventh bring good luck to the builder; the second, fifth and ninth are also auspicious (after the expiry of the first thirteen days ?). Never begin operations on the first, fourth, seventh, eighth and twelfth signs.

(According to another version) the second brings about loss of wealth; the third, wealth and prosperity; the fourth, loss of friends; the fifth, death of children; the sixth, acquisition of wealth; the seventh, division in a household; the eighth, loss of one's wife; the ninth, loss of fame; the tenth, wealth and prosperity; the eleventh, religious merit; the twelfth, strife, bereavement and sickness,

XVIII. The influence of the zodiacal signs

(ग) वृष। सिंह। विछा कुम्भ वेश्मकार्य्यं शुभक्षण।

18. Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius are auspicious in connection with building-operations.

XIX. The influence of the constellations

(ग) नक्षत्रफलं। आदित्यादय रोहिणी मृगशिरो जेष्ठा धनिष्टा उत्तरा। पौष्य विष्णुमृगानुराधा गुरुहि शुद्धे सुपुत्रान्विते। सोम्याना दिवसेथ पापरहिते योगेभिरिक्तै तिथौ। विष्टित्यक्तदिने वदन्ति मुनयो वेश्मादि कार्य्य शुभा। अर्थ। गृह स्थम्भारोपणकु नक्षत्र शुभफलं। आदित्य द्वय बोलन्ते। १३।१४।१५।४।५।१८।२३। १२।२१।२६।२२।१८।१७।८ एते नक्षत्र शुभफल अटइ।

(घ) अदित्यद्वय रोहिणी मृगशिरा ज्येष्ठा धनिष्ठोत्तरा।
पैष्णा विष्णु मघानुराधगुरुभिः शुद्धैः सुतारान्वितैः॥
सौम्यान्यां दिवसेऽथ पापरहिते योगेऽतिरिक्ते तिथौ।
विष्ठित्यक्तदिने वदन्ति मुनयो वेश्मादिकार्य्य शुभं।
(अन्यच्च) अश्विनी रोहिणी मूला ह्युत्तरात्रयमेव च।
स्वाती हस्तानुराधासु स्तम्भारम्भः प्रशस्यते। (७ पृः)

(ग) विष्णे देवाग्निभये श्रवणाभयमेवच धनिष्ठाबहुभोगञ्च वरुणं मरणभवेत्। अजपादे भय कुर्व्वादोषे शरण पञ्चक। अश्यार्थ उत्तराषाढ़ारे गृहकर्म्म कले अग्निभय होइ। श्रवणा नक्षत्रे गृहकर्म्म कले भय होइ। धनिष्ठा नक्षत्रे गृहकर्म्म कले रोगी होइ। शतभिषा नक्षत्रे गृहकर्म्म कले मृत्यु होइ। पूर्व्वभेदे नक्षत्रे गृहकर्म्म कले नृपभय होइ। एमन्त होइ पाञ्च नक्षत्र दोष।

(ग) धनु मीनयोर्मध्ये यदि गच्छति चन्द्रमा।
न हरे तृणकाष्ठादि न गच्छे दक्षिणामुखे।

अर्थ। चन्द्रमा धनु छाड़ि मकर चन्द्र येवे प्रवेश होइ मकर कुम्भमीन सरि याए शरण पञ्चक।

(घ) धनुर्मीन द्वयोर्मध्ये यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः।
न छिन्द्यात्तृणकाष्ठादीन्नगच्छे दक्षिणां दिशं॥ (८ पृः)

VI. Astrological Considerations (contd.)

XX. Bandha

(क) द्रघत्रा जत्रहस्तश्च । प्रत हस्तेन गुणएते । अष्टाभि हरते पिण्ड । सेम (स ?) बन्ध आयते । (२६ पृः) धज १ । धृमि २ । सिंह ३ । स्यान ४ । वृष ५ । खर ६ । गज ७ । धनस ८ । (५० पृः)

(ख) दीर्घवाजतहस्तश्च । प्रती हस्तं च गुणएत । अष्टमभिहरते पिण्ड । शेस बन्धस्य उच्यते । श्री । ध्वज्ञ । धूम्र । सिंह । श्वन । वृष । खर । गज । ध्वज्ञ । ८ । ए अष्ट बन्ध । (५० पृः)

(ग) घर बन्ध घराणकु धराण धार । वास्तुभूमि येते वखराकु येते हात होइ एहाकु दीर्घ बोलि । घरर गभीरकु प्रती बोलि । दीर्घ हाथ थोइ प्रति हाथ गुणिमा । गुणन्ते गुणना घन येते होइ एहाकु वास्तुर घनहाथ बोलि । ए घनहाथ उपर करि थोइ थाई । ए धराण मानङ्क मुल राशिटी । तल करि एहा घनहाथ थोइवा । अष्टवन्ध धराण निमिते आठभागे हरिब । उपरे शेष येते अंश रहिला । ए घरर बन्ध होइ । ध्वज धृम सिंहायुश्वानवृषखरस्तथा । गजध्वसायाते चैव गृहबन्ध स उच्यते । अस्यार्थ । एक वन्ध्व हेले ध्वजबन्ध होइ । दुइ बन्ध हेले धृमबन्ध होइ । तिनि बन्ध हेले सिंह बन्ध होइ । चारि रहिले स्वानबन्ध होइ । पाञ्च रहिले वृषबन्ध होइ । छय रहिले खरबन्ध होइ । सात रहिले गजबन्ध होइ । आठ रहिले ध्वसबन्ध होइ । एमन्ते अष्टबन्ध जानिमा ।

(घ) व्यासेन गुणितं दैर्घ्यमष्टाभिर्भाजितं पुनः ।
शेषं ध्वाजादिकं ज्ञेयं पूर्वादिभवनाष्टके ॥ (६ पृः)

20. Multiply the length by the breadth of the house and divide the product by 8. If the remainder be 1, then the *bandha* of the house will be *dhwaja* or the flag. Similarly if it is 2,3,4,5,6,7,8 (*i.e.*0), the *bandha* will be as follows, *dhumra*,



Paraśurāmeśwar Temple, Bhubaneśwar

smoke ; *singha*, lion ; *swāna*, dog ; *brisha*, bull ; *khara*, ass ; *gaja*, elephant, and *dhwānkha*, crow.

XXI. Their effects

(घ) ध्वजे विभूतिर्मरणं च धूम्रे ।
सिंहे जयः श्वा च करोत्यनर्थं
भोगो वृषे हानिकरः खरे च ।
पुष्टिर्गजे काकपदे च दुःखं ॥ (१० पृः)

21. *Dhwaja* brings riches ; *dhumra*, death ; *singha*, victory ; *swāna*, troubles ; *brisha*, enjoyment ; *khara*, loss ; *gaja*, growth (?), and *dhwānkha*, sorrow.

XXII. The use of a house determined by its bandha

(क) धजे देवगृह कुजात । धृमेण हुमशालेक । सिंहेन स्नघरचैव सुनेण कुट-शालेक । वृ वृषवे घर वात वृतात । खरेन अशशालेक । गजेन रत्नघर कुजात । धसेन सहस्र शालेक । (५० पृः)

(ख) जेउ बन्धरे जेउ घर करिव ताहा जाणिमा । श्लोक ।
ध्वजे देवगृहं कुर्य्यात् । धूम्रेण होमसालिका । सिंघेण शिरिघरं कुर्य्या ।
(५१ पृः)

(ग) एवे केँउ घर केउ बन्धरे तोलिवा ताहा जानिमा । ध्वजेन देवगृहं कुर्य्या धृमेन होमशालकं । सिंहे श्रीघरं कुर्य्यात् स्वाने कुटीनशालक वृषे अन्तःपुर कुर्य्या खरे पशु नियोजयेत् । गजे भण्डारकश्चैव । धुम्रे नं शस्त्रशालकं । अर्थ । ध्वजबन्धे देवगृह करिब । धुम्रबन्धे होमशाला करिब । रसुअ घर करिब । खन्धा-घर करिब । सिंहबन्धे श्रीघर । श्रीघर वोलन्ते यौ घर बड़ से घर वेहेरन भोगादि करिब । स्वान वन्धे नानाप्रकार वुटुनि घरमान वलन्ते ये पवनयन्त्रघर एमन्त नाना कुटुनि घरमान होइब । वृषवन्धे अस्तेःसरपुरकु जात वोलन्ते । आपनार अङ्गभोग करिबा । कुटुम्व्यादि घर करिब । खरवन्धे हातीशाला घोड़ाशाल

पशुजन्तुमानङ्कु शाल करिब। गजे भण्डार वोलन्ते भण्डार करिब। गन्ताघर करिब। द्रव्य थोइवा घर ये ताहा करिब। ध्वंस वन्ध शस्त्रशाल वोलन्ते झिमिसाल घर साञ्जेघर किअवा सैन्याघर करिब। एमन्ते अष्टबन्ध अष्टप्रकारे घर करिब।

(घ) ध्वजे देवगृहं कुर्य्याद्धूम्रे च होमशालकः।
सिहे च श्रीगृह कुर्य्यात् श्वाने कुट्टणीशालकः ॥
वृषे अन्तःपुर कुर्य्यात् खरे पशून्नियोजयेत्।
गजे भण्डारकं चैव ध्वांक्षे च शस्त्रशालकः ॥

22. Now is being indicated the *bandha* with which each apartment should be made. The sanctuary should have *dhwaja* as its *bandha*; the cooking apartments should be of *dhumrā bandha*; the state-apartment, of *singha bandha*; the place for husking corn, of *swāna bandha*; the inner apartments, of *brisha bandha*; the stable for horses, elephants and other animals, of *khara bandha*; the store-room should have *gaja* as its *bandha,* while the armoury and soldiers' barracks should be of *dhwānkha bandha.*

It would appear from a consideration of the above passage that the length and breadth of these different apartments of a royal household were chosen in such a manner that the apartments belonged to the eight *bandhas* named above. This was probably considered auspicious and the proper thing to do.

XXIII. Disposition of the doors according to bandhas

(क) द्वार विचारकु। धजेण पश्चिमे द्वार श्रीकरे सिंहमेव च। प्रुबेद्वार वृषे सव। दक्षिणे गणमेवचम। धस्यणे नैरेते द्वार। धूमेण वावइ तथा। ईशाने स्वान पूजो ॥ खरचे द्वार अष्टिका। (३१ पृः)

(ख) येउ वन्धरे येउ आड़कु द्वार ताहा याणिमा। ध्वयेन पश्चिम द्वार। उतरे सिंघ मेवचः। पूर्वद्वार वृषश्चैव। दक्षिणे गजमेवच। ध्वांक्षेण नैऋृत द्वार। ध्वजेण वयवस्तथा। ईशाने श्वान पुत्रे। खर च द्दार अग्नयः। (५०-५१ पृः)

(ग) ध्वज धूम्रश्च पूर्व्वेशशिंह स्वानश्च दक्षिणे बृषखर पश्चिमादि गजध्वसो च उत्तरे। अर्थ। ध्वजवन्ध धूम्रवन्ध पूर्व्वदिगे अछि। सिंहवन्ध स्वानवन्ध दक्षिणदिके अछि। बृषवन्ध खरवन्घ पश्चिमदिके अछि। गजवन्ध ध्वसबन्ध उत्तरदिके अछि। एहाङ्क ए दिगमाने घर। सदा सर्व्वदा दिने ए वन्धमाने ए दिगरे थान्ति। एहाङ्कर आउ चलिवार नाहि। ए घर येँउ वन्धे होइथिव से वन्धकु से दिग द्वार॥

बृषवन्ध पूर्व्वद्वारे गजश्च दक्षिणामुखः।
ध्वजश्च पश्चिमद्वारे सिंहे गृहर उत्तर॥

अर्थ। सिंहवन्घे घर हेले उत्तरद्वार करिव। बृषवन्धे घर हेले पूर्व्वद्वार होइव। गजवन्ध हेले दक्षिणद्वारे होइव। ध्वजवन्ध हेले पश्चिमद्वार हेव।

(घ) बृषवन्ध घरर द्वार। पूर्वरे कहे मुनिवर। १। गजवन्ध द्वार दक्षिणे ध्वजवन्ध द्वार पश्चिमे। २ सिंहवन्धे उत्तरद्वार। दिग अनुरूपे विचार। ३ (२१ पृः)

23. The door of an apartment should face one of the following directions according to the *bandha* of the latter; west for *dhwaja*, N. W. for *dhumra*, north for *singha*, N. E. for *swāna*, east for *brisha*, S. E. for *khara*, south for *gaja* and S. W. for *dhwānkha.*

XXIV. The star under which a house is built

(क) नृपति पगेण हारएते। सेस अंशं विजानिय। ततो ऋृक्ष विनिदृश्यते। (४६ पृः)

(ख) श्लोकः। अष्टभी हरते पिण्ड। ऋृक्षभागेन हारएत। सेस अंस बीयानीत। तत्र ऋृक्ष वेनीदृस्यतेः। (५१-५२ पृः)

(ग) अष्टाभि गुणितं पिण्डं रिख्यभागेन हारयेत् ।
शेष ऋक्ष विजानिया स्विनदि गणिते बुधः ।

अर्थ । घरर पिण्ड ये घनहस्त येते हाथ थोइ एथकु अष्टबन्धे गुणिम । ए येते होइ एथकु सताइस नक्षत्रे हरन्ते उपरे शेष ये रहइ से घरर नक्षत्र होइ । ए नक्षत्र तिनि पाद । एकपाद नोहिब । आपना नक्षत्रकु नाड़ि नोहिब । तिनि नक्षत्र तिनि पाद । एकपाद नक्षत्र येवे होइ से घरे विघ्न बहुत होइ । दुइ पाद नक्षत्र कि चारिपाद नक्षत्र येवे होइ नाड़ि नोहिले शुभ तार होइ ।

(घ) अष्टाभि गुणितं पिण्डमृक्षभागेन हारयेत् ।
शेषमृक्षं त्रिजानीया दश्विन्यादिक्रमेण च ॥
मूलपिण्डकु आठे गुणि । सताइशरे हर पुणि ॥
लब्धरे प्रयोजन नाहिं । शेषरे नक्षत्र हुअइ ॥
घर नक्षत्र हेला सेहि । विचार शुभाशुभ तहिं ॥
आपणा नक्षत्रकु पुण । नाड़ी नोहिब गणि आण ॥
नाड़ी होइले न करिब । ए पुणि त्रिपाद नोहिब ॥
त्रिपाद होइले न कर । विघ्न कराए एहि घर ॥
दुइ पाद चारि पादरे । सुख हुअइ सेहि घरे ॥
एरूपे होइला नक्षत्र । एवे शुण हे आन तत्त्व ॥

24. Multiply the area of the house (in sq. cubits) by 8 and then divide by 27. The remainder denotes the constellation under which the house (is 'born'). If it is the same as the birth-star of the owner, or if it belong to the *ekapāda* or *tripāda* subdivisions, then the house will bring troubles. There will be happiness, if the star belongs either to the *dwipāda* or *chāripāaa* subdivisjons.

(क) रेवती २७ दिति ७ पित ७ मरुतप १५ मूला १६ उति १२-२१-२६। हरि २२। सोम ५। वाजि १। धनि २३। कमला ४। (२२ पृः)

(घ) १ अश्विनी, २ द्विजा, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृगशिरा, ६ आर्द्रा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्या, ९ अश्लेषा, १० मघा, ११ पूर्वाफाल्गुनी, १२ उत्तरा फाल्गुनी, १३ हस्ता, १४ चित्रा, १५ स्वाती, १६ विशाखा, १७ अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १९ मूला, २० पूर्व्वाषाढ़ा, २१ उत्तराषाढ़ा, २२ श्रवणा, २३ धनिष्ठा, २४ शतभिषा, २५ पूर्व्वभाद्र, २६ उत्तरभाद्र, २७ रेवती। (२६ पृः)

XXV. Finding the probable age and means of destruction of the house

(क) अष्टाभि गुणन्ते पिण्ड ।। षाठिभागेण हारएते ।। शेष अंशं विजान्विया। ततो जीवन सेतुते ।। जीवनस्य देवहारिता सेस जातिन उचेत ।।……।। जीवनस्य ततहारि तसंसं मृतु उचुते। पृथि आपात आकास वाकि वएध आअचेत ।। (४९-५०)

(ख) जीवनसतचद्वारितमस्य मृतुंक भवेत। प्रिआतमायसप्रिआ। साद्रीव गुण लम्बतेः। पृथिवी। आप तेय। वाइब। आकास। ए पाञ्चभूत (५२ पृः)

(ग) घरर पिण्डकु आठे गुणन्ते येते होइ। एथकु घरर आयुस ये ६० वर्ष। एमन्त ६०के हरिबा। उपरे शेष ये रहइ से मरण सुतेक होइ। पृथि १ आप २ तेज ३ वायु ४ आकास ५ तत्र ए केमन्त पृथि पड़िले घर अछुया रहि भाजि याइ। आप पड़िले जलरे भाजइ तेज पड़िले अग्निरे दहि होइ वायु पड़िले वाआरे भाजइ आकाश पड़िले चलके भाजइ ए निमन्ते भाजइ।

(घ)

वसुभिर्गुणितं पिण्डं षष्टिभागेन हारयेत्।
शेषमंशं विजानीयाद्दायुर्गृहस्य कोविदः ।।
पृथिवी-जल-तेजांसि वायुराकाश एव च।
पञ्चायुर्जातये तत्र भग्नदाहादिकं क्रमात् ।। (११ पृः)

25. Multiply the length of the house by its breadth, multiply the product by 8 and divide by 60. The remainder gives the age of the house. Divide the probable age by 5 (the number of the elements). From the remainder you will be able to find out how the house will be destroyed. If it is 1, the house will never be completely thatched ; if it is 2, water will destroy the house ; if 3, then fire will burn the house ; if 4, the house will be destroyed by a storm ; if 5, the house will be struck by lightning.

XXVI. The nabāngsa of the house

(क) ऋक्षचत्रुगुण कुजात । नवभिभाग कारएते । मेसं असं विज्ञानीयात । टसकरादि गणिते बुध । टसर १ । भोग २ ॥ वितक्षण ३ ॥ दातरा ४ ॥ ति ५ ॥ अभञ ६ ॥ पुषेक ७ ॥ दरिद्र ८ ॥ देव आल ९ ॥ (४८-४९ पृः)

(ख) ऋक्षं चतुर्गुणं कृत्वा । नवभिभाग हरएत । सेस अंस वीयाणीत । टसकर दुगुणं द्यथैं । टसकर । भोग २ । वितक्षण ३ । दात्रिञ ४ नृपती ५ उभयः ६ । अघुसेक्क ७ । दारिद्र ८ । देवालय ९ ए नव अंस (५३ पृः)

(ग) घर नक्षत्र येते अङ्क तँहिकि ४रे गुणिमा । येते होइ एथुक ९रे हरिवा । उपरे शेष ये रहइ से घरर नवांश होइ । तस्कर १ भोग २ वितक्षणलादाता ४ नृपति ५ अभय ६ नपुंसक ७ दारिद्र्य ८ देवालय ९ । तले लब्ध ये होइला से घरर राशि होइला ।

(क) ऋक्षं चतुर्गुणं कुर्य्यान्नवभागेन हारयेत् ।
शेषमंशं विजानीयात्तं राशिमादिशेत् ॥
आदौ चौरभयं भोगी द्वितीये वित्तनाशनं ।
वह्नौ वेदे भवेद्दाता नृपति पञ्चमे तथा ॥
षष्ठे भयमवाप्नोति सप्तमे च नपुंसकः ।
वसौ दरिद्रतामेति नवमे विष्णुमन्दिरं ॥ (१२ पृः)



Kutāituṇḍī Temple, Khiching, Mayurbhanj

26. Multiply the index number of the constellation of the house by 4 and divide by 9. If the quotient is 1, then there will be theft in the house. If it is 2, there will be enjoyment (of wealth) in the house ; if 3, there will be loss of wealth ; if it is 4, the householder will be a munificent person ; if it is 5, the householder will become a king ; if it is 6, there will be an absence of fear ; if it is 7, (the householder will become ?) a hermaphrodite ; if it is 8, there will be poverty ; if it is 9, the house will be a temple. The remainder gives the index number of the zodiacal sign of the house.

XXVII. The presiding nāga of the house

(क) दोर्घ दुइ मिश्रिता ।। दीर्घ दुइ गुण कर होइ ।। ३४ ।। सपचुभूत ।। रिक्षवसु हरते सैव ।। सेस नाग उनते । अनन्त वासुकि सैव । तक्षेक क्रोकोटस्तथा । शङ्ख कुलिक पद्मअ । महापद्म अष्टएत । (४८-९ पृः)

(ख) ऋसभवशु हरते चैव । सेस नागत्र उच्यतेः । आठनागनामः । श्लोकः । अनन्त वासुकी शै(ष्य ?) तक्षककोंटकस्तथाः । संखं कुलीक पद्मंश्च । अष्टनागवीधिएतेः । (५२ पृः)

(ग) घरर पिण्डकु घरनक्षत्रे गुणिमा ८ रे हरिवा । शेष ये रहइ से घरर नाग होइ । अनन्त १ वासुकि २ तक्षक ३ कर्कोट ४ सख ५ कुलिक ६ पद्म ७ महापद्म ८ एमन्ते अष्टकुला नाग होइ ।

(घ) ऋक्षेणगुणितं पिण्डं अष्टभागेन हारयेत् ।
अष्टौ नागाननन्तादीन भागशेषं प्रकल्पयेत् ।। (१२ पृः)

27. Multiply the area of the house (in sq. cubits) by the index number of its star and divide by 8. The remainder indicates which nāga lives in the building-site ; 1 Ananta,

2 Bāsuki, 3 Takshaka, 4 Karkoṭa, 5 Ṣankha, 6 Kulika, 7 Padma and 8 Mahapadma.

XXVIII. Calculating the expenses of building the house

(घ) अष्टाभिर्भाजितात्यच्छेषं स व्ययो भवेत् ।
व्ययाधिक्यं न कर्त्तव्यं गृहमायाधिकं शुभं ॥ (१२ पृः)

28. Divide the area of the house by 8. The remainder denotes the expenses (in hundreds of rupees ?) of the house. It is not proper to spend more than that on the house. (It is good if it can be managed with less ?)

XXIX. Determining the orientation of the door of the house

(ग) वन्ध प्रमाणे भाग प्रमाणे घर घटना होइला़र घर द्वार फेड़ा लक्षण ॥श्लोक॥ मेष सिंहं हयानान्तु पूर्व्वसाल प्रसस्यते प्राड्वुम्मुख॰ पश्चिमद्वारा प्रविश्यन्ते धनापते । अस्यार्थ । मेषसिंह धनु ए तिनि राशि याहार होइ थाइ पूर्व्वदिगकु शुभ । ए तिनि राशिकि पूर्व्वदिग घर योगाइ । ए मन्दिरे पश्चिम दुआर हेव । गृहस्थ पूर्व्वमुख होइ ए मन्दिरे प्रवेश होइले ए तिनि राशिरे धनसम्पद होइ ।

वृष कन्यामृगानाञ्च सप्तद्वारानि मन्दिरे प्राट्मुख उत्तरद्वागदक्षिणाभिमुखन्तिए । अर्थ । वृष कन्या मकर ए तिनि राशिरे दक्षिणदिगर ए तिनि राशिकि दक्षिण मन्दिर होइव । ए मन्दिर उत्तरद्वार करिब । गृहस्थ दक्षिणमुख हेब । ए गृहे प्रवेश हेले ए तिनि राशिकि धनसम्पद देइ ।

तुलामिथुनकुम्भानां शुभ पश्चिम मन्दिरे पूर्व्वाभिमुख पूर्व्वद्वारे सन्ति धनानिच । अर्थ तुला मिथुन कुम्भ ए तिनि राशि पश्चिम मन्दिर । ए तिनि राशिकि पश्चिम मन्दिर हेव । ए मन्दिरे पूर्व्वद्वार हेव । गृहस्थ पश्चिममुख होइ ए मन्दिरे प्रवेश हौथिव । एमन्ते धनसम्पद तिनि राशिङ्कि होइ ।

अलिकर्कटमीनानां मुत्तरं मन्दिरं मतं। श्रीकामदक्षिणद्वारा प्रविश्यन्तु भगानन। अर्थ। विछा कक्कड़ा मीन ए तिनि राशि उत्तरदिगर। ए तिनि राशिकि उत्तर मन्दिर हेव। ए मन्दिर दक्षिणदुआर होइब। गृहस्थ ए मन्दिरकु उत्तरमुख होइ प्रवेश हेव। ए तिनि राशिरे धनसम्पद होइ। इति वारराशि चतुःसाला विधिलक्षण। ए प्रमाणे वारराशिकि चारिदिगकु चतुःसाला दुआर फेड़ा होइब।

29. Under Aries, Leo, Capricornus the temple should face the west ; the householder should enter it while facing east.

Under Taurus, Virgo, Sagittarius the temple should face the north ; the householder should enter it while facing south.

Under Libra, Gemini, Aquarius the temple should face the east ; the householder should enter it while facing west.

Under Scorpio, Cancer, Pisces the temple should face the south ; the householder should enter it while facing north.

All these will bring prosperity and wealth.

XXX. Determining the 'luck' of the place from the orientation of the door

(ग) दिगद्वार भागलक्ष्ण। द्वारवास्तु प्रवक्ष्यामि भागा अष्टा शुभाशुभ पूर्व्वस्वामि चतुर्दिशं क्रमे द्वार शुभाशुभ। पूर्व्वदिग आदि करि चारिदिग भाग प्रमाणे आठभाग द्वार सचपि कहिव। इन्दिरि जे सुभाशुभ ताहा कहिव। ए दिगके आठभाग लेखाए। श्लोक। ईशानादौ लिखिते पूर्व्वे। आज्ञादौ दक्षिणं भवेत्। नैऋृते वारूणे चैव वायवे भवति उत्तरे। अर्थ पूर्व्वद्वार कले ईशानकोणठारू गणि आनिम। दक्षिणद्वार कले अग्निकोणरू गणि आदिम। पश्चिमद्वार नैरूत कोणरू गणि आनिम। उत्तरद्वार कले वायव्य कोणरू गणि आनिम। श्लोक। अग्निभय वहुकन्या धनदोभाजक्तजनं क्रोधस्नानस्यकश्चैव रोदने चौरभयं

तथा। प्रथम भागे अग्निर भय। बहुतकन्या २। बहुत धन ३। राजपूजा ४। क्रोध ५। अनर्थ ६। रोदन ७। चौरभय ८॥ अल्पसूखा अल्पधनञ्च चौराभ वड़ भोग भोजन सूतबूधा सूतविघ्नमध्य रोगं भवति यावति याम्येन। अर्थ। दक्षिण आड़र प्रथम भाग अल्प सूत १। अल्पधन २। निश्चय पराभव ३। भोग ४। भोजन ५। सुतबुद्धि ६। निधन ७। सुनक्षय जराज ८। श्लोक। भवबन्धो रिपुपोड़ा धनसुत सुख समये पुत्र धन नास्ति वैरीव्यं पुत्रोनदोषात्रयेनास्या। उत्तर आड़ प्रथम भागे बन्धन होइ थाइ। शत्रु पीड़ा २। धन सुत ३। सुखसम्पदा ४। सुतधन नास्ति ५। वैरी ६। गोपसुना शतपत्नी ७। मृत्यु ८। इति द्वार लक्षण। येसु येसु स्थितिर्येसु तेषु तेसु फलप्रद शुभबाप्य शुभोवापि यत्र द्वारस्तु कथ्यते। अर्थ येंउ भागरे द्वारस्थान स्थित करि करिब से भागरे येंउ फल सेहि फल पाइब। से केमन्त फल होइ। शुभ फल होइ अशुभ फल होइ। येमन्त करि भागमानङ्कर शुभाशुभ कहिला अछि सेहिमत फल पाइव। श्लोक। तृतीयन्तु जंयो प्राच्या याम्यस्त यस्तु पञ्चमे तृयोपञ्च मयोपञ्च पञ्च ए चतुर्थेपि उत्तरे। अर्थ। पूर्व्वभाग आठभाग करि ईशान कोणठारू तिनि भागे ४ भागे द्वार करिव। दक्षिण दिग आठ भाग करिव। अग्निकोणठारू ४ भाग ५ भागे ५ दुयार करिव। पश्चिम दिग ८ भाग करिव। नेरूत कोण ठारू गणि आनिब तिनि भाग ४ भागे द्वार करिब। ए प्रमाणे द्वारघटना एमन्त।

(घ) एवे हो शुण मन देइ—

दिगक आठभाग होइ॥ पूर्व्वरे द्वार विचारिब। ऐशान्य कोणरू गणिब। प्रथमभागे अग्नि भये। द्वितीये कन्या लब्ध होए। तृतीयभागे धन प्राप्ति। चतुर्थरे राजसम्पत्ति। पञ्चमभागे क्रोधी होइ। षष्ठभागरे नाश याइ। सप्तम भागरे रोदन। अष्ठमे चौरभय जाण। दक्षिण दिगरे याणिम। अग्नि कोणरू ये पश्चिम। प्रथमभागे अल्प सुत। द्वितीये अल्पधन प्राप्त। तृतीये नीच पराभव। चतुर्थ भोगाभोग योग। पञ्चमे बहु सुत जात। षष्ठरे विघ्न होए सुत। सप्तमे धनकु नाशइ। अष्टमे रोगी होइ थाइ। शुणहे कहिवा पश्चिम। नैॠतकोणरु गणिम। प्रथमे सुत पीड़ा होई। द्वितोये रिपु पीड़ा पाइ। तृतीयभागे



Kutāituṇḍi Temple
Khiching, Mayurbhanj (after repairs)

धन देव। सम्पद सुत आउ हेव। चतुर्थे शुभ भाग्य होइ। पञ्चमे सम्पद दिअइ। षष्ठभागरे नृप भये। सप्तम भागे रोगी हुए। अष्टमे वैरी भाव जाण। उत्तर भाग द्वार शुण। वायव्य कोणरु गणिव। शुभ अशुभकु जाणिव। प्रथमे वन्धन हुअई। द्वितीय भागे पीड़ा पाई। तृतीय भागे धन सुत। चतुर्थ सुख होए जात। दिअइ वहुत सम्पति। पञ्चमे धन सुत नास्ति। षष्ठरे वइरि विणाश। सप्तमे गोरु पशु नाश। अष्टमे अपमृत्या जाण। एवे दीपिका वाक्य शुण। पूर्वर द्वार विचारिवा। तृतीय चतुर्थ करिवा। दक्षिण द्वार शुभ शुण। चतुर्थ पञ्चभागे गुण। पश्चिम तृतीय पञ्चम। उत्तर दिग एवे शुण। तृतीय चतुर्थ ये शुभ। कहिलि द्वार शुभाशुभ।

30. All doors lying between the N. E. and S. E. points of the compass are said to face the east. Similarly, the south includes all points from S. E. to S. W.; the west includes all points from S.W. to N.W. and the north includes all points from N.W. to N.E. Each of these quarters is again divided into 8 points, and the following 'effects' are said to accompany the disposition of the doors in one or other of these points.

In the eastern quarter, 1 brings danger from fire; 2, the birth of many daughters; 3, great wealth; 4, kingly prosperity; 5, anger; 6, troubles or destruction; 7, weeping; 8, danger from thieves.

In the southern quarter, 1 brings a meagre progeny; 2, meagre wealth; 3, defeat by lowly persons; 4, enjoyment; 5, enjoyment of (good or plenty of?) food; 6, troubles; 7, loss of wealth; 8, disease or loss of progeny.

In the western quarter, 1 brings sickness of childern; 2, trouble from enemies; 3, wealth and progeny; 4, good luck; 5, prosperity; 6, the king's displeasure; 7, sickness and 8, enmity.

In the northern quarter, 1 brings about imprisonment; 2, sickness or trouble from enemies; 3, wealth and progeny; 4, happiness and wealth; 5, loss of happiness and wealth; 6, enmity; 7, loss of domestic animals; 8, death or accidental death.

Place the door in the 3rd or 4th points of the eastern quarter, the 4th or 5th of the southern quarter, the 3rd or 4th of the western quarter or the 3rd or 4th of the northern quarter.



Chandraśekhar Temple
Khiching, Mayurbhanj (after repairs)

VII. The Auspicious Ceremony

XXXI. Astrological matters

(क) क्षत धजपातगणासमरपीत सजुगा प्रसाद भवने दृश आअते श्रीमाचरेत्। (१० पृः)

(ख) धनुछत्रपातंग वा द्रशने प्रीअते जदा। द्वादसन्यसते हस्त। (४३ पृः)

(ग) ध्वजवस्त्रपताकादि दर्शने धनसम्भव। पूर्णकुम्भ शुभाप्नोति ऐश्वर्य्य कनकलाभये।

(घ) ध्वजपताकादि दर्शने धनसम्भवः।
पूर्णकुम्भे भवेत् वित्तं प्राप्नोति कनकादिकं॥ (१५ पृः)

31. If a bow, umbrella, flag or banner be seen when the auspicious ceremony is being performed, good luck is indicated thereby.

(ग) भिक्षुकं सन्न्यास चैव वघं। भोगान्तरातपि नगेइसे सुतकालेषु यत्र तत्रस्तुमिच्छतां। अर्थ। वास्तुभूमिरे सुता सुत धरिवा वेले भिखारी सन्न्यासी वैरागी रोगो तपी कृशलोक एतेक देखिले नीच होइ। ए येते शुभ कर्म्म करि याइ से मिथ्याकु याइ।

(घ) हीनङ्गो भिक्षुकश्चैव वन्ध्या रोगार्त्त खञ्जकौ।
दृश्यते चेदगृहारम्भे कत्तुंश्च मरणं ध्रुवं॥

If during that occasion the following things be seen, it denotes ill luck for the householder ; he may even die : a lean or decrepit person, a beggar, a barren woman, a *sannyāsin*, a diseased person or a *vairāgin* (a Vaishnaba friar who has forsaken the world).

(क) क्रीड़न्ति बालकाः यत्र सोमि तोप ससंस्ताता।
तत्र विजाविजानित्य नमथा कदार चम। (६ पृः)

(ख) श्लोकः। क्रिड़न्ति बालका तत्र। स्वामि तत्र मनेस्थिता। तत कृत वीयानीत। नमस्कारं कदाश्चनः। अर्थः। शुभ देवा वेले जदी बालेक क्रिडा करई तेवे स्वामि तपसिद्ध होई। तपर ये वीजनीती। मन थाई कीछि नोहई। (४२-४३ पृः)

If children be seen at play during the ceremony, the the austerities of the householder (*tapas*) will be crowned with success.

XXXII. General matters

(क) धर्म्मधिर्म्म जानीयाते तत्रकाले सनसाधिति। सभासुभ सरावाणी सिस्त दृष्ठ नक्रमाणी। सर्व्वलक्षणसम्पूर्ण सर्व्वाभरणभूषित। द्रवभन दृष्ट गृस्तकमदचम्। कृममम् स्रोणमेवचम् द्रशनतत वोर्जानित्र पुत्र वा धन दृश्यते ॥३४॥ (१० पृः)

(ख) श्लोकः। धर्मांधर्म वीयानीत तत्र कालेन सिधिती। शुभाशुभ तारावाणि। तत्र दुष्टिकर्म्माणि। अर्थ। धर्मकथाकु येवे विचारिब्र। से तत काल प्रापत होई। शुभाशुभ कथाहो प्रापत होई। दृष्टे ग्रहमानंकर पीडा न नागई। थ श्लोकः। सर्व्वलक्षण सम्पूर्ण। सर्व आरोहणं भूमि। दिव्यवसन परिधाव्य। सुभ तत्र न संसयः। अर्थः। लक्षण बहोई देहरे सर्व आभरण थिव। दीव्य वसन परिधापन करिथिव। एमन्त हेले सर्व शुभ होई। (४२ पृः)

32. You must consider what is lucky and what unlucky, what should be done and what avoided. If you follow the right course, you will be able to avoid the baneful influence of the stars. Clothe yourself with all sorts of good things, put on all the lucky marks. Thus all will be well.

XXXIII. Things required for the ceremony

(क) एवे मङ्गल आपोरण। दधि दुग्ध यवधानञ्च शाकरे तण्डूले च श्रीफल पुसँक हेम चन्दन वासयग्लकम्। तालति भि धुपदीप अक्षत पूर्ण कुम्भेक रस यवतिल पुञ्जम् ऐस्य न। शङ्ख द्दष्ट। अर्थ एक दधि दुइ दुग्ध तिन यवधान चार शाकर पाँच तण्डुल छ गुया सात सुना आठ पञ्चरत्न नरे चन्दन दशरे लुगा एगाररे अलता वाररे अक्षत तेररे पूर्णकुम्भ चौदरे माछ पन्दररे माघी तिल षोड़रे गुलुचिं सतररे असनछेलि अठररे शङ्खलेचि येतेक मङ्गलटी। (१७-१८ पृ:)

दधि दुध शाकर हेमासिन्तिक। श्रीफलयुग्मवस्त्रञ्च। गुड़कताम्बुलेञ्च सुवर्णधान पुलचिगोलि चन्द। घृतमधु गुड़ कदलीञ्च। शंखस्फोटि दीपकम् (३० पृ:)

(ख) एवे मङ्गलारोपण विधान कहीवा। श्लोकः। दधि दुग्ध यवधानं च। साकरं तण्डुलं तथाः। श्रीफल वदरिश्चैव। चन्दनं वासयुग्मकं अलंकृतं धुपं दीपं। अक्षतं पुर्णकुम्भकं। अर्थः। दधि १ दुग्ध २ यवधान ३ साकर ४ तण्डुल ५ श्रीफल ६ पुस्प ७ चन्दन ८ वास ९ पल १० दुर्वाक्षत ११ धुप १२ दिप १३ वदरि पत्र १४ पुर्णकुम्भ १५ रस १६ जवधान १७ तील १८ संखलेडी १९ एतेक मङ्गल ए।

33. The list of things required in the auspicious ceremony is given below: curds, milk, grains of barley, sugar, rice, the bael fruit, plums, sandal-wood, a pair of new cloths, ornaments, incense, lamp, the durbā grass, sun-dried rice, a water-jar filled to the brim with water, betel-nuts, a piece of gold, the five gems, lac-dye for the feet, fish, sesamum seeds, gulancha flowers, bark of the asan tree (and another object called *sankhaleḍi* or *sankhajhoṭi*).

XXXIV. 'Effects' of finding different things in the ground when it is being dug for posting the auspicious pillar

(क) श्लोक। कीट चाटो तनुसातु चास्तिलन्दोचइ टिका। पाषाणो यत्र वल्लुकादृशो तत्र फलानि जायेत्॥ एथर फलश्रुति अर्थ। काठे अग्निभये बुरुतात। अङ्गारे व्याधिपोड़न। ५४। तृषण प्रवहानि। स्या। अस्तिके न रक्ष नस्यन्ति।·········ईटका धन आगम। पाषाण वलिका सम्बक्ष। (१८ and १६ पृः)

(ख) श्लोक। काष्ट ईष्टे तनुसाने। वचा ईन्द्न ईटकां। पासाण पत्र वल्मिको। हसे तत्र नोयोयएत। अर्थ। काठे अग्निभय व्या(धि ?)·········तृणेन द्रव्यहानी। अस्थिरे कुलक्षए। नवा अर्घ प्रसनबदन। ईटका धन अपमान। पासाण वलीका सम्पद। (४७ पृः)

(ग) भस्मास्थि काष्ठ दुस्थतु केश कपोल दन्त रक्त सर्व्व यदि वाथ शितला च लोष्ठे धर्म्म कुलामलिनी कलाज नाना तस्मिन वदन्ति मुनयो धर्म्म कीर्त्तिनाशं। अर्घ्य देवा वेड़ एते पदार्थ थिले एमन्त होइ। एतेक कि पाँउश अङ्गार हाड़ घरकाष्ठ तुष बाल मुण्ड दान्त रक्त वाहार होइथार रकतिया माटी कि इटामाटी भूमि गभीर ठारे शुभ देवा वेले एते पदार्थ पाइले एते पदार्थ थिले मुनिमाने वोइले गृहस्थर धर्म्मकीर्त्ति नाश याइ।

(घ) भस्मास्थि काष्ठमङ्गारं तुषं वालं कपालकं।
रक्तपुत्तिकदन्तं च मृद्भान्डास्थिनि यत्र वै।
तत्रावासं न कर्त्तव्यं कृते कीर्त्तिधनक्षयं॥
इष्टकायामर्थलाभं पाषाणे सर्व्वसम्पदः।
सपार्दौ निधनं कर्त्तुरङ्गारे च कुलक्षयं॥ (१८ पृः)

34. Do not build the house if the following things are found in the hole dug for posting the auspicious

pillar : ashes, charcoal, bones, woodwork of old houses, chaff, hair, skull, or red earth. Under these circumstances, one's religious merit and fame are likely to be destroyed. Bones will bring about the death of one's progeny. Brick brings good luck, stone brings prosperity in all matters.

XXXV. The ceremony of posting the auspicious pillar

(क) श्लोक। भोतानि राक्षसस्यासैव। ये तिष्टि खेचर। ते स्रवे प्रगहणामि वास्तु गृहामहापुस्या। वाहुमूले खनन्ते भूमि। वास्तुरेस्त चत्रृदश। तत्र मध्ये स्रीते लक्ष्मी। जन्त्रे प्रान्तिक नाग नाम। पहुक्षता वलाक्षता। सुमधा सुवद प्रिया। अमुत मुखी सुमती। सुगन्धिन नेम।……। थम्भ थम्भ महाथम्भ चारि चामर चारित्रत। ईशाने अधक्कुपिते। थिरे भवन्ति सर्व्वदा। धनपुत्र कलह जावचन्द्रर्कमेदनि॥ स्वभावे चञ्चला देवी मम गृह थिरे भव। वसुमतो देहिथान सर्व्वदव सुशोभन। ग्रिरुहाते शङ्ख निस्वामो आयेके सुभदाएक॥ (२९-३० पृः)

(ख) भुहानि सक्षसा सैव्य ५ एति पुते खेचरा। सवे प्रतिगछन्तु। वास्तु गृहाब्रकं शुभं। शुभख्यात जेते होईव खोलिवा। ताहा जाणिमा। वाहुमूले खनने भूमि। वास्तुवार चतुसत। तत्र मध्ये स्थिति लक्ष्मी। पुज्यतेपि च नागका। ५। एवे नाग जाति मान नाम। पाहछ त्रावलि छत्रा। सुमेधा सुमति पिया। अम्वतिमुख सुमेति। सुगन्धि कालनेमिका।……। स्तम्भ स्तम्भ महास्तम्भ। चारि चामर दइवत। ईशान्ये थर्थ पलवा धिर भवतु सुर्वदा। धनपुत्र कलत्रं च। याव चन्द्रर्कमेदिनी। सभावे चञ्चला देवो। महाम गृहस्थिरं भवे। वसुमति देहि स्थान। सर्व्वद्रव्य शुशोभनं। संहाथे शंखनिस्वामो। आयते शुभदायक। भद्रगति द्विजवरणं। दधि छत्रादिमर्दलं। विहार दिव्यवसनं पुष्प फलसुशोभनं तवादिज भयं च। मङ्गल मानन्द ये जेक्षू पुनर्वसुनयं। गृहारम्भ विधियते। सर्वजनवरण। सवेस वेद उकति। पुछन्त श्रीकरे श्रिया। राजश्रो करभोगि। धनसुत। नववस्त्र सुशोभनं। (५६—५९ पृः)

35. During the ceremony, say unto ghosts, rākshasas and other denizens .of the heavens, "You depart". Worship the nāgas. Pray to the Earth-goddess, "Oh Earth, give shelter unto me. Thou art adorned with all sorts of good things". Say unto Lakshmi, the goddess of wealth, "Oh Goddess, thou who art naturally restless (one who doth not favour the same household for a long time), stay in my house, undisturbed, as long as the sun and moon endure".

The Brahmin priest should be worshipped (and other ceremonies also performed. The use of curdled milk, an umbrella, the drum, fruits and flower-offerings are also indicated).

XXXVI. Laying the foundation-stone

(ग) पथर गोटिए दीर्घप्रति अष्ट आंगुल उच्चप्रमाणे हेव। एथि चारिदिग चारिकोणकु आदेगि पद्मपाखुड़ा आठगोटी हेब। मध्यरे केशर हेब। नागर हृदयरे हेउ ओ उदरे हेउ खातखोलि भूमिकि शुद्ध 'करि मङ्गलारोपण करि धूपदीप नैवेद्य गन्ध पुष्प ताम्बुल ग्रामदेवतीमानङ्कु पूजा करिब। शिल्पि जोतिष ब्राह्मणकु पूजा करिब। विप्रहस्ते स्थिरभव इति मन्त्रेण गर्त्त शुभ देव। चारिदिगकु चारि कोणकु पाखुड़ामाने सरि होइ ये याहा दिगकु थिवे दिगभेद नहिब।

36. Take a block of stone 8 digits in length, breadth and height. Carve upon it a lotus with eight petals and show its pistil clearly. Dig a hole at the heart or stomach of the Vāstu-nāga and purify it with proper ceremonies. Worship the guardian deities of the village with incense, lamp, rice-offerings, sweet-smelling articles, flowers and betel-leaves. Worship the artist, astrologer and the priest. "Being placed by the hand of the Brahmin, thou remain (there) permanently" : place the



Bāra consisting of *pābhāga*, *jāngha* and *baraṇḍa* with a sharp recess demarcating *bāra* from *gaṇḍi*, Chandraśekhara Temple, Khiching, Mayurbhanj foundation-stone with this utterance. The eight petals should point towards the eight points of the compass.

(ग) येउ भूमिरे ईशान ये स्तम्भारोपण करिबा ए दिन कर्त्तालोकंकु शुभ होइब। शुद्धि होइब। ताहा दण्ड नाभिरे करि खात खोलिब। खात भितरे गोमयरे लेपिब। गात पूर्व्वे पूर्णकुम्भ वसाइव। पूर्णकुम्भे सुवर्णरूपा नाना रत्न मध्य करि मिश्रित करि करिब। नुआ वस्त्र गोटिए वान्धिब। आम्बपत्र डाळे देव। नड़िआ गोटिए देव। ए पूर्णकुम्भ सरि होइ पुरित होइ थिव। पुष्प गन्ध नैवद्य ताम्बुल सहित करि देव। देवता पूजा करिब। धूपदीप देव। देवताङ्क स्तुति करिब। विश्वकर्म्माकु पूजा करिब। भो विश्वकर्म्मणि मोहर गृहारम्भ कर्म्म बोलि विसेसित होइ समर्पिव। दारापुत्र वन्धुमाने सखोमाने वेष्ठित होइथिव। पञ्चरत्न गुलुचि देइ एवम्विधि व्यभार स्थम्भारोण करिब। स्तम्भरे पुष्प चन्दन नवीन वस्त्र वेष्टित करिब। कर्म्मान्ते ब्राह्मणभोजन दक्षिणा देब। ज्योतिषपूजा भोजन दक्षिणा देब। शिल्पि पूजा वोलन्ते माहाराणाकु भोजन दक्षिणा वस्त्र देब। एवम्विध प्रमाणे स्थम्भरोपण कले शत्रुक्षय होइ। विप्रमाने वेद उच्चारण करुथिवे।. एमन्त वेळे गृहारोपण कले वास्तुरे धनसम्पत्ति होइ। × × × × येँउ मासरे शुभ देवाकु योगाइ से मासे गृहस्थकु शुद्ध हेब। शुभयोग हेब। वार तिथि नक्षत्र राशि योगकरण शुभ हेब। स्थिर लग्न हेब। विष्टिवैधृति व्येतिपात न हेब। × × ×। ब्राह्मणकु नवीन वस्त्र देब। भोजन देब। दक्षिणा देब। एवम्विधिमत श्रीशुभ श्रीसम्पत्ति भवति एवन्। गृहधिवाय इति गर्त्त शुभविधि। एइ गर्त्त शुभ पद्म उपरे शुभखम्भ गोटि मण्डि करि आरोपण करिब। एथि माल चन्दन नवीनवस्त्र वेष्टित करिब। उपरे नुया हाण्डि गोटिए देब। पक्षी जन्तुमाने वसिवा निमन्ते।

After taking into consideration the day of the week, the phase of the moon, the position of the stars, constellations, sign of the zodiac etc., one should perform the ceremony of posting the auspicious pillar. The owner of the house should be ceremonially pure ; the ceremony should not be performed if he is ceremonially unclean. Dig a hole at the navel (of the nāga) and post the pillar within it. Cleanse the inside of the hole by besmearing it with cow-dung, and place pieces of gold, silver and various gems therein. Also put in a new piece of cloth, a twig of the mango tree and a cocoanut. Fill the water-pot to the brim with water. Worship the gods with incense, lamp, sweet-smelling articles, rice-offerings, betel-leaves and other articles. Worship Viswakarman (the presiding deity of all craftsmen), and read the following *mantra*, "Oh Viswakarman, this is the beginning of my building-operations". The householder should be accompanied by his wife, sons, male and female friends. Then the auspicious pillar should be set upon the auspicious stone. Adorn it with garlands, sandal-wood paste and a piece of new cloth. During the ceremony of posting the pillar, Brahmins should chant the Vedas. Tie an earthen vessel at the top of the post for birds to build their nests therein. At the end of the ceremony, the priest should be offered food and presents. The architect should be offered food, presents and a new piece of cloth. If the ceremony is performed according to these instructions, (the householder) will be prosperous, and his enemies will diminish in number.

VII. Miscellaneous Matters

XXXVII. Regarding trees

(क) यत पिसाणि वृक्षाणि। डालि डालिमु केसर। पुनाग। सरल सैब। नारिकेल पिअङ्गम। मसिदान वृक्षा अम्र। क्षत्रिकार क्षता यन्त्रिका। जुगदि जमुका सैव नवधकु सश्चम्बेका। नारगिस्त्र फलचैव प्रमुखीप्रातभूमिसु। आमेव मलिकादिन। कम्बाण्ड दिन श्रृपय। कदलि क्रदलि वलि तेन्तुलि पाटेलि पलास तथा। कण्ठक्किमि मूलिसैव अवमलाण परिवर्ज्जयेत। वर्जएत पूर्व्वानि ओषत। पलक्षं च दक्षिणे। सदानपोध पश्चिमभागे उडम्बर अथवा उत्तरे। ईशाने रजपुषश्च। आगुआ खीरणीस्तथा। नैभृते कण्टकी सैव। वइवे श्रिमूलस्तथा। असस्थस्त्रे व दारिद्रे च। पलक्षभियोगमादृश्यते। सेसद्वस वटवानि धनहानि भण्डवरे असिभअ रजपुसश्च। खिरलिसु सुतभय कटुकि रिष्टभयश्च। गृहभेदक श्रिमूलि। चाम्रभिभिसुणिस्त्रे वै। (२२-२४ पृः)

(ख) डाली डाड़ीम्ब केसर। पुंनागं सरलस्यैव्य लवङ्गषुचम्पेका। नारङ्ग श्रीफल चैव। प्रमुखि मातृभूमिषु। अमेव वलीकानन। ५। पाटलि पसवस्तथा। कण्टकि श्रिमूलोचैव। अमलान परिवर्जयेत्। वक्र पूर्व औसस्थ। पलाशं स दक्षिणे। सदानं पश्चिमे रोगे। अथवा भद उत्तरे। ईशान्ये रक्तपुष्पं च। अग्निए गिरिणास्तथा। नभृते कण्टिकोचैव। वाइवे शिमुलि तथा। (४६-५० पृः)

(ग) वर्ज्जयेर्वा पूर्व्वं अश्वथं दक्षिणे पलाशस्तथा न्यग्रोध पश्चिमे भागे उत्तरस्तु भद्रम्बर। ईशाने रक्तपुष्प च आग्नेया क्षीरीगःस्तथा। नैरुते कण्टकी चैव। वायबे। नन्तु शाल्मली। अश्वथोश्चैव दारिद्र्यं पलासे विजगस्तथा न्याग्रोधनि अयोध्यस्य उत्तरे मृत्युडुम्बर। रक्तपुष्पं अग्निभयं राजभयं क्षीरीनस्तथा। कण्टकी रिपुभयश्चैव सुहृद्भेदं च शाल्मली। अस्यार्थ। पूर्व्वे अश्व थिले दरिद्र होइ। दक्षिणे पलस थिले विपत्ति पड़इ। बड़गछ थिले कलह होइ। उत्तरे उदुम्बर थिले

मृत्यु होइ। ईशान्यकोणे रक्तपुष्प थिले अग्निभय होइ। अग्निकोणे क्षीरवृक्ष थिले विपत्ति होइ। नैऋतकोणे कण्टावृक्ष थिले शत्रुभय हेउ थाइ। वायव्यकोणे शिमूलीवृक्ष थिले सुहृन्भेद होइ। श्लोक। पूर्व्वेक वर्ज्जये दृक्षा सुवन्ति फलतो यदि। स्थावरो पालिन यस्य विपत्ति ध्रुवये तथा। विधि पूर्व्वक प्रमाणे एते वृक्ष वर्ज्जनीय। यँहि सुवर्ण फलुथिव स्थावर ये गछ गोटिए थाइ कि ना बोलि रखिले विपत्ति ध्रुव पराये तथा। वृक्ष शुभ। मालती मालिकामेदं मन्दारकुन्दमेवच गृहाग्रे च समारोप्य लभते पुत्रसम्पदः। अस्यार्थ मालती मल्लि कुन्द कामोद मन्दार एते पुष्प गृहर आयतन भितरे थिले कि होइ आरोग्य होइ धनपुत्र सम्पद बहुत होइ। श्लोक। पुष्करिणी देवसदनं नदीकल्पद्रुमस्तथा मशुभादिश्च कथ्यन्ते पूर्व्वतर शुभायच। पोखरी नदी देवतास्थान कल्पद्रुम ये वृक्षमाने दक्षिणे पश्चिमे थिले अशुभ दिशन्ति पूर्व्व उत्तरे थिले बड़ शुभ दिशन्ति।

(घ) पूर्व्वेऽश्वत्थं वर्ज्जयित्वा तिन्तिड़ीं दक्षिणे तथा।
पश्चिमांसे वटं तदुत्तर न ह्युडुम्बर।
ऐशान्ये रक्तपुष्पं च आग्नेये क्षीरपादपं।
नैऋते कण्टकं चैव वायव्ये शाल्मली तथा॥
यत्र तत्र स्थिता वृक्षा विल्व-दाड़िम केशराः।
पनसो नारिकेलं च शुभं कुर्व्वन्ति नित्यशं॥ (१६-२० पृः)

37. Avoid the aswattha, khirabriksha, tintiṛi, kanṭaka, baṭa, ṣālmali, uḍumbara and raktapuspa in the following directions respectively: east, S.E., south, S.W., west, N.W., north, N.E. If these are not avoided, the following 'effects' will follow as a result: poverty, dangers, danger from enemies, strife, loss of friends, death and danger from fire.

It is good to plant the following trees within the compound of a house: bael, dāṛimba, kesara, panasa,



Bāra consisting of *pābhāga*, *tala jāngha*, *bāndhanā*, *upar jāngha* and *baraṇḍa*.
Anantavāsudev Temple, Bhubaneśwar

nārikela, punnāga, sarala, labanga, champā, nāranga, mālatī, mallikā, mandāra, kunda, and kāmoda. Then health, wealth and progeny will follow.

According to (ग), trees which cause injury when planted towards the south or west, become a source of good luck if they are planted to the east or north of tanks, rivers or temples.

XXXVIII. Regarding the disposition of water in the neighbourhood of the dwelling-house

(घ) प्रागादिस्थे सलिले सुतहानिः शिखिभयं रिपुभयं च।
स्त्रीकलहः स्त्रीदौष्ट्यं नैवं वित्तात्मजवृद्धिः ॥

जलर शुभाशुभ शुण। पूर्वरे पुत्रर मरण। अग्निदिगरे अग्निभय। दक्षिणे शत्रुर उदय। जल नैर्ऋतदिगे थिले। स्त्री दुष्ट हअन्ति ना भले। पश्चिमे स्तिरी कलि करे। वायव्ये ऐश्वर्य न मिले। वास्तु उत्तर ऐशान्यरे। जल प्रशस्त दुइठारे। (२० पृः)

38. If there be water towards the east of the dwelling-house, the son (of the householder) will die. If it is to the S.E., there will be danger from fire; if it is to the south, enemies will arise; if it is to the S.W., the wife will become corrupt; if it is to the west, the wife will become quarrelsome; if it is to the N.W., there will be prosperity. It is good to have water towards the north and N.E. of the dwelling-house.

XXXIX. Regarding the Owner, Priest, Professor and others.

(क) महाराणाविधान। ये ने सुत महारर्ण्वा। विभागतु कारियेत। विकोणकोण विसुद्धत। के पोर्थं कि विधानर। यौ महाराणा विभाग न करिब विकोण कोण भाङ्गिब। ताहा हाते प्रसाद गढ़ाइब। विसिकर्म्मोवाच। शिल्पि-

लक्ष्मण वछेह । शुन मे ऋृषि उत्तम आचार कर्म्म सुचिर । पुंसवल्यामेह प्रथकि । अर्थ । शिलपिलक्ष्मणकु येवे विचारिब । विसिक्रमा मेरुकु कँहुअछन्ति । हे मेरु शुन । आचारवन्त होइब । शुचिवन्त होइब । तिरि पुंस घेनि थेब । पुरुष वछा धरि थेब । एमन्त होइ शुभपूजा कराइब । ब्रह्मावरण विसिक्रमावरण । दिगपालवरण । नवग्रहवरण । एतेक वरण करिब । एतेक वरण कले अश्वमेध धर्म्म होइ । नाना शिलपि प्रमाणेश्च प्रसाद् नृपभावना । तत कर्म्म प्रमाणेश्च सुत्रधारश्च कारिएत । तत्र कर्म्मंकु येवे विचारिब । नानाशास्त्रकु येवे नृपति प्रसाद् भावना करिब । सुत्रकार विन्धानिकि डाकिब तेवे धर्म्म पाइब । हीन आचार्य्य न कुर्व्वत् । हीनिशिलपि न कारयेत् । तत्र कर्म्म विफलिनि । यथा पुंस नपुंसका । अर्थ । हीन आचार्य्यंकु न डाकिब । हीन श्लिपि विन्धानिकि न डाकिब विफल निन्दा होइ । से कीर्त्ति नपुंसक कीर्त्ति होइ । अर्थहीन यथा शिलपि ग्रहहीने तथैवच । एकर्म्म क्षोभे देशिदिनपलयवबृधे । (४४-४६ पृः) यत्र सूत्र महारणा । विकोण कोण सोघिता । विभागेन कारिए माधार स्तवक्रमण ।४४। (५८ पृः)

(ख) हृदये चिश्लिपिलक्ष्मण विच्छेद । गुण मेंऋृ स्तुउत्तमं । आचार स्ततिर कर्म । पूष्यवक्ष गिहियुथिकि । नाना शील्प प्रमाणतः । प्रसादन्तपभावना । तत्र कर्म प्रमाणं च । शूत्रधारं च कारयेभ ।९। हिन आचारिज न कृतं । हिन श्लिपि न कारएत । तत्र कर्म विफलं नन्दं । यथा पुंस्व नपुसका ।१०। अर्थहिने यथा श्लिपि । पथहिने तथैवच । एवं कर्म क्षोभन्देसं । न पदिष्णु कदाचन । विकोण कोण होइले कि दोष होइ ताहा जाणीमा । यत्र कोण विकोणं च विदितो सूत्रधारणा । अर्थहिने प्रजापीड़ा । निति दुःख समाचरेत ।१२। अर्थहीने नृपनासर । अर्थ हिनस्तु क्रिम्रा । वभछे सक्रपिड़ा । शूलव्याधि मरणे धृव ।१३। बंलहीने महादोसा । राय्यराष्ट्रकुलक्षय । सास्त्रहीने न कुर्य्यात । क्रतव्या सास्त्रदृष्टितेः । (४—६ पृः)

येन शूत्र माहारेणा । वीक्कोण कोण सोघितं । अर्थ वीभागन कारतु । मधार सर्व कर्मणा ।३१। (१० पृः)

39. The architect who can correct the angle (*i.e.* the corners) of a building (when there is something wrong with it), should be employed in building a palace. Consult many *silpins* before building a royal palace. Employ as many *silpins* as the work requires. Religious merit will follow.

Viswakarmā says unto Meru, "Listen, oh Meru, the owner of the house should be pure (in a ceremonial sense) and proficient in the customary practices of the land (*āchāra*). The person should be accompanied by his wife and male children. Brahmā, Viswakarmā, the guardian deities of the different quarters and the nine planets should be worshipped. Thus one will acquire the merit obtained by performing a horse-sacrifice. Do not employ unworthy architects or unworthy priests. Just as a man is of no worth if he is a hermaphrodite, so also shall the work so done be fruitless ; moreover one will merely succeed in earning a bad reputation by performing such works."

(क) द्रवहीने यजमानस्य मतहीने रितुया शिल्पलक्षहीनस्ता न प्रतिष्ठा समोरिपु। येँउ यज्ञमान द्रवहीन होइ। येँउ ब्राह्मण मन्त्रहीन होइ। येँउ विन्धानि शिल्पि न ज्ञानइ। ताकु न डाकिब। डाकिले कि होइ से प्रतिष्ठा न होइ। रिपु होइ एमन्त से कृति ।२८। (५३ पृः)

If the owner of the house has a deficiency of materials, he cannot earn fame by building a temple. The work will be as an enemy to him. Do not employ the architect who does not know the Canons of Architecture (*silpasāstras*). If you employ him, the same thing will follow.

XL. The ceremonial entry

(घ) ब्राह्मणे सन्तुष्ट कराइ। बन्धु कुटुम्बे स्नेह वहि ॥
मङ्गल उत्सव कराइ। गृहे प्रवेश हेब यींई ॥
श्रीमत भागवत थिव। सेठारे पठन होइव ॥
जगन्नाथकु सुमरिव। मणोहिँ किछि कराइव ॥
एरूपे ये नर करई। केवेहेँ लक्ष्मी न छाड़इ ॥
विपत्तिमान पलाइवे। सुदर्शन रक्षा करिबे ॥ (२२-३ पृः)

40. After entering the house with proper ceremonies, satisfy the priest with presents. Perform the auspicious ceremony with the good wishes of friends and relations. Read the *Srimad Bhāgabat.* Remember the Lord Jagannath and vow to make certain offerings to him. Keep a copy of the *Bhāgabat* in the house. Under these circumstances, the goddess Lakshmi will never abandon the householder. The *Sudarsana Chakra* will preserve the householder from all dangers.

XLI. Sālābriddhi

(क) स्ववतपि वर्ज्जये कथिते काल गृहे स। ध्रुवमृत्यु विनिद्रुस्यते। दीप-धूप शत जम्भने। स्ववप्लवि सिलिपिव। स्ववदिपाप्लवय दृश्यते पूर्व्वदप्लवे। अर्थ लाभ मनुनृप दक्षिणे प्रजाहानि। दारिद्र्य दुःखपीड़न न कृत गृहकर्म्माणि। कजानि खमीप्लवते। (२४ पृः)

(ग) घर सरि करि तोलिला उत्तारे पछे केँउ आड़कु बढ़िले कि होइ। एहाकु सालावृद्धि बोलि। श्लोक। पूर्व्वप्लवो करोवृद्धि उत्तरे घनदोप्लव पश्चिमे धननाशाय दक्षिणे मृत्युरेवच। अर्थ। पूर्व्वदिगकु बढ़ाइले कुटुम्ववृद्धि होइ। उत्तरकु वढ़ाइले धनसम्पत्ति होइ। पश्चिमकु बढ़ाइले धनक्षय होइ। दक्षिणकु बढ़ाइले मृत्यु होइ।

(घ) पूर्वप्लवो वृद्धिकरो धनश्चोत्तरप्लवः ।
दक्षिणोमृत्युदश्चैत्र धनहा पश्चिमप्लवः ॥ (१६ पृ:)

41. After the building has been erected, it might be necessary to make additions to it in the future. If additions are made towards the east, there will be an increase of relations ; to the north, wealth will come ; to the south, death will come ; to the west, there will be loss of wealth.

IX. Certain General Questions

XLII. The units of measurement

(क) विसिक्रमा आङ्गुलक सोल सुता ॥ सोलसुतारे आङ्गुले ॥ एहा वुझि करि गढ़ाइब ॥ ए विसिक्रमोवाच (१२५ पृः)

विसिक्रमा यव आङ्गुले १६ आङ्गुलके हाते ॥ (३५ पृः)

16 sutās =1 āngula (Viswakarmā's)

16 āngulas=1 hāta

(क) बालाग्र ४०९६ । आक १ । कणिका १०२४ । आ १ कुसाग्र २५६ । आक १ युका ६४ । आ १ पा ४ । आ १ कु बाला अग्र ४ । कणिका १ । कणिका ४ । कुसा आ प ४ । जुजुका १ जुका ४ सुता १ सुता ४ । पा १ पा ४ । हविस चविस । हा १ । ए प्रमाण लेखा । (६८ पृः)

(ग) बालाग्र कणीकाद्यभिसूत्रपादानि चक्रमार्च्च चतुर्गुनाणोस्मिन्यङ्गुल जनयतिहि । अर्थ । प्रथम गणा बालाग्र बोलि । ए चारि कणिकाकु द्दभिः बोलन्ते कुशाग्र बोलि । एमन्त कुशाग्रकु जुयाए बोलि । चारि जुयाकु सुताए बोलि । ए चारि सुताकु पाए बोलि । ए चारि आङ्गुल बोलि । ए प्रमाणे विश्वकर्म्मा आङ्गुले । ए आङ्गुलप्रमाणे विश्वकर्म्मणि आङ्गुल । ए आङ्गुलप्रमाणे भाग देब ।

4 bālāgras=1 kanikā

4 kanikās =1 darbha, kusāgra

4 kusāgras=1 yuka

4 yukas =1 pā (quarter)

4 pās =1 (Viswakarmā's) āngula

XLIII. Geometrical constructions

Certain geometrical figures are drawn upon a block of stone before working on it. The following passages are supposed to refer to some of these constructions. A few *silpins* of Lalitgiri say that they know how to draw these figures, but it has not been possible to learn it from them. The passages have therefore remained untranslated. As far as we know, the *silpins* of Bhubaneswar or Puri do not know how to draw these figures.

(क) सुता आरम्भ ए १। मैध्यथाने सुता देब। ताहा मध्यरु सुता देबा। ए मध्ये फुलि देबा। फुलिकि दुइ आङ्गुल लेखाए फुलि २ गोटी दव। पारुश फुलिर आर फुलिक्कि २ खण्ड बुलाइब। से मक्ष होइ। मछ २ कोणरु मेध्य फुलिक्कि सुता देब। एहाकु मछ आकार आउना बोलि (६८–६ पृः)

मेध थानरु पारुसकु भाग चारि। आर पारुशकु भाग ४। गाए आठभाग ८। आ २४ मैध सुता ७। आ २ एइरूपे सूत्रकु ८। आक चविश। अरजाप सुत ८। आ २४ एथकु·समतिक्रोण वोलि (६९ पृः)

मैध्यथाने सुता देब। तँहि मध्ये फुलि देब। फुलिकि चारि आङ्गुल अन्तरे फुलि देब। आर आड़े चारि आङ्गुल अन्तरे फुलि देब। पारुसे थोइ मध्य फुलि सलखरु पार्श्व दुइ फुलिक्कि समकरि त्रिकोण करिब। येँउथाने कोण रहइ सेठारे फुल देब। गोटिए आर पाशे एहिमति करि फुलि देब। ए दुइ फुलि मध्य फुलि। ए तिनि फुलिकि सुना देब। एहाकु तिलेक आउना बोलि। (६९-७० पृः)

ए उपरे कोणत्रिकोण सुता देब। मूल फुलिरु दिगकु भाग १२ आक बार। मूलफुलिक्कि कोणकु भाग १४ आक १६ पण्डर अना। आ १७ ए प्रमाणे १४ दिगरु ४ कोण करि देब। ४ दिगरे ४रि सुता देब। एहाकु समचतुरस्र बोलि। (७० पृः)

द्रोघ भाग ४। आ ३२ आए २४। प्रति मझारु द्रीघ कोणरु भागे छाड़ि ४ दिगरु पचारि सुता देब। एहाकु छसुत बोलि। (७० पृः)

दीर्घभाग प्रतिभाग छ आ एभाग २४ प्रति मझारु प्रातरु दीर्घकोणरु दुइभाग २१। चुड़िचारि दिगुकु झामु चारि सुता देब। एहाकु सवाकोण वळि (७१ पृः)

सस्त्रसस्त्र दीघ ५८। आ २६ भाग १७ आभा ८६ एहि प्रमाणे दीर्घ २४ आ भाग २४ प्रति दिगरे देब। एथकु मानकु ४ सुता देब। ए अष्ट कोण सस्तिक होइ।

दीर्घ २४ प्रति ३६ प्रतिभाग २४८। आभा ६। ए प्रमाणे चारिदिगरे देब। ए मध्यभागरु कोण जिनि ळेउठि प्रथम त्रिजगसुत देब। ए मध्यभागरु कोण जिनि भाग कोणकु त्रिजगसुत्र देब। ए प्रमाणे चारिदिगरे त्रिजगसुत्र देब। ए द्वादशसुत्र होइ। ए द्वादशसास्त्ररु कोणथापि पाटमानकु पइठिपसि द्वादशकोण सोधिब। भा १गे दिगे १ पासकु गतप्रकार करि अष्ट सस्त्र साधिब। ए भाग येते तार चारिभाग ळेखाए करिब। ए कोणमानङ्करु भागे देइ सुता देब। ए प्रकारे षोळसुता देब। ए षोड़सास्त्र होइ। ३४। (७१-२ पृः)

XLIV. The Foundation

(क) एवे खात खोलाइवार जानिबा। नेच उच्च न कर्तैव कर्तैव उचथानय। अर्थवा विसमसकेतु कतइव निशिकल्प यथा। (४१ पृः)

एवे खात खोलाइवार जानिमा। पादेन त्रिसोनव्यापी द्रोवंगुलक्षुपित। खातमाजते उदेशा येन भागे विवर्ज्जते। अर्थ। खात खोलाइव देउळ तिनि भागर भागे पोति॥ ३३॥ (५४-५ पृः)

(The translation is of doubtful accuracy)

44. Now is being indicated the (method of) digging the foundation. It must not be made low at one point and high at another (i. e. it should be level).........

.........The foundation should be dug up to a depth equal to one-third of the (height of the) temple (above ground ?).

(क) अथवा जलप्रमाणने प्रसाद दोष भवेत्। धेनुक प्रमाणे प्रसाद गढ़ाइले दोष बहुत होइ। येवे गढ़ाइब जलरु पोति खोड़ाइब। न खोलाइले दोष बहुत होइ।३७। (५६ पृः)

खातमा जलप्रमाणो। सकल दोष विवर्जिते। खातमान जलगम्भीरे पथर वसाइले सकल दोष याइ।३६। (पृः ५७)

XLV. Regarding building-stones (?)

(क) प्रह्भिन प्रहगुणितानि। एवं कोष्ठो चतुर्ह्रिगानि। दिगसुत्र परियन्नतः शिलाथानक्षुपित। अर्थ। समचतुर्थ कले। दिगसुताठारु यन्न कले। शिलाप्रहाछेद्न होइ। (४२ पृः)

(ख) प्रहेण प्रहगुणितानी एहू चतुर्दगानि दिगशुत्र धनस्तथा। शिलास्थान परिकल्पितं। सुवरनेन क्रतव्यं। क्रतव्य भधोतय। (१-२ पृः)

(क) नवसपतम पञ्चमेक। शिलाल्क्षण विधोयेते। शिलाति दुज्ञोसानामा सप्तः शिला पुषोतम। अर्थ। सप्तशिला पुरुषोत्तम प्रसाद्। नवशिला कर्त्नेचास्ते। सपतसिन्धु मधे मतन १क सिलाभागे मेरु। पकसिला पकानने। अर्थ। न सिलाभाग कणिरेखप्रसाद्। श्लोक। उत्तम कणेचार्ष्टे। सपतसिन्धु मधेमतन।५। सोकसिला मेकसिला सिला भुवन प्रव्रति। अर्थ। भुवनस्वरा येकाम्बर वनसिला ये। ए सिलापुणविधान। (४२-३ पृः)

(ख) नवसपतपञ्चत्रउमेकसं। शलालक्षण विधियेते। शिलप्रिभिज्ञोसानामि। सप्तसिला पुरुसोत्तम वसिला केनचाक्षे समस्त सिन्धु मन्दरानां शोदासिलामेकसिला। सिला सउत्रनव्रत। नवसिला कोनचाष्टे। सप्त सिन्धु मेद्चमे। कसिलार पखेमेरु। सर्व्वसिला पञ्मृनने। उतमकेन चाक्षे। सप्त सिन्धूमेधमरनां। शोकसिळामेकसिला। सिलासुभवनद्रत्य। (२-३ पृः)

XLVI. Regarding the dimensions of stone-blocks

(क) ए सिला पुणविधान। मुनिरोवाचम। शुण मुनि विधानेक रुद्रेण यत क्षुपित। आयेन चतुर्मलिेक। ताल दुइ आन विस्तार। बाहुलो मेकतालेक पूर्व्वकार्य्यानीकृति। स्नवघटित विधानेन शिलादोष विवर्ज्जिता। अर्थ। शुभ परिणाम। द्रीघ चारिताल प्रति दुइताल। उछर्ग एकताल। ए प्रमाणे शुभ करिब। (४३ पृः)

(ख) एवे सिलापूजाविधान। मुनिरोवाच। सुसमयविधानेकं। मृद्रेणजनकल्पितः आयेन चतृतालेकं। तालदुयन विस्तारा।०। बाहोलमेकतालेक। पूर्वकाजानिक्रीति। सर्वंघटविधानेषु। सिलान्दोषविवर्जित।१। (३ पृः)

46. The (block of) stone should be 4 measures in length, 2 in width and 1 in height. It is auspicious to make it so.

XLVII. Faults in building-operation and their effects

(क) अर्थहीने नृपनाशाय। अर्थहीनस्तु क्रिया। विभु ये सक्रपीड़ा। शुलव्याधिसने धर्व। द्रव न थिले यजमान नाश याइ। विभु ये कले विन्धानिकि सक्रपोड़ा नागइ। शूलव्याधि मरणे ध्रुव होइ। (५२ पृः)

(ख) अर्थहीने नृपनासर। अर्थहिनस्तु क्रिया। वभछे सक्रपिड़ा। शूलव्याधि मरणे धृवः।३। (६ पृः)

47. If there be a deficit of funds, destruction will overtake the king. If there is a shortage of materials, the owner of the house (lit. the person performing the ceremony) will be overtaken by disaster. Moreover, the *silpin* who builds (such a temple) will also die of colic pain.

(क) विकोणकोण होइले कि होइ एहा जानिमा। यत्र काणविकोणश्च विविदे सूत्रधारणा। अर्थहीने प्रजापोड़ा न्यायनीतिदुखसमाचरे। यौँ देउलर कण बढ़ि याइ ताकु विदिगसूत्र बोलि। यजमान द्रवहोन होइ। प्रजापीड़ा होइ। (५०-१ पृः)

(ख) विकाणकोण होइले कि दोष होइ ताहा जाणीमा। यत्र कोणविकोणं च विदितो सूत्रधारणा। अर्थहिने प्रजापीड़ा निति दुख समाचरेत। (५–६ पृः)

If one side of the temple (lit. an angle) is made wrong (i. e. if it does not fit with the other sides ?), it is called *bidigasutra* (lit. wrongly aligned ?). In that event, there is a shortage of materials and the subjects of the kingdom are put to suffering.

(क) पिष्टभेद भवे मृत्यु ।७८। गमाभेदे दरिद्रता। भद्रभेदे रोगी। एवु ब्रह्म सत वदति। सिंहासन पुष्ठकु मुखशालि पिष्ठ उच्च होइले मृत्यु होइ। गमा सान होइले विन्धानि दरिद्र होइ। रेखबरण्डकु मुखशालि पोड़ा उच्च होइले विन्धानि रोगी होइ। (५२ पृः)

If the *pista*[1] or pedestal be wrongly made, there will be death. (Thus Brahma says what is true). If the *pista* of the *jagamohan (mukhasāli)* is higher than the *pista* of the *singhāsana* or the throne of the deity, there will be death. If the *gamā* or the corbelled arch above the door, is shorter than it should be, the architect will become poor. If the *pithā* of the *jagamohan* starts at a level higher than that of the *baranda* of the *rekha* temple, then the architect will fall ill.

XLVIII. Merit acquired by building a temple

(क) अश्वमेध शतसहस्रानि वाजपेयशतानि च ततुल्य प्रासादकीर्ति यो निर्म्माण सुखप्रद। अश्वमेध यागं सहे सहस्र वेड़ कळे येते फळ वाजपेय याग सये वेड़ कळे तंते फळ। ततुल्य होइ प्रसादकृतिकि सरि नो होइ।२७। (५२-३ पृः)

48. The merit acquired by performing the Horse-sacrifice a hundred thousand times is equal to the merit acquired by performing the *Bājapeya* sacrifice a hundred times. The same is the merit acquired by building a temple ; the former may even be less.

---

[1] For an explanation of technical terms please see terminology at the end of the book.

X. The Different Types of Orissan Temples

In Orissa, we find altogether four different types of temples, namely Rekha, Bhadra, Khākharā and Gouṛiya. Of these, the first two are very common and are to be found in all parts of the province. The Khākharā type is limited to six examples in Bhubaneswar, but miniatures of this type were very extensively employed as a decorative motif on the body of Rekha or Bhadra temples, and, as such, the type has a wider distribution. Of Gouṛiya temples, we know of only two late examples in the town of Puri ; one beside the Mārkanḍeya tank and the other at the gateway of the Uttarapārṣa monastery. This style did not influence the Orissan temples in any way, although, in the land of its origin it was itself deeply modified by the influence of the Rekha type. We can therefore treat it as an exotic in Orissa and cease from giving it any further consideration. We have included it among the temples of Orissa, because it has found a place in one of the readings of the *Bhubanapradipa*, where it has been illustrated and referred to us *gauri*, which is a corruption of Gouṛiya.

Let us now proceed to analyse the three prevalent types of Orissan temples and compare them in order to find out their points of similarity and of difference.

The first thing that strikes us regarding these temples is that

(1) the ground-plan of the Rekha and Bhadra is square, while

(2) that of the Khākharā is rectangular.

The body of all these temples can be divided along the vertical axis into four principal parts namely, the *pisṭa* or the pedestal, the *bāṛa* or the wall, the *ganḍi* or the body and the *mastaka* or the crown.

The *pisṭa* does not form an essential part of the temple proper, for there are examples in which the *pisṭa* is absent ; the most conspicuous one being the temple of Lingaraja itself in Bhubaneswar. The *bāṛa* rises vertically up to a certain height, and no distinction can be drawn between the *bāṛas* of the three types of temples. It is only with the *ganḍi* that points of difference begin to appear between them.

The *ganḍi* of the Rekha rises straight up to a short height and then begins to curve inwards at an increasing rate. The line so formed presents the appearance of a tall bamboo-post which has been slightly bent towards the top by a rope tied tightly at its upper extremity. The cross-section at any point of the *ganḍi* is square. The *mastaka* of the Rekha starts from above the *ganḍi.* It is composed of several elements, which are all circular in cross-section. Just above the *ganḍi* is the *beki* or the throat ; then comes the *amlā* or *āmalaka,* a flattened spheroid, ribbed at the sides and resembling an enormous fruit of the *āmalaki* in appearance. Above the *amlā* comes the *khapuri* or skull, and on it is placed the *kalasa* or water-pot and *āyudha* or the weapon of the deity to whom the temple is consecrated.

In Bhadra temples, the *ganḍi* is composed of a number of *piṛhās* or horizontal platforms, piled up in the form of a pyramid. The *pīṛhās* rapidly decrease in size from bottom upwards, in such a manner that the sides of the pyramid strike the horizontal at an angle of 45° or less. The diminution proceeds until the topmost *piṭhā* is half in size to the lowermost one. The *piṭhās* may be arranged in one or two tiers, with moderate heights of vertical wall intervening between them. Each of these tiers is called a *poṭala*. The cross-section at any point of the *gaṇḍi* is also square as in the case of the Rekha temple. Above the *gaṇḍi* comes the *mastaka*, composed of several elements which are circular in cross-section. First comes the *beki*, then the *ghanṭā*, an enormous ribbed structure shaped like a bell. On the top of the *ghanṭā* is a succession of *beki, amlā*, *khapuri, kalasa* and *āyudha* as in the Rekha.

The *gaṇḍi* of the Khākharā is composed either like that of a Rekha as in the Vaitāl temple in Bhubaneswar or like that of a Bhadra, with certain minor differences, as in the temple of Gauri in the same village. The cross-section all through is however rectangular. The *mastaka* is composed of one or two *khākharās*, this being a structure resembling a rectangular parallelopiped with the vertical sides substituted by *cyma reversa*. The vertical sides may curve inwards either along one horizontal axis only, or along both. In the former case, the cross-section of the *mastaka*, at different heights above the base, is reduced from those lying below it only in the matter of its width, the length remaining the same at all heights. In the other case, it is reduced both in length and in width. An example of the former is afforded by the temple of Vaitāl, and the other by the Gauri temple in Bhubaneswar. One or more miniature *amlās* may be placed along the crest of the *khākharā*, or there might be a *kalasa* in the middle with figures of crouchant lions at both sides placed instead.

Each type of temple is subdivided into four classes according to the *silpasāstras.* The walls of the temple inside are kept rigorously plain, but the outer walls are modified by the addition of certain projections upon them. These projections run along the entire height of the temple up to the end of the *gaṇḍi* and partake of all movements, either of projection or of depression, suffered by the wall itself. In certain instances, they might also have certain characteristics not appearing on the wall of the temple.

If there be one projection, the wall becomes divided into three *rathakas* or *pagas,* two of which lie in the same plane, the other being disposed a little forward. A temple in which the central *paga* has been once more treated in this manner, will have five pagas on its face ; such an example being called *pancha-ratha* (the one having five *rathakas* or *pagas*). So also a temple might have seven or even nine *pagas,* according as the treatment is repeated three or four times on the central *paga.*

It may be useful to point out, at this stage, that in the *silpasāstras,* there are specifications of 55 Rekha, 6 Bhadra and 3 Khākharā temples. The 55 Rekhas are divided into two classes according to the construction of their *bāṛa* or wall. They are otherwise identical in regard to the structure of their vertical components. The only points of difference between them lie in the relative proportion of their *pagas* and the number of ornamental spires which adorn them.

In the *silpasāstras,* we find the following passages

regarding the classification of temples according to the number of their *pagas*.

XLIX. The classification of temples

(क) गणेशाय नमः। इति नैमिषारण्ये भुवनप्रदीपे विसिक्रमा मुनिसम्बादे प्रसाद (ल)क्षण। × × × × ब्रह्मक्षेत्रिवैश्यसुद्र सर्व्व आचरन्ति कृतिना चतुजाति क्रमानि। × × × × एवे येँउ जाति येँउ रथक होइब ताहा जानिमा। ब्रह्मजाति नवरथेन क्षेत्रिय सप्तभिस्तथा वैश्य पञ्चरथ त्रिभि शूद्रय एमोवच। येन जाति येन प्रसाद × × × × (४०-१ पृः)

ब्रह्मजाति प्रसादेन क्रिया यदि कुपियेते। गोविन्दमुखारविन्दे ब्रह्मथाने भवे लुना। अर्थ। नवरथेक देउल ये ब्राह्मण गढ़ाइले पित्रे बहुथाने वसन्ति।२९। क्षेत्रिय असमधेन प्रसादेन भूतले यत्र निवसन। अर्क चन्द्र भुवनेन॥ विहरे पितरेगण॥ सप्तरथ देउल क्षेत्री गढ़ाइले चन्द्र सूर्य्यभुवने पित्रे वसन्ति। ३०। यथा प्रसाद वैसने निवसेन वसुन्धरा धनदोपवेनयिन्द्रा विहरे पित्रगणाः। वनस येवे पञ्चरथ देउल गढ़ाइब से रुद्रसभारे पित्रे वसन्ति।३१। शूद्रे प्रपन्ति कैनार। प्रसाद निवसेनश्च। साकत्र भ्रमणश्च चन्द्रार्के वसते नरः। अर्थ। शूद्र येवे गढ़ाइ त्रिरथ देउल। चन्द्रभुवनरे पित्रे वसन्ति। (५३-४ पृः)

(ख) श्रीगणशाए प्रणम्य अविघनममत्यु इति श्रीनउमिसारण्ये भुवनप्रवेसे विस्वकर्मामुनिसम्बादे। ब्रह्मक्षत्रिय वश्यसुद्र चारिजातिना चतुर्जाति कर्माणि। क्रीआ वसुन्धरा। ब्रह्मजातिनवचतुर्थेन। क्षत्रिय सप्तभिस्तथा। विष्य पञ्चुरथो त्रिशूद्रयोमेवच। (पृः १)

येउ यातीरे येउ कत ताहा यानिमा।१५। ब्रह्मयासी प्रमादेन। क्रिया जदि क्रपयते। गोवीन्दमुखारवीन्दे ब्रह्मस्थान भवेनृणां।१६। क्षत्रिअस मध्य प्रसादेन। भूयं तले जतनीवेसनं। अर्कचन्द्रभवनेन। वीहारो पितरोगणाः।१६। यथा प्रासाद वैस्वेन नोवेसने वसन्धरा। धन तपोवने खद्रा। वीहरे वरुनालयः।१। शूद्रे कल्पन्तिके नारि। प्रसाद सनोवेसनं। तथात्मा कर्त्तभर्मनेसं। चन्द्रार्के वसते नरः।१८। (६-७ पृः)

49. Salutations to Sri Ganesha. Let there be no hindrance (to this undertaking). Thus (begins) in the *Bhubanapradipa*, which was recited by the sage Viswakarmā in the forest of Naimisha, (a description of) the characteristics of palaces (meaning temples in the present case) . . . Now (we are) to know how many *rathakas* characterise the (different) classes of temples. The Brahmin (is characterised) by nine, the Kshatriya by seven, the Vaisya by five and the Sudra by three *rathakas.* If one builds a *nabaratha* temple, which is Brahmin (by caste), then the manes of the person will dwell in the region of Brahman, the Supreme Being. If one builds a *saptaratha* temple, one's manes will verily live in the Surya and Chandra-lokas. If a Vaishya builds a *pancharatha* temple, (or perhaps, more correctly, if one builds a *pancharatha* temple), then one's manes will dwell in the region of the Rudras. (If one builds) a Sudra or *triratha* temple, then one's manes will dwell in the region of the Moon.

XI. On Pedestals

L. The eight pedestals

(क) एवे पिष्ट जानिमा। पद्मनाम यथा पिष्ट। सिंहश्लिपि विधियते। भद्रदेवोकुम्भक्षत।४५। सुथिरक खुर कुम्भ भवेत।४६।…परिजङ्घ चाष्टोपिष्ठे नवमे क्रम (कूर्म ?) पिष्ठ झालक। (५८ पृः)

(ख) पद्मनाम जथा पुष्ट। सिंहस्लिपी वोधियतेः। भद्रवेदी कुम्भख्यात। शुन्दर खुर कुम्भ भवेत। (२२-३ पृः)

50. Now (we are) to know the *pisṭas*, viz. Padma, Singha, Bhadra, Bedi, Suthira, Khura, Kumbha, Parijāngha and Kurma.

It will be seen later on that the Kumbha and Kurma *pisṭas* are in fact identical; so the number of *pisṭas* actually amounts to eight only.

LI. Padma pisṭa

It is said in (क) that the Padma *pisṭa* should be used in the following temples: Mahā-kailāsa (P. 110), Garuṛa (p. 118), Dui-padma (P. 138), Sreetaru (P. 142), Mahā-meru (Pp. 149 and 157) and Meru (P. 179). Its specifications are given below.

(क) पद्मपिष्ट खुराभाग ३ फुलदलझराभाग ४ केसर भाग २ फेणाभाग १ गाए पद्मपिष्ट भा १० (११० पृः)

पद्मपिष्ट खुराभाग ३ फुलदलधरभाग ४ केसरभाग २ फेणाभाग १ गाए पद्मपिष्ट भाग ६ (१४२ पृः)

पद्मपिष्ट खुराभाग ३ दलफुलझरा भाग ४ केसर भा १ फेणा भा १ गाए पद्मपिष्ट भाग १० (१४६ पृः)

(ख) पद्मपुष्ट खुराभाग ।३। दलझरा भा ४ ।...(२३ पृः)

पद्मपिष्ट खुगमुहण्टा भा ३ दलझरा भा ५ केसर भा १ अर्धफेड़ा भा २ । ए पद्मपुष्ट भा ११।।· (३० पृः)

(च) ता १० खुराभाग ३ दलझरा भा ४ केलरि भा २ फेड़ा भाग १ गाए पद्मभाग १० ।

It has not been possible for us to arrive at any definite conclusion regarding the form of the Padma *pisṭa*, for no satisfactory explanation of the terms *dalajharā* and *ardhapheṛā* are available.

According to the *silpins*, a Padma *pisṭa* should be composed of three elements, the higher ones being set back inwards as shown in the accompanying photograph. A line drawn touching the outer edges of the mouldings, in such a case, strikes the horizontal at an acute angle. We do not know, however, if it is really the Padma *pisṭa* of the *silpasāstras* or ṇot.

LII. Singha pisṭa

According to (क) the Singha *pisṭa* should be used in connection with the throne of the deity, as also under the following temples : Ratnasāra (Pp. 115,117,144), Mula-sribachha (Pp. 145, 163) and Mandara (Pp. 149,158). Its specifications are given below.

(क) सिंहासने सिंहपिष्ट सुरलोकनिवारण ।। (६३ पृः)

कोणसन्धिसमाकिनु पकभागे ऊर्द्धपटिता । विहिक्रम वनासइ । सिंहपिष्ट विधियेते ।।७६।। (६५ पृः)

सिंहपिष्ट खुराभाग ५ जांघभाग ६ वरण्डी वसन्त भाग ४ गाए सिंघपिष्ट भाग १५ (१४४ पृः)

सिंघपिष्ट खुराभाग ५ जांघभाग ६'''वसन्तभाग ४ गाए सिंहपिष्ट भाग १५ (१४७,१४६ पृः)

(ख) सिंघासन सिंघपोष्टे ।१। (पृः १४)

कोणसिंघं समाकेतुं । पञ्चभागे उर्धघटीका । वीहोतकर्म वीनासई । सिंघपुष्ट वीधियते ।१। (१६ पृः)

सिंघपुष्ट खुग भा ५ यंघ भा ६ वरण्डि वसन्त भा ६ (३०-१ पृः)

सिंघपृष्ट खुरा ४ भाग लोली भा १ यांघ ७ वरण्डि वसन्त ४।०। (८७ पृः)

(ङ) सिंहपिष्ट सिंहासने सुरलोक निवारण (१७४ पृः)

(च) शिंगपिष्ट भा ५६ खुरा भा ५ यांघ भा ६ वरण्डि भा २ वसन्ता भा २ गाए भा १५

Several illustrations accompany the text in ms. (च), and the plate showing the different *pisṭas* has been drawn after this ms.

52. Singha *pisṭa* (is to be used) in the throne (of the deity). In the corner of the *jāngha*, (there should be) figures of corner-lions (*koṇa-singha*). (Its parts should be in the following proportion) *khurā* 5, *jāngha* 6, *baranḍi* 2, *basanta* 1, ; or, *khurā* 4, *noli* 1, *jāngha* 7, *baranḍi* with *basanta* 4.

LIII. Khura pisṭa

According to (क), the Khura *pisṭa* should be used in the Nalini-bhadra (P. 126), Sribachha khanḍasāla (P. 141), Kritidushana (P. 142), Nisaṛa (X. 146) and Asṭa-sree temples (P. 180).

(क) खुरपिष्टे तु सकर प्रसाद सुसुवे द्विज ।३४। (६२ पृः)
(एहा खुरपिष्ट करिब) पिष्टर खुरा करिब तिनि आंगुल दुइ पा ३।।० ।।
वसन्त दुइ आंगुल दुइ पा २।।० ।। गाए पिष्ट छ आंगुल ।। (१२६ पृः)

खुरपिष्ट खुरा मुहुन्टा भाग २ खुरकुम्भ भाग पा ५ जांघभाग १ वसन्त भाग २ गाए खुरपिष्ट भाग ६ । (१४६ पृः)

(ख) खुरपुष्ट मुहान्टि भाग २ शुभकुम्भ भाग ५ पेड़ा भा १ वसन्त भाग २ गाए खुरापुष्ट भा ६ (२४ पृः)

(ङ) In a drawing given in this ms., the Khura *pisṭa* is shown as being composed of two mouldings which are in the proportion of 6 : 8. (P. 180)

(च) खुरपिष्ट भाग ६ मरुणी भाग २ खुरकुम्भ भाग ४ पेटा भाग १ वसन्त भाग १ गाए भाग ६

53. The Khura *pisṭa* (is used to) adorn all temples of the twice-born caste (or "O twice-born one, the Khura *pisṭa* adorns all temples").

The *muhānṭi* or base of the *khurā* should be 2, the *khurā* (or *kumbha*) 5, the *peṭā* 1 and the *basanta* 1 or 2.

LIV. Parijāngha pisṭa

According to (क), the Parijāngha *pisṭa* should be used in connection with the following temples : Baṛabhi (Pp. 135,176), Mahā Baṛabhi (P. 136) and Mahā Draviṛa (Pp. 137,168). Its specifications are given below.

(क) परिजंघपिष्ट खुरा पटा भाग ५ जंघा भाग ६ वसन्त भाग ३ गाए परिजंघपिष्ट भाग १४ । (१४३ पृः)

(ख) परिजंघपिष्ट खुरा भा ५ यांघ भा ६ वसन्त भा ३ गाए परियंघपिष्ट भा १४ । (३१-२ पृः)

(च) परियांघपिष्ट भाग १४ खुरा मुहुट भाग ५ शंघ (यांघ ?) भाग ६ वसन्त भाग ३ गाए १४

54. The specifications of the Parijāngha *pisṭa* are as follows : *khurā* 5, *jāngha* 6 and *basanta* 3 ; total 14.

LV. Kaṇi pisṭa

According to (क), the Kani *pisṭa* should be used in the Drabibāna temple (P. 156). There is a drawing in (ङ), which gives the proportion of the mouldings as 4 : 5 : 6. But in (च), we find the following specification.

(च) कणिपिष्ट भाग १८ खुरा भाग ७ कणि भाग ६ वसन्त भाग ५ गाए भाग १८

55. (If the total be 15, then the) *khurā* is 4, *kaṇi* 5 and *basanta* 6 ; or *khurā* 6, *kaṇi* 5, *basanta* 4. (If, however, the sum be 18, then) the *khurā* is 7, *kaṇi* 6 (but in the accompanying diagram we find a *noli* used instead of a *kaṇi*), and the *basanta* 5.

LVI. Bedi pisṭa

According to (क), the Bedi *pisṭa* should be used in connection with the Purṇasālā templẹ (P. 146).

(क) वेदिपिष्ट खुरानोलि भाग ४ पटा भाग १ कणिभाग २ उपर दलम्फरा भाग २ गाए वेद्दिपिष्ट भाग ६ (१४७ पृः)

(ख) वेद्दीपुष्ट भा ३। लोली भा १ कोणि भा २ उपर दलम्फरा २ भाग। गाए वेद्दीपुष्ट भा ६ (२३ पृः)

देवीपिष्ट खुरा भा ३ लोली भा १ पटा भा १ कोसि भा २। उपर दल भा २ गात्र देवीपिष्ट भा ६ (३१ पृः)

(च) वेदिपिष्ट भाग ६ (?) खुराभाग ३ लोलीभाग १ पटोएभाग १ कणि भाग २ उपर दलम्फरा भाग २ गाए···६ स।

In the accompanying diagram however the proportions are given as 4 : 1 : 1 : 2 : 2.

56. The sum-total of the different elements of the Bedi *pisṭa* is 9, of which the following are the details : *khurā* 3



Terracotta works of Rasikarāya Temple, Haripur, Mayurbhañj State

ए मध्ये बान्धेणि आ २। वरण ६ रेखगण्डि आ ३६ वेदी आ २ वेक आ ३ त्रिपाटी एक आङ्गु १। अला आ ४। कपुरि मुहाण्टि आ १ कपुरि आ ३··· कलस खुरा ३ कलस ८···चक्र भा ५ गेन। (२४-५, २८ पृः)

(४) (ख) देउल गर्भ काठी आ१६ङ्गुलकु पिष्ट ६ पाआभाग ६ दुइ यांघ १० ए मध्ये वान्धना २। रेख ३२ वीसम २ वेक ३ त्रिपाटो १ अल ४ कपुरि मुहाण्टि १ कपुरि मारिब २।।।० उंच २।।।० (८२ पृः)

(५) (क) विवानभाग प्रहकाठि आंगुल १६ पिष्ट ५ पाभाग ६ वान्धना १।।० दुइ जांध दस आंगुल १० वरण ६ रेखगण्डो उच ३४ चेदि २ ।। वेक तिनि आगु दुइ पा २।।० अला चारि आंगुल पा ४।० कपुरि चारि आङ्गुल पा ४।० ।। कलस सात आंगुल दुइ पा ७।।० चक्र चारि ४।।।० ।। (१३९ पृः)

(६) (क) मूलश्रीवछ गर्भ सोल पिट ६ पाभाग ६ दुइ जांघ १० ए मध्ये वान्धणा २ वरण ६ रेख ३६ चेक अएला कपुरि होइँ वा १२ कलस आ ८ चक्र पा ५ (१४४ पृः)

(७) (क) श्रीवछनदिव्रधत्त भाग प्रभ १६ पिष्ट पाभाग ६ दुइ जांघ ६ वांधणा २ वरण ६ रेखखण्डो पञ्चतिरिसि आंगुल ३५ विसम दुइ आंगुल २ वेक तिनि आंगुल दुइ पा कपुरि चारि आंगुल ४। कलस सात आंगुल दुइ पा ७।।० चक्र ४।।० (१४१ पृः)

(८) (क) दुइपद्म भाग गर्भकाठि आंगुले १६ पिष्ट ५ पाभाग दुइ जांघ १० ए मध्ये वान्धणा २ वरण छ ६ रेख ३६ वेदि २ वेक अएला कपुरि होइँ १२ कलस आ ८ चक्र ५ (१३६-७ पृः)

(९) (ख) ए महाप्रसाद देउल गर्भ काठी आ १६ कु···(पिष्ठ ६ पाभाग) आ ६···यांध···५···वान्धणिकु···(॥≡)+॥≡)+॥≡)) उपर यांघ आ ५··· वरण ६···रेखगण्डि ३६···वेदो आ २ वेक उच्च (३) त्रिपाटी १ अला बहल ४··· कपुरि मुहाण्टि १ कपुरि वहल २।।० कलस खुरा २ हाथिपाट आ २। डोरि पाए ।० चाङ्कड़ा १।।० काठी पाए ।० चांगुड़ी ।।।० घड़ो वहल २···(८८-९० पृः)

(१०) देउ गर्भकाठी आंगुल १६ पिष्ट ६ पाभाग ६ दुइ यांघ १० ए मध्ये वान्धणि २ वरण्डि ६ रेख ३६ वीम २ वेक ३ त्रीपाटी १ अला ४ कपुरि मुहटा १ कपुरि २॥।० मारिब ३ खुरा ३ कलस ६ (७६,८०,८५ पृः) Besides this, (क) पृः १३८, ११७, ११४ and १०५ and (छ) पृः १६०-१, १६८, २०२, २०४ give the same general specification.

(११) (क) महा बड़भिभाग प्रभ काठि आङ्गुले १६ पिष्ट ६ आङ्गुल पादभाग उच्च छ आङ्गुल ६ दुइ जांघ १० ए मध्ये वान्धणा २ वरण्ड छ ६ रेख ३६ वेदि २॥० वेक ४ अला ४ कपुरि ४ कलस ८ चक्र ५ (१०७, ११०, १११, १२०-५, १४० पृः)

(१२) (क) कैलास गर्भ काठि आङ्गुले १६ पिष्ट ६ पाभाग ६ जांघ ५ वान्दणा २ उपर जांघ ५ वरण्ड ६ रेख ३६ वेदि २॥० वेक ४ अला ४॥० कपुरि ४॥० कलस चक्र पा ५ (११६ पृः)

Name of the temple	Garbha	Pisṭa	Pābhāga	Tala Jāngha	Bāndhana	Upara Jāngha	Baranḍa
Mulasreebachha	16	6	6	5	2	5	6
Brishava Garuṛa Ratnasāra Astasree	16	6	6	5	2	5	6
Duipadma	16	5	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	X	6	5	2	5	6
Mahā Baṛavi Mahā Kailāsa Garuṛa Ratnasāra Sreetaru	16	6	6	5	2	5	6
Mahā Meru	16	6	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	6	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	6	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	6	6	5	2	5	6



Part of *gaṇḍi* of the Liṅgarāja Temple showing *Śikharas* on the Anuratha paga

Name of the temple	Garbha	Pisṭa	Pābhāga	Tala Jāngha	Bāndhanā	Upara Jāngha	Baranḍā
(Name ?)	16	6	6	5	2	5	6
Brishava	16	6	6	5	2	5	6
Mahā Meru	16	6	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	6	6	5	2	5	6
(Name ?)	16	4	6	5	2	5	6
Kailāsa	16	6	6	5	2	5	6
Sribachhanadi bardhana	16	6	6	$4^1/_2$	2	$4^1/_2$	6
Bibāna	16	5	6	5	$1^1/_2$	5	6
Bibāna	16	6	6	5	2	5	6
Mula Sreebachha	16	6	6	5	2	5	X
Subarna kuṭa	16	4	5	4	$1^1/_2$	4	5
Ratnasāra	16	6	6	5	2	5	6

Name of the temple	Ganḍi & Bisama.	Beki	Amlā	Khapuri	Khurā of kalasa	Kalasa	Chakra	Total height in āngulas
Mulasreebachha	36 & ?	4	4	4		8	5	78
Brishava Garuṛa Ratnasāra Astasree	36 & 2	4	4	4		8	5	80
Duipadma	36 & 2	4	4	4		8	5	79
(Name ?)	36 & 2	4	4	4		8	5	74
Mahā Baṛavi Mahā Kailāsa Garuṛa Ratnasāra Sreetaru	36 & $2^1/_2$	4	4	4		8	5	$80^1/$

Name of the temple	Gandi & Bisama	Beki	Amlā	Khapuri	Khurā of kalasa	Kalasa	Chakra	Total height in āngulas
Mahā Meru	X & 2	4	4	4		3	9	80
(Name ?)	36 & X	4	4	4		3	9	80 ?
(Name ?)	X & 2	4	4	4		X	9	80 ?
(Name ?)	36 & 2	4	4	4	.	$8^{3}/_{4}$	.	80
(Name ?)	36 & 2	4	4	4	3	9		80
Brishava	36 & 2	4	4	4	4	9		80
Mahā Meru	36 & 2	4	4	4	2	9		80
(Name ?)	36 & 2	4	4	$3^{1}/_{2}$	2	X	.	$79^{1}/_{2}$
(Name ?)	36 & $2^{1}/_{2}$	4	5	4	.	8	5	$79^{1}/_{2}$
Kailāsa	36 & $2^{1}/_{2}$	4	$4^{1}/_{2}$	$4^{1}/_{2}$	Kalasa &			
Sribachhanadi						Chakra	5	$81^{1}/_{2}$
bardhana	35 & 2	$3^{1}/_{2}$	4 ?	4		$7^{1}/_{2}$	$4^{1}/_{2}$	$82^{1}/_{2}$
Bibāna	34 & 2	$3^{1}/_{2}$	$4^{1}/_{4}$	$4^{1}/_{4}$	.	$7^{1}/_{2}$	$4^{3}/_{4}$	$76^{1}/_{2}$
Bibāna	32 & 2	4	3	.3		9	5	74
Mula Sreebachha	32 & 2	4	4	$3^{3}/_{4}$	.	.	.	$75^{3}/_{4}$
Subarna kuṭa	30 & 2	3	3	3	.	6	4	$64^{1}/_{2}$
Ratnasāra	30 & 2	4	4	$2^{3}/_{4}$	2	?		$72^{3}/_{4}$

The ratio of the length of the *garbha* and the height of the temple can be thus arranged in the following table :

1. 16 : $64^{1}/_{2}$ or 1 : 4
2. 16 : $72^{3}/_{4}$
3. 16 : 74
4. 16 : $75^{3}/_{4}$
5. 16 : $76^{1}/_{2}$
6. 16 : 78
7. 16 : 79
8. 16 : $79^{1}/_{2}$
9. 16 : 80 or 1 : 5
10. 16 : $80^{1}/_{2}$
11. 16 : $81^{1}/_{2}$

LXV. Different specifications for bāṛas of the panchānga type.

The *bāṛa* of the Rekha can be divided according to one of the four following specifications ; the proportion of the *pābhāga* : *tala jāngha* : *bāndhanā* : *upar jāngha* : *baranḍa* being

(1) 6 : 5 : 2 : 5 ; 6 or (2) 6 : $4\frac{1}{2}$: 2 : $4\frac{1}{2}$: 6 or
(3) 6 : 5 : $1\frac{1}{2}$: 5 : 6 or (4) 5 : 4 : $1\frac{1}{2}$: 4 : 5.

XIII. The Rekha Temple : Detailed vertical specifications

It must be borne in mind that all the following measurements refer to a temple of which the *garbha* is 16 ān.×16 ān., except where otherwise stated. The unit of measurement is an ān.

LXVI. The Pābhāga

(क) (रत्नसार मन्दिरे) पाभाग छ आ ६ एथि पाञ्चकाम करिब। खुरा करिब आंगुले ।।।=)० सुता ।। कलस करिब आंगुले ।।=)० सुता। पटा करिब तेर सुता ।।।–) ।) सुतारे पाए ।। कणि करिब तेर सुता ।।।–) ।) सुतारे पाए ।। वसन्त करिब तेर सुता ।।।–) ।) सुतारे पाए ।। (१२० पृः)

'' पाभाग ६ आङ्गुलकु ।। पाञ्चकमर खुरा करिब आङ्गुले १।।।=) चौद सुता। खुरा मरिब मुचुलि सरिकि आङ्गुले १४ सुता ।। कलस आङ्गुले १।।=) दस सुता कलस बुलिब मारेणि आङ्गुले २ सुता ।।०।। पटा वहल तेर सुता ।।।–) सुतारे देड़ पा ।। कणि बहल तेर सुता ।।।–) सुतारे देड़ पा ।। वसन्त बहल तेर सुता देड़ पा पाए (=गाए ?) पञ्चकामकु छ आङ्गुल ६ ।। (१०२-३ पृः)

(ख) खुरा मुहण्ट खुरा भाग १।।।=) कलस आ १।।।≡)० घण्टि कण्ठिक वसन्त होइब आ २।।० गाए आ ६ (८८ पृः)

(If the *garbha* is 32 ān. square, then the *pābhāga* should be 12 ān. high. The 12 ān. should be divided in the following manner) खुरा मुहाण्टि आ १।।)· खुरा मारिब आ १।।≡)· पिड़ा क्ष शु ।=)· मुचिलो ४ गाए खुरा वहल ३।।।)· कलस वहल आ ३।।)· कु दमा वहुल १=)· डोरि वहल ६ सुता कान्ध १=) पाती ।।।) सुता पटा

आ १॥≡) कणि आ १॥≡) वसन्त आ १।॥) गाए पञ्चकमकु पाआभाग उञ्च आ १२। (६१ पृः)

(छ) खुरा ६ कलस ६ पटा ३≡) कणो ३≡) वसन्त ३≡) (१२ पृः)

खोरा ६ कुम्भ ६ ३≡) ३≡) ३≡) (१३३ पृः)

पाद पञ्चकम सतर भागे १७ न सुता ॥-) खुरा ४ कुम्भ ४ पटा ३≡) कणि ३≡) वसन्त ३≡) (?) गाए सतर भाग न सुता १७॥-) (२६ पृः)

खोरा ४ कुम्भ ४ पटा ३≡) कणि ३≡) वसन्त ३≡) (१३३ पृः)

66. The ratio of the different mouldings of the *pābhāga*, viz. the *khurā*, *kumbha*, *paṭā*, *kani* and *basanta* will be according to one of the following tables :

$$(1) \quad 1^{7}/_{8} \quad 1^{5}/_{8} : \frac{13^{1}/_{4}}{16} : \frac{13^{1}/_{4}}{16} : \frac{13^{1}/_{4}}{16}$$

$$(2) \quad 1^{7}/_{8} : 1^{5}/_{8} : \frac{13^{3}/_{8}}{16} : \frac{13^{3}/_{8}}{16} : \frac{13^{3}/_{8}}{16}$$

$$(3) \quad 1^{7}/_{8} : 1^{15}/_{16} : \frac{13^{1}/_{3}}{16} : \frac{13^{1}/_{3}}{16} : \frac{13^{1}/_{3}}{16}$$

$$(4) \quad 9 \quad 9 \quad 3^{3}/_{16} : 3^{3}/_{16} : 3^{3}/_{16}$$

$$(5) \quad 4 \quad 4 \quad 3^{3}/_{16} : 3^{3}/_{16} : 3^{3}/_{16}$$

The batter of the *khurā* will be equal to its height If the *kalasa* be $1^{5}/_{8}$, its batter will be $1^{1}/_{8}$.

The *pābhāga* illustrated in the accompanying plate has the following dimensions ; the *muhānṭi* of the *khurā* is $1^{1}/_{2}$, the *khurā* is ?, the *piṛhā* $^{3}/_{8}$, the *muchuli* $^{1}/_{4}$ (?), the total height of the *khurā* being $3^{13}/_{16}$. Its batter is $1^{11}/_{16}$ ān. In the *kalasa*, the *damā* is $1^{1}/_{8}$, *ḍori* $^{3}/_{8}$, *kāndha* $1^{1}/_{2}$, *paṭi* $^{3}/_{4}$, their sum being $3^{1}/_{2}$ ān. The *paṭā* and *kani* are each $1^{5}/_{8}$ ān. high. The *basanta* is $1^{3}/_{4}$ ān. ; the sum of the five mouldings being $12^{1}/_{8}$ ān.

LXVII. Another specification for the pabhaga

(क) पाद्भिरा (भा ?) ग जनुमतर। रसरामिवे वस्तना। खुरक वेद्भागेण॥ वेद्भागेन कुम्भका॥ वसन्तमेकभागेन॥ सेसभागेण मुचुलि॥ (२८ पृ:)

एवे पाद्भाग जानिमा। खुरा तिनभाग करिब। भाग १ क। मुहुटा करिब १॥· देड़ भाग। खुरा मारिब अध भागे। कणिक तिन भाग करिब। दुइ भाग दुइ पान्ता मारिब। भागे मुचुलि करिब। कलस तिनि भाग करिब। दुइ भाग तलकु वुलाइब। भाग १ दुइ भाग करिब। भागक कान्ध मारिब। भागे पाहन्ता मारिब। पटा तिन भाग करिब। भागक मुहुटा करिब। तल भाग ३। दुइ भाग पाहान्ति मारिब। भागेक कान्ध पाटि करिब। उपर भाग तिनि भाग करिब॥ एक पाहन्ति मारिब भाग एक दुइ भाग करिब उड़ापाटि भा १ कण्ठ करिब भाग १ कणि एहिरूपे करिब॥ वसन्त एहिरूपे करिब। (६८-६ पृ:)

एवे पाभाग जानिमा। खुर तिन भाग करिब कलस तिनि भागरु दुइ भाग तलकु वुलाइव। चाङ्कुड़ा उच्च चारि भाग करिब। गाए १० भाग करिबा। खुर तिनि भाग करि भागक खुरा पसिब। खुरा तिनि भागर भागे मुहुटा। खुरा मारिब १॥) भाग पाहान्ता खुरा ६ भाग मुहुठा ३। खुरा माविर ६ पाण्डा २ मुचुलि भाग १। २ मुचुलि भागे १॥ दुइ भाग गाए वार १२॥ (१०२ पृ:)

67.........*khurā* should be 4 measures, the *kumbha* 4 measures, *basanta* 1 measure ; at the end there should be a *muchuli* . . . . . .

LXVIII. The set-back of the pābhāga from the pisṭa

(ग) बड़देउल पाभाग पछ होइब आङ्कुलरे दुइ (पा ?) (१५८ पृ:)

68. In the principle temple (i. e. in the Rekha), the *pābhāga* should be set back 1/2 ān. from the *pisṭa.*

LXIX. The tala jāngha

(क) तलजाङ्घ पा ५ आंगुल। एथि वहिब खाखरमुण्डो। (१०४,१२० पृ:) नरविराल गजविअल॥ एते उपर जङ्घे (२६ पृ:)

(ख) एवे यांघ जाणिमा। यांघ भाग प्रतीगुण अवर्तकलं।·········। यांघ उच्च होइब ६ भाग करिब। दुइ यंघ मुण्डिपाद करिब। बहल २ मुण्डि करिब भा ४ पित बहल करिब भा १ पाखर (=खाखर ?) वहल करिब भा ४। कलस करिब भा १·······(२६ पृः)

जंघ भाग जाणिमा। जंघभाग प्रतिद्गुण। उर्द्धभागद्तकाल।·········। जंघ भाग १२ भागकु करिब मुण्डिपाद २ भाग करिब। मुण्डि भाग जघ चारि भाग करिब। पिड़ाभागे १ करिब। खाखरा तिनि भाग करिब।१। गलका अला भा १ करिब। कपुरि मध्य करिस करिब। (७० पृः)

(In a temple of which the *garbha* is 32 ān.×32 ān., the *jāngha* should be 10 ān. high) यांघ आ १० रु वार भागकु मुण्डिपाद १।।।०) मुण्डि यांघ; आ ३।।०) पिडा वहल आ १≡) खाखरा वहल आ १≡) खाखरा २।।≡) खाखरा खात ३ शुता कलस ।।।≡) सुता (६१ पृः)

Regarding the niches at the level of the *tala jāngha*, placed where the different *pagas* meet, it is said that they should "take off $^{1}/_{4}$ from the sides" (of the width of the *khākharāmuṇḍis ?*).

(छ) जलन्तर पाए काखजम्रृ (३२ पृः)

जलन्तर पाये काखजरि (२३४ पृः)

69. Figures of *nara-virālas* and *gaja-virālas* should be placed in the *tala jāngha*. *Khākharā-muṇḍis* should be set in the *tala jāngha*. The height of the *jāngha* should be divided into 12 portions, which should be distributed in the following manner.

(1) The *pāda* of the *muṇḍi* 2, the *jāngha* of the *muṇḍi* 4, the *piṭhā* 1, the *khākharā* 4 and *kalasa* 1 ; or

(2) the *pāda* 2, the *jāngha* 4, the *piṭhā* 1, the *khākharā* 4, the *kānṭi* and *amlā* 1.

The illustration given is that of a *khākharā muṇḍi* in a temple of which the *garbha* is 32 ān.×32 ān. The 10 angulas of the *jāngha* are distributed in the following manner: the *pāda* $^{3}/_{4}$, the *jāngha* $3^{1}/_{2}$, the *piṛha* $^{1}/_{8}$, the *khākharā* $1^{1}/_{8}$, the *khākharā* $2^{5}/_{8}$, the recess between the *khākharās* $^{3}/_{8}$, and the *kalasa* $^{7}/_{8}$ ān.

LXX. The set-back of the tala jāngha

(क) पाभागकु जाङ्घ पक्ष होइब द्वि पा (९९-१०० पृः)

70. The *tala jāngha* should be set back $^{1}/_{2}$ ān. from the *pābhāga*.

LXXI. The Bāndhanā

(क) बान्धना ३ वरण्डी नुलि वसन्त ३ कम सरि वहल ॥ (९९ पृः)

बान्धना दुइ आङ्गुलकु। तिनि कम सरि वरण्डो नोलि वसंत (१०४ पृः)

वांधना दुइ आंगुल २ ए एथि तिनि काम करिब। वरणि करिब दस सुता ॥=) सुतारे एगार विस्वा। नोलि करिब दस सुता ॥=) सुतारे एगार विसा। वसन्त करिब दससुता ॥=) सुतारे एगार विसा। १२१ पृः)

(ख) वान्धेणी २ आङ्गुल करि तीनी भा ३ भान्धना पुष्ट भागेन १ वरण्डि तोली वसन्तक (२६-७ पृः)

भाग बान्धनो करिब दुइ आ २ ल। ताहा तिनि भाग करिब। भाग व वरण्डि करिब।१। भागक लोलि करिब।१। भागक वसन्त करिब। (७०-१ पृः)

(If the *garbha* of the temple be 32 ān. sq., than the) बान्धणि ४ आंगुल कु वरण्डि वहल १।=) सुता। लोली आ १।=) शुता वसन्त आ १ चारि शुता। गाए बान्धणि वहल आ ४ ङ्गुल। (९१ पृः)

There are two illustrations of the *bāndhanā* in (छ), in which it is constituted by five mouldings of equal height (Pp. 32 and 234).

71. The *bāndhanā* should be formed by three or five mouldings. The mouldings should either be *baranḍi, noli, basanta* or *baranḍi, noli, paṭā, kaṇi, basanta.* In the case of a temple of which the *garbha* is 32 ān. square, the *baranḍi* should be 1³/₈ ān., the *noli* 1³/₈ and the *basanta* 1¹/₄, their sum being 4 ān.

LXXII. The Upar Jāngha

(क) परिर्जेङ्घे कैना निवेस्यात् । खेडानिल सोशोभित । (२६ पृ:)
उपर जांघ पा ५ आङ्गुल । तँहि पीड़ा मुण्डीटोए होइब ॥ (१०४ पृ:)
उपर जांघ पाञ्च आंगुल ५ एथि पिड़ा मुण्डि करिब ॥ (१२१ पृ:)

(ख) उर पछ जंघ वार भा १२ करिब । दुइ भाग मुण्डिपाद करिब । चारि ४ भाग मुण्डि जांघ करिब । पिडा चारिभाग करिब । वेक अला कपुरि भागेक करिब ।१। कलस भागेक करिब ।१। (७१ पृ:)

(If the *garbha* be 32 ān. square) उपर यांघ आ १० कु मुण्डि पा वहल १।।।) सुता ।५। मुण्डि यांघ ३।।) मुण्डि पिडा वहल आ १।=) दुतीअ पिड़ा वहल आ १ तृतीअ पिड़ा वहलं ।।।=) । वेक पाए । अला पाए कपुरि पाए । कलस शु १४ ता । गाए आ १० । (६१-२ पृ:)

72. Female figures (*kanyā*) should be placed in niches at the junction of different *pagas* in the *upar jāngha.* There should be a *piṛhā munḍi* in the *upar jāngha.* Divide the height of the *piṛhā munḍi* into 12 parts ; of which the *pāda* should be constituted by 2, the *jāngha* by 4, the *piṛhā* by 4, the *beki-amla-khapuri* by 1 and the *kalasa* by 1 part.

If the *garbha* be 32 ān. square, then, in the *munḍi,* the *pāda* should be 1³/₄, the *jāngha* 3¹/₂, the first *piṛhā* 1³/₈, the second *piṛhā* 1, the third *piṛhā* ⁷/₈, the *beki* ¹/₄, the *amlā* ¹/₄, the *khapuri* ¹/₄, and the *kalasa* ⁷/₈ ān.

LXXIII. The Baranḍa

(क) वरण्ड छ आङ्गुल ६ मैध्यरे दसकम वहिब ॥ ए दसकम सरि वहल। वरण्डी दस सुता दुइ पा सुतारे फेणी दस सुता दुइ पा सुतारे। पटा दस सुता दुइ पा सुतारे। कणि दस सुता दुइ पा सुतारे। नोलि दस सुता दुइ पा सुतारे। पटा दस सुता दुइ पा सुतारे। कणि दस सुता दुइ पा सुतारे। नोलि दस सुता दुइ पा सुतारे। केरा दस सुता दुइ पा सुतारे। वसन्त एगार सुता दुइ पा सुतारे। गाए दसकामकु ६ आङ्गुल ६ (१०४-५ पृः)

वरण छ आंगुल ॥६॥ एथि दस कम करिब। दसकाम सरि वहल। प्रथमे वरणि करिब दस सुता ॥=) फेणि दस सुता ॥=) पटा दस सुता ॥=) कणि दस सुता ॥=) लोलि दस सुता ॥=) पटा दस सुता ॥=) कणि दस सुता ॥=) सुता नोलि दस सुता ॥=) नोलि दस सुता ॥=) वसन्त दस ॥=) सुता। (१२१ पृः)

(ख) वरण्डि दस भाग करिब। दस भा २० ऋृ भागेक वरण्डि करिब ।१। जंघा भागे १। लोलि भा १ गे। पटा तिनिभा ३ करिब। लोलि भागे १। पटा भागे १। लोलि भागे १। वसन्त भागे १। गाए वरण्डि दस भा १० कु। (७१ पृः)

(If the *garbha* be 32 ān. square) वरण याणिमा। वरण १० कु वरण्डि वहल आ १ फेणि आ १=) शुता लोली आ १=) शुता। वसन्त आ १=) शुता। (६२ पृः)

73. There are two illustrations of the *baranḍa* in (छ), pp. 44 and 235. In both, the *baranḍa* is composed of ten mouldings of equal height. In one we find the following mouldings *baranḍi-pheṇi-paṭā-kaṇi-paṭā-noli-paṭā-noli-kaṇi-basanta* ; while in the other, we find *baranḍi-pheṇi-paṭā-noli-paṭā-noli-patā-noli-kaṇi-basanta*.

In practice, it is however found, that the *baranḍa* is usually composed of five or seven mouldings except in the case of temples of very large dimensions.

LXXIV. The Gaṇḍi

(क) रेखर गण्डि छतिसी ३६ आंगुल एहा दसभुइ करिब विसमभुईए करिब। गाए एगार भुइ ११।५। प्रथम भुइ उच्च तिनि आङ्गुल ३।।।) तिनि पा। प्रथम भुइ उआ काटेणि सरि। से भुइ न कटाइँ। दुतिअ भुइ उच्च तिनि ३।।।) तिनि आगुल तिनि पा। उआ काटेणि अधसुताए। त्रितिय भुइँ तिनि आंगुल ३।।।) पा।। काटेणि सुताए। चतुर्थ भुइ उच तिनि आङ्गुल ३।।।) तिनि पा। उआ काटेणि देड़ सुता। पञ्चम भुइ उच्च तिनि आंगुल दुइ पा ३।।)। उआ काटेणि अढ़ाइ सुता। सष्ठम भुइ उच्च तिनि आंगुल दुइ पा ३।।)। उआ काटेणि देड़ पाकु पाश्व सुता दुइ पा।। सपतम भुइ उच्च तिनि आंगुल दुइ पा ३।।)। उआ काटेणी सात सुता ।।।।।। श्री। अष्टम भुई उच्च तिनि आङ्गुल दुइ पा ३।।)। उआ काटेणि वार सुता ।।।)। नवमभुई उच्च ३।।) तिनि आङ्गुल दुइ पा। उआ काटेणि सोल सुताकु आंगुले १। दसम भुइ उच्च तिनि आंगुल दुइ पा ३।।)। उआ काटेणि चालिसि सुताकु अढ़ाई आंगुल २।।)·। विषम उच्च अढ़ाइ आंगुल २।।)। विसम मरिब दुइ आंगुल २।। (१२१-४ पृः)

(ख) एवे गण्डी जाणिमा। गण्डो करिब साठीए भाग।६०। छ भागरे भुइ भाग।५। भुइके वरण्डि करिब।५। कम भागे करिब। भुई अला भागे।१। आर भुई भा ५। वरण्डि करिब भागे १। भागक भुई अला करिब भा २ ग। तृतीय भुई भा६ग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भुइअला भाग करिब भा ३। चतुर्थ भुइ छ भाग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भुइ अला भाग ४ करिब। पञ्चम भुई छ भाग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भुईअला पाश्वभाग करिब। सष्ठभुई छअ भाग करिब। पाश्वभाग ५ वरण्डि करिब। ··· भुईअला भागे करिब। सप्तमभुइ छभाग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भागक भूईअला करिब भाग ७। अष्टम भूई छभाग करिब। पाश्वभाग करिब। भागक भुईअला करिब।८। नवम भुई छभाग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भुईअला न भाग करिब। दसम भुई छ भाग करिब। पाश्वभाग वरण्डि करिब। भागक भुईअल करिब। (७१-३ पृः)

(छ)

प्र										विसम	रेखगण्डी
५	४।≡	४	३।।।≡) (?)	३।।।–)	३।।।·	३।।=)	३।।–)	३।≡)·	३।–)४ सुता	२	३६ आंगुल
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	

(१ पृः)

प्रथम भुइ पाञ्चशुता ५ उअ नास्ति। दुतीय भुई उच होइब अङ्कुले ४।=)·४ विसा उअ कटाइब शुताए –)·। तृतीय भुइ चार आङ्कुल ४ शुताए –)· उआ कटाइ शुता –)· चतुर्थ भूई उञ्च ङ्कु४ल उआ कटाइब दुइ शुता =)·। पञ्चम भुइ उञ्च गु३॥)·ल दुइ पाआ उआ कटाइब तिनि शुता ≡)·। सष्टम भुई उञ्च गु३ल पाए। उअ कटाइब तिनि शुता ≡१० अधे सप्तम भुई उञ्च तिनि आङ्कुल ३ तिनि सुता ≡) उआ कटाइब पाय। अष्टम भूमि उञ्च ति आगुल ३ सुताय –)· उआ कटाइब छअ सुता ।=)· नवमभूमि उञ्च तिनि आगुल ३ उआ कटाइब सात सुता ।≡)· दसम भूमि उञ्च दुइ आङ्कुल २।) पाये उआ कटाइब ।।।)। विसम उञ्च दुइ आङ्कुल २ ल विसम। मारेणि गु २।।) ल (५-७ पृः)

प्रथम भूँइ पाञ्च सुता ५ उञ्च। दुतीय भूँइ होइब उञ्च आङ्कुले ६ विश्वा २। उआ कटाइब सुताये –)·। तृतीय भूँइ उञ्च ४ आ ४ सुताये –)· ।३। उआ कटाइब सुताए –)· चतुर्थ भूँइ उञ्च चारि आङ्कुल ४। उआ कटाइब दुइ सुता =)·। पञ्चम भूँइ उञ्च ३ आ ।।)· दुइ पा ।५। उआ कटाइब तिनि सुता ≡)·। षष्टम भूँइ उञ्च तिनि आङ्कुल ३ पाये ।६। उआ कटाइब तिनि सुता ≡)१० अधे। सप्तम भूँइ उञ्च तिनि आङ्कुल ३≡)· ।७। उआ कटाइब ।)। अष्टम भूँइ उञ्च ६ आङ्कुल ≡)· सुताये –)· ।८। उआ कटाइब छ सुता ।=)·। नवम भूँइ उञ्च ३ आं ।९। उआ कटाइब सात सुता ।≡)·। दशाम भूँइ उञ्च दुइ आङ्कुल पाये२।१०। उआ कटाइब वार सुता ।।।)। विसम उञ्च २ आङ्कुल २। विसम मारेणि २ आङ्कुल। (११८-२० पृः)

74. (As the batter of the different *bhumis* has been set forth in the next article, we shall here speak only of their height.)

If the *garbha* be 16 ān. in length, the *rekha-gaṇḍi* should be 36 ān. high. There should be ten *bhumis*, with an additional one called the *bisama*. Each *bhumi* should be divided into 6 equal portions, of which five should be formed by ordinary mouldings (*bhumi-baraṇḍi*) and one by the *bhumi-amlā* moulding.

The height of the different *bhumis* is given below.

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Bisama
5	$4\frac{7}{16}$	4	$3\frac{15}{16}$	$3\frac{13}{16}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{5}{8}$	$3\frac{9}{16}$	$3\frac{7}{16}$	$3\frac{5}{16}$	2
5	$4\frac{6\frac{1}{4}}{16}$	$4\frac{1}{16}$	4	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{16}$	$3\frac{1}{16}$	3	$2\frac{1}{4}$	2
$3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	2^{1} 2
$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	$3\frac{9\frac{3}{5}}{16}$	x

In *pancharatha* temples, we generally find three *sikharas* in the *anuratha paga.* The first *sikhara* should be equal to 4 *bhumis* in height, the second equal to 3 and the third also equal to 3 (?) *bhumis.*

LXXV. The curvature of the gaṇḍi

There are two general rules for finding the batter of the different *pagas* in the *gaṇḍi.* The batter of the *kanika paga* alone might be given. As the ratio between the different *pagas* is known, the width of each *paga* at the end of each *bhumi* can easily be found out. In the second instance, the ratio between the batter of the different *pagas* might be indicated ; so that, if one of them be known, the rest might also be found out.

(क) In the Mandara temple कणिकरु उआ कटाइब ५ भाग ॥ परिरथरु चारिभाग अनुरथरु तिनिभाग अनुराहारु २ भाग राहारु १ भाग ।५३। एरूपे उआ कटाइब। (३७-८ and ३९ पृः)

In the Baṛabhi temple उआ कणिक पासम्‌ छिड़िब २ आङ्गुल तहिँरु अध अनुरथरु छाड़िब तहिँरु अध अनुराहारु छाड़िब तहिरु अध रुघर छाड़िब (१०६ पृः)

In the Mahā Kailāsa temple रेख उआ तिनि आङ्गुल करिब ॥०॥ (११० पृः)

In the Ratnasāra temple प्रथम भुइ उआ काटेणि सरि। से भुइ न कटाँइ। (२य भूमिर) उआ काटेणि अधसुताए। (३य भूमिर) काटेणि सुताए। (४र्थ भूमिर) उआ काटेणि देड़ सुता। (५म भूमिर) उआ काटेणि अढ़ाइ सुता। (६ष्ठ भूमिर) उआ काटेणि देड़ पाकु पाश्व सुता दुइ पा। (७म भूमिर) उआ काटेणी सात सुता ।।।।।। श्री ॥ (८म भूमिर) उआ काटेणि बार सुता ॥)। (९म भूमिर) उआ काटेणि सोल सुताकु आंगुळे १। (१०म भूमिर) उआ काटेणि चालिसि सुताकु अढ़ाई आंगुल २॥)…बिसम मरिब दुइ आंगुल २।) (१२४-५ पृः)

In the Mahā Baṛabhi temple कनिकरु जेते छाड़िब। अनुरथरु तहिरु अध छाड़िब राहा कारवरु अनुरथ सरु छाड़िब। (१३६ पृः)

राहा मारिब अढ़ाइ आंगुल २॥) कान्ध मारिब १ आंगुले (१५३ पृः)

(ख) उआ वरण पाशु देवी (=वेदो) उपर सरि कटाईब ४ँ (२५ पृः)

ए प्रसाद उआ कटाइब काठी आ ४ (९० पृः)

ए दस भूई काटेणी तिनि आगु ३ लेखा छ आ ६ आगु। बिसम २॥) नेखाए ५ पाच आगु (२१४ पृः)

(छ)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
नाती	सु -)·	-)·	=)·	≡)·	≣)१० घे	पा ।)	उ ।=)·	।≡)·	।।।)·	१ मारेणा

(पृः २)

(१म भूमिर) उअ नास्ति। (२य भूमिर) उअ कटाइब शुताए –J। (३य भूमिर) उआ कटाइब शुता –J·। (४र्थ भूमिर) उआ कटाइब दुइ शुता =J॥ (५म भूमिर) उआ कटाइब तिनि शुता ≡J·॥ (६ष्ठ भूमिर) उआ कटाइब तिनि शुता ≡J१० अघे (७म भूमिर) उआ कठाइब पाय (८म भूमिर) उआ कटाइब छअ सुता ।=J· (९म भूमिर) उआ कटाइब सात सुना ।≡J· (१०म भूमिर) उआ कटाइब ।।।J ॥······बिसम मारेणि गु २।।J ल (५-७ पृः)

येह्मार काटेणी चारि आङ्गुल ४ तिनि सुता अघे ≡J१० (१० पृः)

(२य भूमिर) उआ कटाइब:सुताये –J। (३य भूमिर) उआ कटाइब सुताए –J (४र्थ भूमिर) उआ कटाइब दुइ सुता =J (५म भूमिर) उआ कटाइब तिनि सुता ≡J·। (६ष्ठ मूमिर) उआ कटाइब तिनि सुता ≡J १० अघे। (७म भूमिर) उआ कटाइब ।J। (८म भूमिर) उआ कटाइब छ सुता ।=J। (९म भूमिर) उआ कटाइब सात सुता ।≡J। (१०म भूमिर) उआ कटाइब वार सुता ।।।J।··· बिसम मारेणि २ आङ्गुल २ (११८-२० पृः)

75. The batter of the different *bhumis* in the *kanika paga* should be as .follows (the measurements are given in āngulas) :

1st.	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Bisama
nil	1/32	1/16	3/32	5/32	11/32	7/16	3/4	1	2 1/2	2
nil	1/16	1/16	1/8	3/16	7/32	1/4	3/8	7/16	3/8	2 1/2
nil	1/16	1/16	1/8	3/8	7/32	1/4	3/8	7/16	3/4	2

a. In the *naba-ratha* Mandara temple, the ratio between the batters of the *rāhā, anurāhā*, *anuratha*, *pariratha,* and *kanika pagas* is as 5 : 4 : 3 : 2 : 1.

b. In the *sapta-ratha* Baṛabhi, the *kanika* should have a batter of 2 ān., the *anuratha* half of that, the *anurāhā* half of that, the *rāhā* half of that.

c. In the *pancharatha* Mahā Baṛabhi, the *anuratha* should have a batter half that of the *kanika*. The batter of the *rāhā* should be equal to that of the *anuratha*.

d. The sum of the batters of the *gaṇḍi* and the *bisama* should be 4 ān., on each side.

e. According to another version, the batter of the *gaṇḍi* should be 3 ān. and that of the *bisama* 2$^1/_2$ ān.

LXXVI. Set-back of the gaṇḍi from the edge of the bāṛa

(क) गण्डि पछ होइब वाड़कु दुइ पा ।।) (१२१,१५३ पृः)
वाड़कु गण्डि पक्ष होइब द्विपा ए प्रमाणे गढ़ाइब विसिक्कमा (१०० पृः)
दुइ पा वाड़कु रेख छाड़ि वसिब (३५-६ पृः)

76. The *gaṇḍi* should be set back $^1/_2$ ān. from the *bāṛa*.

LXXVII. Deities presiding over the ten bhumis

(ख) दसमे देव आलम्ब १० नवमे त्राक तथा । अष्टमे चण्डिका भवेत । सप्तमे रुद्रायणिस्तथा १ । सढ़मे रुद्रगणिका । पञ्चमे रुद्रायणि । चतुर्थे राक्षसि चैव । त्रयभूमि मूर्तिका भवेत ।१। (२८ पृः)

77. . . . . . in the eighth, *Chaṇḍikā* ; in the seventh, *Rudrāyaṇi* ; in the sixth, *Rudragaṇikā* ; in the fifth, *Rudrāyaṇi* ; in the fourth, *Rākshasi* ; in the third, *Murtikā.*

LXXVIII. Meaning of the term "Rekhaguṇāghāṭa"

In the following chapter, it will be observed that in the specification given for each temple, a certain measurement is referred to as *rekhaguṇāghāṭa.* The *rekhaguṇāghāṭa* is the sum, in āngulas, of the set-back of the *gaṇḍi* from the *baraṇḍa,* the batter of the *gaṇḍi* and that of the *bisama.* The following passage in (च) explains the matter clearly.

(च) (मन्दर भाग २६   बरण्डि पसु पक्ष दुइ पा ॥)
रथक ७   उआ कटाइब   २॥)
सिखर १६)   विस(म) कटाइब   १
रेखगुणाघाठ ४   गाए चारि अङ्गुल   ४ (२५ पृः)

LXXIX. Meaning of the term "bhumi"

With reference to Rekha temples, we shall often come across such statements as "the Mandara consists of 20 *bhumis*". In such cases, the *pisṭa, pābhāga, tala jāngha, bāndhanā, upar jāngha, baranḍa, bisama, beki, amlā* and *khapuri* are also counted as so many *bhumis*. In the present instance these altogether constitute 10 *bhumis* ; so that there remain 10 more for the *ganḍi* itself. Similarly, if the total number of *bhumis* be given as 15, it should be taken to mean that the *ganḍi* of that temple consists of 5 *bhumis* only.

•

LXXX. The Mastaka : height of different elements

(क) वेक उच्च दुइ आंगुल २ त्रिपाटि उच्च आंगुले आंगुले दुइ आंगुल उच्च ॥ गाए चारि आंगुल वेक ॥……। अला उच्च चारि आंगुल पा ४। ॥… कपुरि उच्च चारि आंगुल ॥ (१२४ पृः)

वेक तिनि ३ आंगुल त्रिपाटी १ आंगुल अला पाश्च आंगुल ५ कपुरि ४ आंगुल (१५३ पृः)

(ख) वेक त्रिभागचैव ३। भागेन त्रिघटीस्तथा ।१। अला वेद भा ४ गेन। कपुरि मुहाण्टि मेक भा १ गकं। कपुरि त्रिभागश्चैव ३ मारेणी भा ३। (२८ पृः)

नेत्र आंगुळ गलका ।३। त्रिपाटी आङ्गुले चैत्र। अमलाण चतृ आङ्गुल ।४। …कपुरि स्थापनास्तथा। मुख वा आङ्गुल पादेन। त्रि आंगुल च। पासानि। (६८ पृः)

(If the *garbha* be 32 ān. square then) वेक ६ आंगुल। त्रीपाटी आ २ अला वहल आ ८॥)⋯⋯कपुरि मुहुण्टा वहल आ २॥) करि वहल पाश्व पा १।· ⋯कपुरि मुहाण्टि वहल आ५ंगुल।⋯(१०० पृः)

(छ) वेक उच्च तिनि आगुल। तिपाटि आगुले पए १।· य। वेक उच्च चारि आगुल ४।⋯। अला उच्च चारि आगुल ४ ल।⋯अलाकु कपुरि मुहाटी ति ३ उच्च अगु १ ले। कपुरि उच्च⋯(गाए) ४ आगुल (८ पृः)

वेक चारि अला चारि कपुरि चारि⋯(६१ पृः)

वेक उच्च तिनि आङ्गुल ३। त्रिपाटि उच्च आङ्गुले १। वेकि उच्च त्रिपटि मिशाइ चारि आङ्गुल ४।⋯अँला उच्च चारि आङ्गुल ४।⋯कपुरि उच्च चारि आंगुल चार। (१२०-१ पृः)

LXXXI. Amount of their set-back or projection

(क) विसमकु वेक पछ होइब चारि आंगुल ४॥⋯त्रिपाटी आंगुले लेखाए मेलाण दुइ आंगुल॥⋯(अँलार) मेलाण पाश्व आंगुल ५॥⋯अलाकु कपुरि मुहुण्टा पछ होइब देड़ आंगुल कपुरि मरिब तिनि अंगुल।⋯कपुरि मारेणिकि कलसपाद पछ होइ वसिब पाश्व आंगुल दुइ पा ५॥· (१२४-५ पृः)

(ख) कपुरि⋯मारिब ३ (२५ पृः)

वेक पछ रहिब ४ चारि आगु लेखा ८ आठ आगु (२१५ पृः)

(छ) विसमकु वेक पछ होइ वसीब गु ४॥) ल⋯आअला मेलाण गु ३ ल।⋯ कपुरि मारेणी ४⋯कलस पाद समचउरस गु २ ल। (८-६ पृः)

बिसमकु वेक पछ चारि आङ्गुल।⋯अँअला मेलाण त्रिपाटि धारकु तिनि आंगुल पाये ३।) वेक मूल्स्मृ त्रिपाटि सहिते अँला मेलाण चारि आंगुल पाये ४। ⋯⋯कपुरि मुहण्टा अलाकु पछ आंगुले १।⋯कपुरि मारेणी ४ आङ्गुल ४। (१२०-१ पृः)

80 and 81. In a temple having a *garbha* 16 ān. square, each of the *beki*, *kalasa* and *amlā* should be 4 ān. high,

In the *beki*, there may be one or two *tripāṭis*, each of which should be 1 ān. in height. The *amlā* should be 4 ān. (but according to other versions, it may be 4¼ or even 5 ān.). The *muhānṭi* of the *khapuri* should be 1 ān. and the *khapuri* itself 3 ān. high.

The *beki* should be set back 4 ān. from the edge of the *bisama*. The projection of each *tripāṭi* should be 1 ān. The projection of the *amlā* from the base of the *beki* should be 4, or according to another version 5 ān. The *muhānṭi* of the *khapuri* should start from a point 1 or 1½ ān. behind the top of the *amlā*. The batter of the *khapuri* should be 4 or 3 ān. From the top-end of the *khapuri*, the *pāda* of the *kalasa* should be set back 5½ ān.

LXXXII. The Kalasa

(क) कलसपाद् उच्च दुइ आंगुल २ ।५। पाद् समचउरस चारि आंगुल ४ कलसद्‌मा उच्च दुइ आङ्गुल पाए २।।। डोरि दुइ पा ।।। चाङ्गड़ा दुइ आङ्गुल पाए २।।। घड़ि आंगुले १ ।। गाए कलस आंगुल ८ चक्र पाश्व आंगुल ५ । (१२५ पृः)

(ख) कलस खुरा याणिमा । खुरा नेत्र आंगुल चैव ३ । कलस वशुभागक ८ चक्र भा ५ गेन । (२८ पृः)

खुर उर्द्ध आङ्गुल दुय ।२। दमा दय आङ्गुले च ।२। डोरिकमेक पादं च ।१। चाङ्गड़ा दुय आङ्गुले च । ए मध्ये कण्टिका पादेन । चाङ्गड़ा दुय पादेन ।२। घटीका आङ्गुले दुय ।२।

(देउलर गर्भ ३२ आ होइले) खुरा मोट करिब आं ८ गुल । खुरा वहल हेब आं ४ गुल । डोरि वहल आ १।।। काठी वहल आंगुलरे पा ।। चांगुड़ी वहल

आ १।।) चांगड़ पछ होई वसिव। घड़ी आंगुलरे दुई पा।।) घड़ी वहल चारि आंगुल ४ गाए पदकु कलसु उष्च आं १८ गुल। (१०० पृः)

(छ) कलसपाद समचउरस गु ६ ल। कलसापाद उष्च दुइ आगु २ल मुचुलि उष्च पाए। कलस उष्च आठ आगुल ८। चक्र ५ आगुल (६ पृः)

कलघ खुरा ३ कलस आठ ८ (६१ पृः)

कलसपाद समचउरस तेषटि सुत ६३। कलसपाद उष्च दुइ आङ्गुल २। पाद मुहाण्ट आङ्गुले १। पाद मारेणि आङ्गुले १। मुंचुलि उष्च पाये। कलस उष्च आठ आङ्गुल। एथिरे येते गोल यिव घड़ि उष्च २ आङ्गुल २। तँहि उपरे चक्र उष्च पाञ्च आंगुल ५। एथिरे येते गोल यिव ध्वजा ओओसार पाञ्च आङ्गुल ५। ध्वजा लम्ब पन्दर आंगुल १५। (१२१ पृः)

82. According to one opinion, the *pāda* of the *kalasa* is included in the height given for the *kalasa* ; while according to another, it should be treated as an independent element.

a. In the opinion of the first school, the *pāda* of the *kalasa* should be 2 ān., the *damā* 2¼ or 2, the *ḍori* ½, 1 or ½, the *chāngaṛā* 2¼ or 2, the *kānṭi* 1 and the *ghaṛi* 1 ān. in height. The *kalasa-pāda* should be 4 ān. × 4 ān.

b. According to the other school, the *kalasa-pāda* should be 3, the *kalasa* 8 and the *chakra* (in the case of a Vishnu temple) 5. There should also be a *muchuli* between the *kalasa* and its *pāda*, which should be ¼ ān. in height. If the *kalasa-pāda* be 2, its *muhānṭi* should be 1 and the batter 1 ān. It should be square, with sides equal to 3¹⁵/₁₆ or 6 ān. in length.

On the *kalasa*, which is 8 ān. in height, there may also be placed a *ghaṛi*, 2 ān. high. The flag at the top of the temple should be 5 ān. wide and 15 ān. long.

XIV. The Rekha Temple :
Certain details of construction

LXXXIII. Thickness of the walls

With reference to Rekha temples of the *panchānga* type, it has been said in the *silpasāstras* that the length from *kanika* to *kanika* on the outside should be twice the length of the *garbha*.

(क) मधारकु षोड़ं आङ्गुल मधारु वाड़ १६ आङ्गुल ॥ (३९ पृः)

वाड़ वहल सरि (१०५ पृः)

महावडभि भाग प्रभ काठि आङ्गुले १६ ॥ दुइ वाड़ वहल सोल १६ (१०७ पृः)

गरुड़भाग प्रभ काण्ठी आङ्गुले १६···वाड सरि वहल करिब ॥ (११७ पृः)

रत्नसार भाग प्रभ काण्ठी आङ्गुल आ १६ ॥ वाड वहल षोल आ १६ (१२० पृः)

श्रीवछखण्डसाल प्रभ १६···वाड सरि वहल करिब ॥ (१४० पृः)

(छ) देउल गर्भ काठिए आङ्गुल १ ल।···वड़ काठिये आंगुले मोट १ (१० पृः)

हाते गर्भकु···हात वाड़ा १ (१२२ पृः)

न हात गर्भभाग वाड़ न हाथ ९ (३६ पृः)

वाड़ प्रति द्रीघ एगार हातकु का ११ (८८ पृः)

83. From the centre (of the *garbha*) to the outside of the *bāṛa* is 16 ān. In the Mahā Baṛabhi, Garuṛa, Ratnasāra and Sribachha-khanḍasāla, the length the *garbha* being 16 ān., the two walls should also be 16 ān.

If the *garbha* be 1 cubit, the two walls should together be 1 cubit. (The same is true of temples having 9 cubits or 11 cubits as the length of the *garbha*. As a matter of fact, it is a general rule applicable to all *panchānga* Rekha temples, except in certain specified cases. Two such exceptions are noted below.)

LXXXIV. Two exceptions to the above rule

(क) वृषभ भाग देउल काठि आङ्गुले १६···कनिक वाड़ वहल होइब ६ आङ्गुल ६ ।। (१३८ पृः)

विवान भाग ग्रह काठि आंगुल १६···वाड़ वहल छ आ ६ करिव ।। श्री ।। (१३९ पृः)

84. In the Brishava temple, the *garbha* being 1 kāthi or 16 ān. square, the wall should be 6 ān. thick.

In the Bibāna, the *garbha* being 1 kāthi or 16 ān. square the wall should be made 6 ān. thick.

LXXXV. Construction of the interior

It will be seen from the accompanying plate, which is that of a ruined Rekha temple at Telkupi in Manbhum, that after the tower has risen to a certain height, a horizontal course of stones is laid across the walls to form a roof over the sanctuary or *garbha*. The temple is of the *tri-anga* type and has only 5 bhumis in the *gandi*, with a *bisama* at the top. A similar course of stones has also been laid immediately after the third *bhumi*, thus forming another chamber above the *garbha*. According to the *silpins*, the lower course of stones is called *garbha-muda*, while the upper one is called *ratna-muda*.

From the structural point of view, these horizontal courses serve a very useful purpose, functioning as tie-plates between the otherwise insecure sides of the Rekha temple.

LXXXVI. The corbelled arch above the lintel

It is interesting to note that the architects of Orissa resorted to the method of building a corbelled arch above the lintel, on the inside of the door, in order to reduce the weight to be supported by the lintel. According to the *silpins* of Lalitgiri in Cuttack, this particular arch is called the *gamā* ; but the term seems to have been used in a different sense in the *silpasāstras.* An illustration of the arch is given from a ruined temple situated in the neighbourhood of the Satrughneswar temple in Bhubaneswar.

In Orissa, the corbelled arch is screened from outside view by a continuation of the ornamental face-stone ; but in certain temples in Manbhum, built both of stone and of brick, these arches are not so covered up and can be seen from outside. In the latter, the lintel has actually been dispensed with.

LXXXVII. The Paga and Dhara

The *paga* has already been defined as a segment produced on the outer face of a temple, if part of the face is subjected to projection. All *pagas*, except the *kanika* at the corner, may have edges carved upon them, these being technically known as *dhāra.* Each *paga* has a specified name in the *silpasāstras.* There are two systems of nomenclature; one of which has now fallen out of use, while the other is employed by *silpins* to the present day.

The central *paga* is known as *rāhā* according to one system and as *go-ratha* or *madhya-ratha* according to the other. Both systems of nomenclature are given below in tabular form.

Triratha	*Rāhā, Kanika.*
Pancharatha	*Rāhā, Ānuratha, Kanika.*
Saptaratha	*Rāhā, Ānurāhā, Ānuratha, Kanika.*
Nabaratha	*Rāhā, Ānurāhā, Ānuratha, Pariratha, Kanika.*

Triratha	*Goratha* or *Madhyaratha, Kanyāsa.*
Pancharatha	*Goratha, Ānuratha, Kanyāsa.*
Saptaratha	*Goratha, Uparatha, Ānuratha, Kanyāsa.*
Nabaratha	*Goratha, Uparatha, Ānuratha, Pariratha, Kanyāsa.*

The second series has been used in connection with mutilated descriptions of the temples in Sanskrit verse; so that this is evidently the one which was formerly in vogue.

LXXXVIII. A note on the subsequent measurements

In course of the following chapter, we shall come across certain usages peculiar to the *silpasāstras.* Thus in the *nabaratha* Kshetra-bhusana temple (p. 132), it has been that it should consist of 22 *bhāgas* or divisions. In the accompanying drawing, we find, two sets of figures beside the *pagas.* Of these, the figures inside represent the relative proportion of the *pagas.* Thus the *rāhā* is given as 2½, the *anurāhā* as 2, the *anuratha* as 1½, the *pariratha* as 2 and the *kanika* as 3. These altogether make 11; twice that is 22, the number of *bhāgas* ascribed to the temple. When building the temple, therefore, we should measure the outside length from *kanika* to *kanika,* divide it into 22 parts and assign to each *paga,* the required number of parts.

The figures given above the *pagas* in the same drawing, which is that of half the ground-plan, indicate, in āngulas, the amount of projection of each *paga* from the one immediately behind it. Thus, in the present instance, the *rāhā* projects $1^1/_2$ ān. from the *anurāhā*, which projects 1 ān. from the *anuratha*, which projects $^1/_2$ ān. from the *pariratha*, which finally projects $^1/_4$ ān. from the *kanika paga*.

LXXXIX. A note on the distribution of sikharas

In many *pancharatha* temples in Orissa, we find three *sikharas* in each *anuratha paga*, and one *sikhara* of considerable size just above the junction of the Rekha and the Bhadra, set upon the face of the *rāhā paga.* This makes a total of 24 and 1 *sikharas.* In such temples, the number of *sikharas* is given in the *silpasāstras* as 24, so that the one at the junction is generally left out of account.

In the succeeding specifications, the number of *sikharas* which should adorn each particular temple is frequently given ; but as their distribution has not always been indicated, it has not been possible to arrive at a satisfactory reconstruction of all the temples described herein. The meaning of the terms *pusangkara* or *pungsakara* and *kuṭa*, which have been used in this connection, are also obscure,

XV. The Rekha temple :

Specifications of different examples

XC. The thirty-six examples

(ख) छतीस प्रसाद् नाम। महामेरुमन्दरे चैव। कैलासभद्रकोप्यसौ। दिविदान केसरि चैव। श्रीवछनन्दीवर्धनं। गतकुट शुवर्णकुटस्य। दपुसिलं (पद्मसिलं ?) क्रितिदुसणं। रत्नशुन्दर वीहष्ठइन्द्रे। छत्रोसभूसग सदोकं।२। सर्वाङ्गे शुन्दरे चैव। मेदनीवीजए तथा। शीतरु नीचसाभेवत। वतव मूलश्री श्रीवछ। हंसद्रीवोदान्यक्षाता। गरुड़लघुविमानकं। अष्ठश्रीपद्मकार। कुपतरु लणालए।१। कैलास नामना जन्त्रं। रत्नसार नघुसेक। माधवी नागरी चैव। कोसोल्ली वी विराटी तथा।१। प्रदक्षत्रि समाख्याता। वसन्त शुरालयः।५। छतीस श्लोकः। (२०-२ पृः)

90. Names of the thirty-six • temples—Mahā Meru, Mandara, Kailāsa, Bhadra, Dibidāna, Kesari, Srivatsa, Nandivardhana, Chitrakuṭa, Subarnakuṭa, Padmasila (?), Kritidushana, Ratnasundara, Bihasṭa-indra, Kshetra-bhusana (?), Sarbāngasundara, Sritaru, Nichasā, Mulasri, Hangsa, Dribidāna, Garuṛa, Laghubimāna, Astasri, Padmakāra, Kalpataru, Ratnasāra, Laghuseka, Mādhabī, Nāgari, Kosoli, Birāṭi, Basanta and Surālaya.

It is interesting to note that some of the names have a geographical significance. Thus Kosoli and Birāṭi are evidently connected with the countries of Kosala and Virāṭ ; while Nāgari probably refers to Nagara, which is supposed by some scholars to mean Pataliputra, the chief city of the Magadha Empire, Although the number of temples has been given here as thirty-six, we shall find that the number of temples actually described in the *silpasāstras* far exceeds the specified number.

Nabaratha temples

1. ASTASRI :

(क) अष्टश्रीभाग १० रथक ९ भूमि २० सिखर ६४ पुंसकर २५६ कुटवार रेखगुणा २ खुरपिष्ट (१०७ पृः)

(छ) अटश्री भाग ११ रथक ९ सिखर नास्ति



(१८३ पृः)

The Asṭasri consists of 10 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 20 *bhumis*, the *rekhagunāghāṭa* is 2 ān., the number of *pusangkara* 256 *kuṭabāra*. (It should be set upon the) Khura *pisṭa*.

According to another version, the numbers of *bhāgas* should be 11, and the temple should be without any *sikharas*.

Two figures are given ; in one, the ratio of the *rathakas* is shown as 16-5-8-5-16, in another as 5$^1/_2$-9-15-15-9. But these do not agree with the given number of divisions or *bhāgas* of the temple.

2. BAHANTISARA :

(ग) बहन्तिसर भाग ५६ रथक ९ सिखर च ६५ भूमिरे मुण्डि १६० १० (रथक) १०-८-६-४-४ (मेलाण) २-१॥०-१-॥० रेखगुणाघाठ १३ (६० पृः)

The number of *bhāgas* in the Bahantisara is 56, *rathakas* 9, *sikharas* 65 (*cha* probably stands for *chausathi*, 64 ; the additional one being the *sikhara* placed in the *rāhā*). The total number of *muṇḍis* in the *bhumis* is 160.

In the accompanying illustration of the ground-plan, the proportion of the *rathakas* is given as 10-8-6-4-4 ; their projection being 2-1$^1/_2$-1-$^1/_2$ ān. The *rekhagunāghāṭa* is given as 13, which is doubtful.

3. BAHARGAMASARA (this may be a corruption of the preceding name) :

(ख) वहर्गमसर भा ५६ रथक भा ९ सिखर भा ६४ भूमिरे मुण्डि १०० गण्डि भूईभाग १० (रथक) १०-५-५-४-४ (मेलाण) २-१-॥०-।० (१८३ पृः)

In the Bahargamasara, the number of *bhāgas* is 56, *rathakas* 9, *sikharas* 64, and the number of *bhumis* in the *gaṇḍi* is 10. In the ground-plan, the *rathakas* have been shown in the ratio of 10-5-5-4-4, with the following projections, 2-1-$^1/_2$-$^1/_4$ ān.

4. BARABHI :

(ख) बड़भी भा २८ रथक भा ९ सिखर नास्ति रेखागुणिघाट ४ (रथक) १०-५-८-४-४ (१८४ पृः)

The number of *bhāgas* in the Baṛabhi is 28, *rathakas* 9 ; there should be no *sikharas.* The *rekhagunāghāṭa* is 4 ān. In the plan, the *rathakas* have been shown in the ratio of 10-5-8-4-4.

5. BIHARASARA :

(क) बिहग्यसर भाग ६४ रथक ९ सिखर ६४ अनुरथे चारि सिखर नेखाए ३२ कनिष्करे तिनि सिखर लेखाए २४ राहारे दुइ सिखर लेखाए ८ गाए चउषठि सि

६४। कुम्भपिष्ट रेखघाट २ विहग्यसर भाग समापत। (रथक) ८-३-६-३-१२ (मेलाण) २-१-।।।०·।।० (१६० पृः)

विहरासर भाग ६४ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० कुम्भपिष्ट रेखागुणाघाट २ (रथक) ८-३-६-३-१२ (मेलाण) २-१-।।०-।० (१४७ पृः)

The Biharāsara consists of 64 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis*, and is set upon the Kumbha *pisṭa*. Its *rekhagunāghāṭa* is 2 ān. The ratio of the *rathakas* is 8-3-6-3-12 and the projections are 2-1-$^{3}/_{4}$-$^{1}/_{2}$ or 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ ān.

In the *anuratha*, there should be 32 *sikharas*, at the rate of 4 in each ; in the *kanika*, there should be 24 at the rate of 3 in each ; in the *rāhā*, there should be 8 at the rate of 2 in each ; thus making the total number of *sikharas* 64.

6. BISWAKARMA :

(ख) चतुरस्ते तृतीयेते। इन्द्रभय विवर्ज्जिते। वतीस भाग आसन। नकरथेक भासीता। कनिक कनिक भागो १ वतिस अंस कारयेत् ।३२। कैन्यास नेत्रभागेन ।३। अनुरथो नेत्र भागेन ।२। परिरथ वाणसते ।५। उपररथ भाग अर्द्धेक्षं ।१।।०। मध्यरथ ग्रहअंन्यसनं ।९। उपरित मुनीएत। वदन्ति सप्तमुनी। विस्वकर्मा प्रसाद। (६५ पृः)

The *āsana* or ground-plan should consist of 32 *bhāgas*. From *kanika* to *kanika*, (the length) should be divided into 32 parts. The *kanyāsa* should be 3 ; the *anuratha* 3, the *parirotha* 5, the *uparatha* 1$^{1}/_{2}$, the *madhyaratha* 9. (Here the total length of the *rāhā paga* is given, instead of that of its half as in the previous examples.)

7. CHITRAKUTA :

(क) चित्रकुट भाग १९ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणा २ (१४८ पृः)

चित्रकुट भाग १९ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखघाट २ कनिकरे सिखर वसिब ३२ चारि सिखर लेखाए ३२ अनुरथे तिनि सिखर लेखाए चबिसि सिखर २४ राहारे दुइ सिखर लेखाए आठ सिखर ८ (१५९-६० पृः)

The Chitrakuṭa should consist of 19 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 20 *bhumis*. It should have 64 *sikharas* and its *rekhagunāghāṭa* should be 2 ān. In the *kanika paga*, there should be 32 *sikharas*, at the rate of 4 in each. In the *anuratha*, there should be 24, at the rate of 3 in each ; while in the *rāhā* there should be 8, at the rate of 2 in each (half).

8. DRABIBANA :

(ख) द्रबीबान भा ३२ रथक भा ९ सिखर २४ रेख उआघाट ३ (रथक) ४॥०-१॥०-५-२-३ (१८१ पृः)

(ग) प्रबिबान ३२ रथक ९ सिखर २४ रेखउआघाट ३ (रथक) ४॥०-१॥०-५-६-३ (मेलाण) २-१-॥०-।० (?) (६४,१८५ पृः)

The Drabibāna consists of 32 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 24 *sikharas*. Its *rekhagunāghāṭa* is 3 ān. The *pagas* should be in the ratio of $4^{1}/_{2}$-$1^{1}/_{2}$-5-6-3, their projection being 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ (?) ān.

8. GARURA :

(क) गरुड़ भाग ३६ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणाघाठ ३ पद्म-पिष्ट (रथक) ५-१॥०-५-१॥०-५ मेलाण ॥।०-॥।०-×-॥० (११२ पृः)

गरुड़ भाग ३६ रथक न ९ शिखर चउसठि ६४ भूमिए २० रेखगुणाघाठ अढ़ाइ आंगुल २॥० (१३३ पृः)

गरुड़ भाग ३६ रथक न ९ सिखर चउ २४ (६४ ?) भूमि २० रेखगुणाघाट २॥· (पद्म) पिष्ट ॥ राहाजाक भाग १० दुइ अनुराहाजाक भाग ३ दुइ अनुरथजाक भाग १० दुइ परिरथजाक भाग ३ दुइ कणिकजाक भाग १० अनुरथरे तिनि सिखर

लेखाए चबिसि २४ छतिसि कणरे सिखर। छतिसि सिखर ३६ चारि राहा मध्यरे चारि सिखर ४ गाए सिखर चउसठि ६४ गरुड़ भाग समापत (रथक) ५-१॥०-५-१॥०-५ (मेलाण) ×-१-१-॥० (१७०-१ पृः)

(रथक) ५-१॥०-५-१॥०-५ (मेलाण) १॥०-१-|||०-॥० गरुड़ भाग ३२ रथक न ९ सिखर चउसठि ६४। भूमि कोड़िए २० रेखगुणाघाठ ३ पद्मपिष्ठ राहाजाक भाग १० दुइ अनुराहा भाग ३ दुइ अनुरथ भाग १० दुइ परिरथ भाग ३ दुइ कनिक भाग १० सिखर जहि वसिब जानिमा कनिकरे मुण्डि पा ५ आठ पासकु मुण्डी चारिसि ४० अनुरथरे सिखर ३ आठ पासकु चबिसि २४ गाए सिखर मुण्डि ६४ (१७४-५ पृः)

The Garuṛa consists of 36 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis*. It is set upon the Padma *pisṭa* and its *rekhagunāghāṭa* is 3 or $2^{1}/_{2}$ ān.

The *rathakas* are in the ratio of $5\text{-}1^{1}/_{2}\text{-}5\text{-}1^{1}/_{2}\text{-}5$, the projections being $^{3}/_{4}\text{-}^{3}/_{4}\text{-x-}^{1}/_{2}$ or $\text{x-1-1-}^{1}/_{2}$ or $1^{1}/_{2}\text{-1-}^{3}/_{4}\text{-}^{1}/_{2}$ ān.

At the corners, there should be 36 *sikharas*. In the *anuratha*, there should be 24, at the rate of 8 in each, and in the *rāhā* there should be 4 ; thus making a total of 64 *sikharas.*

9. INDRA :

(ख) ईंन्द्र भा २० रथक भा ९ सिखर भा २४ रेखगुणिघाट भा २॥० (रथक) ३-१॥०-१॥.-२-२ (मेलाण) १-॥० -|०-× (१८३ पृः)

(छ) इत्यलाग भाग २० रथक ९ सिखर २४ रेखगुणाघट ० २॥· (६२ पृः) (रथक) ३-१॥०-२-२ (मेलाण) २-॥०-॥०-॥० (वा २-२-॥०-×)

The Indra consists of 20 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 24 *sikharas*. Its *rekhagunāghāṭa* is $2^{1}/_{2}$ ān. The ratio of the *rathakas* is 3-1$^1/_2$-1$^1/_2$-2-2 and their projections 2-$^1/_2$-$^1/_2$-$^1/_2$ or 2-2-$^1/_2$-x ān.

10. KAILASA :

(क) कैलास भाग ३६ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणाघाठ ३ कुम्भपिष्ठ (रथक) ४-३-४-३-४ (११९,१७५ पृः)

कैलास भाग ३६ रथक न ९ सिखर चउसठि ६४ भूमि कोड़िए २० रेखगुणाघाट ३ कुम्भपिष्ठ—(रथक) ४-३-४-३-४ (मेलाण) २-१॥०-१-।।।· राहाजाक भाग ८ दुइ अनुराहाजाक भाग ६ दुइ अनुरथजाक भाग ८ दुइ परिरथजाक भाग ६ दुइ कणिकजाक भाग ८ जहि सिखर वहिब ताहा जानिमा ॥ तिनि सिखर अनुरथरे बसइ आठ पासकु सिखर २४ कनिक पासे चारि सिखर ४ लेखाए आठ पासकु बतिसि ३२ दुइ सिखर राहाके २ चारि राहारे सिखर ८ गाए चउसठि सिखर ६४ कैलास भाग समापत (रथक) ५-१॥०-५-१॥०-५ (मेलाण) २ (?) १॥०-१-।।।० (१७१, १७५ पृः)

(रथक) ४-३-४-३-४ रेखगुणा २ पद्मपिष्ट (१११ पृः)

The Kailāsa consists of 36 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis*, and is set upon the Kumbha *pista*. The *rekhagunāghāta* is 3 ān. The ratio of the *rathakas* is 4-3-4-3-4 and the projections, 2-1$^1/_2$-1-$^3/_4$ ān. According to another version, the ratio of the *rathakas* is 5-1$^1/_2$-1$^1/_2$-5.

There should be three *sikharas* in each *anuratha* making a total of 24. Beside the *kanika*, there should be 32, at the rate of 4 in each. In the *rāhā*, there should be 8 ; thus making the total number of *sikharas* 64.

(क) कैलास भाग १०४ ॥ रथक ९ ॥ शिखर ६४ ॥ भूमि २० ॥ रेखआघाटगुणाघाट २॥० । एहाकु भद्रपीठ ॥ (३८ पृः)

भद्रपिष्ट कैलास भाग १०४ ॥ सिखर चउसठि ६४ रथक ९ भूमि कोड़ि २० रेखगुणाघाट २ (रथक) १२-१०-२५-१०-४ (२४ ?) (मेलाण) २-१-।।।०-॥०

कनिक्करे वहिब सिखर २४ अनुरथरे वसिब २४ राहा काखे सिखरे लेख्वाए आठ सिखर। राहा मध्यरे चारि सिखर बसइ बरण्डी अधरु सिखर बहइ। (१५६ पृः)

कैलास भाग १४८ रथक ६ सिखर ६४ रेखगुणा २॥० भूमि २० (रथक) १२-१०-२५-१०-३५ (मेलाण) २-१-॥०-।० (१४८ पृः)

The Kailāsa consists of 104 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis*, and is set upon the Bhadra *pisṭa*. The *rekhagunāghāṭa* is 2$^{1}/_{2}$ or 2 ān. The ratio of the *rathakas* is 12-10-25-10-35 or 12-10-25-10-4 (24?). Their projections are 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ or 2-1-$^{3}/_{4}$-$^{1}/_{2}$ ān.

It shall bear 24 *sikharas* in the *kanika*, 24 in the *anuratha*, 8 at the sides of the *rāhā*, 4 in the middle of the *rāhā*. The last 4 should start from the middle of the *baranḍa* (i. e. from a point below the commencement of the *ganḍi*.)

There is another incomplete specification for the Kailāsa, as given below.

(ख) अथ कैलास भाग ४६ रथक भाग ६ सिखर भाग ४० रेख व घाठ भाग ३॥० (७८ पृः)

Now, the Kailāsa consists of 49 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 40 *sikharas*, and its *rekhagunāghāṭa* is 3$^{1}/_{2}$ ān.

कैलास भाग ४८। कैलास भाग अष्टिदुक्षविसति। कोणे कोणे वर्षकारयेत। कौलास वसुभागेन। अनुरथ तदर्धे ।४। परिरथ नेत्र आसन ।३। उपररथो वाणभागेन ।५। कुटकि चुल खिइन्ति। मध्ये रथ वाणद्वयं ।५। कैलासभाग स्थापन। (६२ पृः)

The Kailāsa consists of 48 *bhāgas*......the *kanyāsa* is equal to 8, the *anuratha* half of that, the *pariratha* equal to 3, the *uparatha* 5......the *madhyaratha* 19 (This however makes the total 50 instead of 48).

11. KSHETRABHUSANA :

(छ) क्षन्तभूसण भाग २२ रथक सिखर ३२ कुम्भ कनिक कणरे दस भाग १० भूँइ १० चारि कणे ४० रथक ६



The Kshetrabhusana consists of 22 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 32 *sikharas*. At the corner of the *kanika*, there should be *kumbhās*. In ten *bhumis*, therefore, there should altogether be 40 *kumbhas*.

From the accompanying figure we find that the proportion of the *rathakas* should be 2^1/$_2$-2-1^1/$_2$-2-3 and their projections 1^1/$_2$-1-^{1}/$_2$-^{1}/$_4$ ān.

This temple presents a very interesting feature. It will be noticed from the ground-plan that the side of the *garbha* has also been indented, instead of being kept plain. Moreover, *kumbhas* have been set at the corner of each *bhumi* in the *kanika paga*. Now, we do not find a single instance of this type in Orissa itself. But the temples of Udaipur, Jaipur (Amber), Ujjain and other places in Western and North-western India have this feature as one of their prevailing characteristics.

12. Maha Meru :

(क) माहामेरु भाग शये वार भाग ११२। रथक ९। ५ कोण होइब छतिश कोण ३६। शिखर चउषठि ६४। शिखर वहिब ।। कणकुट अनुरथ-कुट राहाकुट अनुराहाकुट ।३६। ३६ कुट ३६। ३६ शिखर वहिब। अनुरथरे तिनि शिखर नेखाए वहिब। चारि राहारे चारि शिखर होइब। गभि हाथकु उच्च होइब ५ हाथ (३४ पृः)

महामेरु भाग ११२ रथक ९ सिखर १०८ भूमि को २० रेखआघाटगुणाघाट १ (रथक) २४-३-७-९-२५ (मेलाण) २-१-।।०-।० (१४८ पृः)

माहामेरु भाग स ११२ रथक न ९ सिखर चउसठि ६४ भूमि कोड़िए २० रेखघाठ १ पद्मपिष्ठ (रथक) २४-३-७-९-२५ (मेलाण) २-१।।०-१-।।।० राहा करिब भाग ४८ दुइ अनुराहा भा ६ दुइ अनुरथ भा १८ दुइ परिरथ करिब भाग ५० गाए सएवार भाग ११२। सिखरमान जहि वसिब ता जानिमा। कनक आठ पासे चारि मुण्डी लेखाए वतिसि मुण्डी ३२ अनुरंथ आठ पासे तिनि मुण्डी नेखाए चबिसि २४ बाड़ वरण सरिकि सिखर होइब छतिसि कोणकु छत्तिसिटी सिखर ३६। राहारे दुइ सिखर नेखाए आठ सिखर ८ छतिसि सिखर छाड़ि गण्डिरे सिखर बसइ चउसठि सिखर ६४ (१५७-८ पृः)

The Mahā Meru consists of 112 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*. The ratio of the *pagas* is 24-3-7-9-25, and their projections are 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ or 2-1$^{1}/_{2}$-1-$^{3}/_{4}$ ān. The *rekhagunāghāṭa* should be 1 ān.. and the temple should be placed upon the Padma *pisṭa*.

At the sides of the *kanika*, there should be 32 *sikharas* at the rate of 4 *sikharas* in each (here the term *muṇḍi* has been used in the sense of *sikharas*). In the *anuratha*, there should be 24, at the rate of 3 in each ; these should start from the level of the *baranḍa* in the *bāṛa*. In the *rāhā*, there should be 8 *sikharas*, at the rate of 2 in each.

माहामेरु भाग १०८ रथक न सिखर ६४ खजुरिआ कुट छ ३६ गा मुण्डि सिखर १०० (मेलाण) २-१॥--१-× (१७८ पृः)

(ख) महामेऋ ११२ सिखर गण्डीरे वहल ४२ गुणाघाठ ४ रथक ९ (रथक) १२-१२-१०-१०-१२ (७५-६ पृः)

माहामेऋ भा ११२ रथक न आ भा ९ सिखर सत भा १०० (रथक) १२-१०-१२-१०-१२ (१८० पृः)

माहामेऋ भा १-२ सिखर गण्डीरे बहई ४० उआघाठ ४ रथक ९ (८५ पृः)

माहामेऋ श्लोकः। पृथव्या मेऋप्रसादव्या सवश्रंग् कारएत (८७ पृः)

(छ) माहामेऋ भाग स ११२···सिखर गण्डीरे वहक ४० रेखउआघाठ ४ रथक ९ (२७ पृः)

(रथक) १२-१२-१४-१०-× (मेलाण) १॥०-१-।॥०-॥० (३७ पृः)

माहामेऋ भाग ११२ सिखर गण्डीरे बहइ ४० रेखखआघाठ ४ रथक ९ (२२४ पृः)

According to another version, the Mahā Meru consists of 112 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas* and 36 *khajuriyā kuṭas*, making a total of 100 *muṇḍis* and *sikharas*. The ratio of the *rathakas* is 12-12-10-10-12, while the projections are $1^1/_2$-1-$^3/_4$-$^1/_2$ ān. The *rekhagunāghāṭa* is 4 ān. (ख and छ give the number of *sikharas* as 40.)

13. MANDARA:

(क) मन्दर भाग ६४ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणाघाट २॥० सिंघपिष्ठ (रथक) १२-३-५-३-६ (मेलाण) २-१-॥०-।० (१४९ पृः)

मन्दर भाग चउसठि सिखर चउसठि ६४ भूमि को २० रेखआधाठ गुणाघाठ २ रथक ९ सिंघपिष्ठ आठ कणरे सिखर वसिब चबिसि २४ अनुरथे सिखर वसिब तिनि सिखर लेखाए चबिसि २४ अनुराहारे सिखरे लेखाए आठ सिखर ८ राहा सिखरें लेखाए चारि सिखर गाए चउसठि ६४ ॥ (रथक) १२-३-५-३-६ (मेलाण) २-१॥०-१-।॥० (१५८ पृः)

मन्दर भाग छयालिसि ४६। रथक ९। शिखर ६४। भूमि २०। रेख आघाट दुइ दुइ पा २॥०।···प्रथम शिखर उच्च पाञ्च भुइंकि १५ आङ्गुल। दुतिय शिखर उच्च चारि भुँइकि १२ आङ्गुल। तृतिय शिखर उच्च तिनि भुँइकि न आङ्गुल। गाए ३६ आङ्गुल। (३५-७ पृः)

The number of *bhāgas* in the Mandara is 64 and of *rathakas* 9. In one drawing of the ground-plan, the ratio of the *rathakas* has been given as 12-3-5-3-6, their projections being 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ ān.; while in another, it is 12-3-5-3-4, the projections being 2-1$^{1}/_{2}$-1-$^{3}/_{4}$ ān. The *rekhagunāghāṭa* is 2$^{1}/_{2}$ ān. or 2 ān. There should be 20 *bhumis*, i. e. 10 in the *gaṇḍi*. The temple should be set upon the Singha *pisṭa*.

The number of *sikharas* is 64. At the 8 corners, there should be 24 *sikharas*; in the *anuratha*, at the rate of 3, there should be 24; in the *anurāhā*, at the rate of 1, there should be 8; in the *rāhā* there should be 4; the total number of *sikharas* thus being 64.

(In the *gāṇḍi*), the lowermost *sikhara*, being equal to 5 *bhumis* in height, should be 15 ān. high. The second one, being equal to 4 *bhumis*, should be 12 ān. high. The third *sikharas*, being equal to 3 *bhumis*, should be 9 ān. high; thus making the total height of the three *sikharas* equal to 36, which is the same as the height of the *gaṇḍi*.

14. MERU:

(क) मेरुभाग १०८ रथक ९ सिखर ६४ घरुसअअ १२८ भूमि २० डेर कोड़िए २० रेखगुणाघाठ ३ अनुरथे सिखर ३ आठ पासकु चउबिसि सिखर २४ चारि राहारे चारि शिखर ४ कनिकरे तिनि सिखर ले़खाए चउविसि सिखर २४

अनुराहारे सिखरे लेखाए आठ ८ गाए सिखर ६४ मुण्डि जलन्तरे घड़िमुण्डि वसिब ४ चारि मुण्डि वतिसि जलन्तरे सएअठाइसि मुण्डि १२८ पद्मपिष्ठ आ १ झुल (रथक) ४-५-९-५-१९ (१७९ पृः)

The Meru consists of 108 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis*……The *rekhagunāghāṭa* should be 3 ān. The ratio of the *rathakas* is 4-5-9-5-19. It should be set upon the Padma *pisṭa*.

In the *rāhā*, there should be 4 *sikharas* ; one in each *anurāhā*, making a total of 8 ; 3 in each *kanika*, making a total of 24. In the *jalantaras*, in the *bāṛa*, there should be placed 128 *munḍis*, at the rate of 4 *munḍis* in each.

15. NAGARI :

(क) नागेरि भाग ५२ रथक ९ सिखर ४० रेखगुणाघाठ ३ (शेष पृष्ठा)

(ख) नागेरि भा ५२ रथक ९ सिखर भा ४० रेखगुणिघाठ ३ (रथक) ५-५-४-६-६ (मेलाण) २-१॥०-।॥०-।=)० (२०३ पृः)

(छ) नागेरि भाग ५२ रथक ९ सिखर ४० रेखगुणाघाठ ३ (रथक) ५-५-४-६-६ (मेलाण) २-१॥०-।॥०-।० (६८ पृः)

The Nāgari consists of 52 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 40 *sikharas*. Its *rekhagunāghāṭa* is 3 ān. The ratio of the *rathakas* is 5-5-4-6-6, and their projections are 2-$1^{1}/_{2}$-$^{3}/_{4}$-$^{3}/_{8}$ or 2-$1^{1}/_{2}$-$^{3}/_{4}$-$^{1}/_{4}$ ān.

16. NISARA :

(क) निसड़ भाग ३५ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणा २ खुरपिष्ट (१४६ पृः)

निसभस भा ३४ रथक न ९ सिखर चउसठि ६४ भूमि को २० रेखघाट २। सिखर जहि वसिब ताहा जानिमा ॥ कनिकरे मुण्डि वसिब ४० अनुरथरे तिनि

सिखर लेखाए ८ २४ गाए सिखर ६४ राहाजाक भाग १२ दुइ अनुराहाजाक भाग ५ दुइ अनुरथजाक भाग ७ दुइ परिरथजाक चारिभाग ४ दुइ कनिकजाक चारि भा ४ गाए भाग ३४ खुरपिष्ट (रथक) ६-२।।०-३।।०-२-३ (मेलाण) २-।।।०-१।।०-।।।० । (१६१ पृः)

चत्रुस्रो कृतक्षेत्रे प्रसादस्भ्र वेवन्तना। गोरगमेकअर्द्ध उपरथोवाणभागक। परोथो रूपमोतथा। गोरथ ऋतुभागेन प्रसाद नवरथेन। निसड़भाग समापत ।। (९० पृः)

The Nisaṛa consists of 34 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas*, 20 *bhumis* and is set upon the Khura *pisṭa*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 2 ān. In the *kanika*, there should be 40 *sikharas* ; in the *anuratha* 24, at the rate of 3 in each ; the total is thus 64. The ratio of *rathakas* is 6-2$^{1}/_{2}$-3$^{1}/_{2}$-2-3 and their projections are 2-$^{3}/_{4}$-1$^{1}/_{2}$-$^{3}/_{4}$ ān.

Or, the *goratha* should be 1$^{1}/_{2}$, the *uparatha* 5, the *pariratha* 1, (the *goratha* 6). Thus ends the specifications of the Nisaṛa temple, which is *nabaratha.*

•

17. RATNASARA :

(क) रत्नसार भाग ३४ रथक न ९ भूमि १५ रेखगुणाघाठ २ सिखर नास्ति राहाजाक भाग ६ दुइ अनुराहा ६ दुइ अनुरथ ८ दुइ परिरथ भा ४ दुइ कनिक भाग १० जातिरे वैस रत्नसार भाग समापत सिंघपिष्ट (रथक) ३-३-४-२-५ (मेलाण) २-१।।०-१-।।।० (१७२, ११७ पृः)

(छ) रत्नसार भाग २८ रथक ९ सिखर ८० रेखगुणाघाठ ४ (६६, १८४ पृः)

The Ratnasāra consists of 34 *bhāgas*, 9 :*rathakas*, 15 *bhumis*, and it has no *sikharas*. The ratio of the *rathakas* is 3-3-4-2-5. (But the caste of the temple is wrongly given as Vaisya.) The projection of the *pagas* is 2-1$^{1}/_{2}$-1-$^{3}/_{4}$ ān. It should be set upon the Singha *pisṭa*.

According to another version, the Ratnasāra consists of 28 *bhāgas*, 9 *rathakas* and 80 *sikharas*, the *rekhagunāghāṭa* being 4 ān.

18. SARBANGASUNDARA :

(क) स्रवांगसुन्दर प्रसाद भाग २८ रथक ९ सिखर चउसठि ६४ भूमि कोड़िए २० रेखगुणाघाठ २ जहि सिखर वसिब ताहा जानिमा। कुटुमानके बहइ छतिस सि कणेरे छतिस सिख ३६ अनुरथे तिनि सिखर लेखाए २४ चारि राहा चारिसि ४ गाए चउसठि सिखर ६४ राहाजाक करिब ८ अनुराहा करिब भा १ अनुरथ करिब भाग ४ परिरथ करिब भा १ कनिक करिब चारि भा ४ कुम्भपिष्ट सुन्दरपिष्ट (रथक) ४-१-५-१-५ (मेलाण) २-१॥०-।॥०-× (१६१ पृः)

श्रीवाग्यसुद्र भाग २८ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणा २ सुन्दरपिष्ट (रथक) ४-१-४-१-४ (मेलाण) २-१-॥०-।० (१४७ पृः)

The Sarbāngasundara consists of 28 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 64 *sikharas* and 20 *bhumis*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 2 ān. The ratio of the *rathakas* is 4-1-4-1-4, and their projections are 2-1-$^{1}/_{2}$-$^{1}/_{4}$ or 2-1$^{1}/_{2}$-$^{3}/_{4}$-X ān. It should be set upon the Suthira *pisṭa* (or according to another reading Kumbha *pisṭa*).

At the 36 corners, there should be 36 *kuṭas*. There should be 3 *sikharas* in each *anuratha paga* making a total of 24, and 1 in each *rāhā* making 4. The total number of *sikharas* is thus 64.

19. SREETARU :

(क) श्रीतरु भाग ३२ रथक ९ भूमि २० सिखर चउसठि ६४ रेखगुणाघाठ २ राहाजाक आठ ८ दुइ अनुराहा १ दुइ अनुरथ द १० दुइ परिरथ भाग ५ दुइ कनिक भाग ८ गाए भाग वतिसि ३२ जहि सिखर वसिब ताहा जानिमा चारि राहारे चारि सिखर ४ अनुरथरे तिनि सिखर नेखाए चविसि २४ कुटरे छतिसि

सिखर ३६ गाए सिखर चउसठि ६४ श्रीतरु भाग समापत सिंघपिष्ट (रथक) ४-।।०-५-२।।०-४ (मेळाण) २-१।।०-१-।।।० (१६६ पृः)

श्रीतरु भाग ३२ रथक ९ सिखर ६४ भूमि २० रेखगुणा २ (रथक) ४-।।०-५-२।।०-४ (मेळाण) २-१-।।०-।० (१४१ पृः)

The Sreetaru consists of 32 *bhāgas*, 9 *rathakas*, 20 *bhumis*, and 64 *sikharas*. The *rekagunāghāṭa* is 2 ān. It should be set upon the Singha *pisṭa*. The ratio of the *rathakas* is 4-$^1/_2$-5-2$^1/_2$-4, their projections being 2-1-$^1/_2$-$^1/_4$ or 2-1$^1/_2$-1-$^3/_4$ ān. Of *sikharas*, there should be 4 in the *rāhā*, 24 in the *anuratha*, at the rate of 3 in each; 36 at the *kuṭas*. Thus ends the specification of the Sreetaru temple.

Saptaratha Temples

20. Astasri :

(ख) अष्टश्री भाग २७ रथक भा ७ सिखर भा ३४ रेखगुणिघाठ ३ (रथक) ३-३।।०-२-५ (मेळाण) २-१-× (१८५ पृः)

(छ) अर्ष्नश्री भाग २७ रथक ७ सिखर ६४ रेखगुणाघाठ ३ (रथक) ३-×-२-३ (मेळाण) २-१-।।० (७१ पृः)

अष्टश्री भाग २७ रथक ७ सिखर × रेखगुणाघाठ ३ (रथक) ३-३-२-३ (मेळाण) २-१-।।० (१८१ पृः)

The Asṭasri consists of 27 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 64 (?) *sikharas*. The *rekhagunāghāṭā* is 3 ān. :The ratio of the *rathakas* is 3-3$^1/_2$-2-5, their projections being 2-1-$^1/_2$ ān.

21. Birati :

(क) विराटि भाग २२ रथक ७ सिखर नास्ति (रथक) ३-३-२-३ (मेळाण) २-१-।।० (शेष पृष्ठा)

(ख) विराटि भा २२ रथक ७ सिखर नास्ति (२०४ पृः)

(छ) वैराटि भाग २२ रथक ७ सिखर नास्ति (६८, १८२,१८३ पृः)

The Birāṭi consists of 22 *bhāgas*, 7 *rathakas*. It has no *sikharas*. The *rathakas* are in the following ratio 3-3-2-3, and their projections are 2-1-$^{1}/_{2}$ ān.

22. CHITRAKUTA :

(छ) चित्रकूट भाग १८ रथक ३ ३ गण्डीरे सिखर नती (रथक) २-२-१-४ (मेलाण) १-×-॥० (?) रेखगुणाघाठ ३॥० (४५ पृः)

(क) चत्रुस्रे शुद्धक्षेत्रे ॥ ११ । वसुरामे विभर्जिते । कोणसैव रसासेन ।६। थम्भभातमेकभागेन । देवअंसे कणिका भवेत् । प्रसाद चित्रकूट । प्रासाद सप्तभिरथ चित्रकुट भाग समापत । श्री । श्री (६६ पृः)

The Chitrakuṭa temple consists of 18 *bhāgas*. It has no *sikharas* in the *ganḍi*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 3$^{1}/_{2}$ ān. The ratio of *rathakas* is 2-2-1-4, their projections being (2)-1-$^{1}/_{2}$ ān.

23. CHHATRIBHUSANA : (KSHETRABHUSANA ?)

(ख) छत्रीभूषण भा २ रथक भा ७ सिखर भा ३२ कलतरे पुस्कर कनीकपासे कुम्भ जलत्रेणी पुस्कर ४० आठ पासे सिखर १६० (रथक) १॥०-१॥०-१-१॥० (मेलाण) १-॥०-× (१८३ पृः)

The Chhatribhusana consists of (11) *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas*......At the edge of the *kanika paga*, there should be *kumbhas*...........The ratio of *rathakas* is 1$^{1}/_{2}$-1$^{1}/_{2}$-1-1$^{1}/_{2}$ and their projections are 1-$^{1}/_{2}$-x ān. (The fact that this temple has *kumbhas* in the *kanika paga* like the *nabaratha* Kshetrabhusana temple leads us to suppose that the name Chhatribhusana is a corruption of the word Kshetrabhusana.)

24. Duipadma :

(क) दुइ पद्म भाग ८ रथक सा ७ सिखर ३२ भूमि १५ रेखगुणाघाट २ पद्मपिठ (रथक) १-।।।०-१-१।० (मेलाण) २-१-।।० (१३८ पृः)

The Duipadma temple consists of 8 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas* and 15 *bhumis*. It should be set upon the Padma *pisṭa.* Its *rekhaguṇāghāṭa* is 2 ān. The ratio of *rathakas* is 1-$^3/_4$-1-1$^1/_4$, their projections being 2-1-$^1/_2$ ān.

25. Garura :

(ख) गरुड़ भा भाग ३४ रथक सिखर ८० रेखगुणिघाठ ३ (रथक) ५-५-३-४ (मेलाण) २-१-।।०   (१८५ पृः)

The Garuṛa consists of 34 *bhōgas*, 80 *sikharas* and (7) *rathakas.* The *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān. The ratio of *rathakas* is 5-5-3-4 and their projections are 2-1-$^1/_2$ ān.

26. Kailasa :

(ख) कैलास भा ४८ रथक भा ७ सिखर भा १०० रेखगुणिघाठ ४ (१८५ पृः)

(छ) कइलास भाग ४८ रथक ७ सिखर १०० रेखगुणाघाठ ४ (रथक) ५-३-६-१० (मेलाण) २-× (६६ पृः)

केलास भाग ४८ रथक ७ सिखर १३ रेखगुणाघाठ ४ (रथक) ५-३-६-१० (१८४ पृः)

The Kailāsa temple consists of 48 *bhāgas*, 7 *rathakas* and 100 *sikharas.* The *rekhaguṇāghāṭa* is 4 ān. The ratio of the *rathakas* is 5-3-6-10, their projections being 2-x-x ān.

27. Kalpataru :

(ख) कल्पतरू भा ६० रथक भा ७ सिखर भा ३२ रेखगुणिघाठ ३ (रथक) १०-५-५-१०   (१८५ पृः)

(छ) कल्पतक्ष्मृ भाग ६० रथक ७ सिखर ३२ रेखगुणाघाठ ३० (?) (रथक) १०-५-५-१० (१८४ पृः)

कलपतक्ष्मृ भा ६० रथक ७ सिखर ३२ रेखगुणाघाठ ३ (रथक) १०-५-५-१० (१८४ पृः)

The Kalpataru consists of 60 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān. The ratio of the *rathakas* is 10-5-5-10.

28. KANIHASTHA :

(छ) कनिहष्ठ भाग २८ रथक ७ ·र्णरे कुट करिब सिखर अठ २८ (रथक) ३-४-३-४ (मेलाण) २-१-॥० रेखगणाघाठ ·४ (५६ पृः)

The Kanihasṭha consists of 28 *bhāgas* and 7 *rathakas*. The number of *sikharas* is 28, the *rekhaguṇāghāṭa*, 4 ān. The *rathakas* are in the following ratio 3-4-3-4, their projections being 2-1-$^1/_2$ ān.

29. KSHETRABHUSANA (See also CHHATRIBHUSANA) :

(क) चत्रुस्रे कृतक्षेते। पञ्चदश भाग कारियेत। गोरथ द्विभागेण। अक्रासे उपरथो स्तित। अनुरथ पञ्चदसभागन्तु।

अष्टादश कोणपिण्डका। क्रमाधिघट कारियेत ॥४॥ भूमिका क्रमात स्रव ॥ कामन अनुरथसैव ॥ चतुर्भिकोणानि शोभित। प्रासाद् क्षेत्रिभूषणनाम ॥ सप्तभिरथ संयुत। क्षत्रीभूषण प्रसाद् समापत ॥ श्री ॥ श्री ॥ ५४ ॥ (८६-८७ पृः)

प्रसादसप्तभि रथो शिखराधि स्रवोसित ॥ भूमिकाक्रमातति ॥ तैतुम्भो पुसंक्रणि ॥ करत्त वैषम्वधन ॥ क्षत्रिभूषणप्रसाद् समापत ॥ श्री ॥ (६३-४ पृः)

(ख) प्रसाद् क्षेत्रेभूसण भाग २२ रथ ७ ऋतुविधि १६ कृतक्षेत्रे गोरथ ऋतु ६ भागेन अनुरथो मेक अर्ध च ॥ परिरथो ततचैव। कोणवन्ध वितीक्षतो। (१६२ पृः)

The Kshetrabhusana consists of 22 *bhāgas*, 7 *rathakas*. The *goratha* is formed by 6 *bhāgas*, the *anuratha* by $1^1/_2$, the *paritatha* is (equal to it),……

30. KRITIDUSHANA :

(क) कृतिदुषणभाग २५ रथक ७ सिखर ३२ भूमि ९ रेखगुणाघाट २ खुरपिष्ट (रथक) ३-३॥०-२॥०-३ (मेलाण) १-॥०-।० (१४२ पृः)

क्रितिदुषण भाग २५ रथक ७ सिखर व ३२ भूमि १९ रेखगुणाघाट २ खुरपिष्ट (रथक) २७ (?) ३॥०-२॥०-३ (मेलाण) १॥०-१-॥० । राहाजाक भाग सा ७ दुइ अनुराहा भाग ७ दुइ अनुरथ भा ५ दुइ कणिक ६ जहि सिखर वसिब ताहा जानिमा अनुरथरे तिनि सिखर लेखाए चउविसि २४ चारि राहारे चारि सिखर ४ (१६५ पृः)

The Kritidushana consists of 25 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas*, 19 *bhumis* and is set upon the Khura *pisṭa*. The *rekhaguṇāghāṭā* is 2 ān. The ratio of the *rathakas* is $3^1/_2$-$3^1/_2$-$2^1/_2$-3, their projections being 1-$^1/_2$-$^1/_4$ or $1^1/_2$-1-$^1/_2$ ān. There should be 24 *sikharas* in the *anuratha paga* and 4 (8 ?) in the *rāhā*.

31. LAGHUMANDARA :

(छ) लघुमन्दर भाग २६ रथक ७ सिखर १६ (रथक) ३-३-३-४ (६६,१८४ पृः)

The Laghumandara consists of 26 *bhāgas*, 7 *rathakas*, the ratio of its *rathakas* being 3-3-3-4.

32. MANDARA :

(ख) मन्दर भा २६ रथक भा ७ सिखर १६ रेखउआघाठ ४ (रथक) ?-३-३-४ (७६ पृः)

मन्दर २६ रथक ७ सिखर सो १६ ल रेखउआघाठ ४ (रथक) ३-३-३-४ (८५ पृः)

मन्दरभाग षष्ठविसतीं । कैलास चतुचहारि ।४। लेत्र परिरथो भवे ।३। अनुरथ तत सामान्य ।३। मध्यरथो परिमाणे । रसभागेन कारये ।६। रथमध्ये कुटआसनि । सप्तरथ कारयेत । (६२,१८० पृः)

(छ) मन्दर भाग ३६ रथक ७ सिखर १६ रेखउआघाट ४ (२२४ पृः)

The Mandara consists of 26 *bhāgas*, 7 *rathakas* and 16 *sikharas*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 4 ān. The ratio of the *rathakas* is 3-3-3-4.

33. MAHADRAVIRA :

(क) महाद्रविड़ा भाग २८ रथक सा ७ सिखर वतिसि ३२ भूमि ओणिसि १९ रेखगुणाघाठ २ परिजंघपिष्ठ (रथक) ४-३-३-४ (मेलाण) १-III०-II० राहा (जाक आ) ठ भाग ८ दुइ अनुरथ भाग ६ दुइ अनुराहा भाग ६ दुइ कनिक भाग ८ कण खजुरिया कुटरे वरण उपरे सिखरे लेखाए आठा २८ चारि राहारे चारि शिखर ४ गाए वतिसि ३२ (१६८ पृः)

The Mahādraviṛā consists of 28 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas* and 19 *bhumis*. It should be set upon the Parijāngha *pisṭa*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 2 ān. The *rathakas* are in the ratio of 4-3-3-4, their projections being 1-$^{3}/_{4}$-$^{1}/_{2}$ ān. At the corners, on the *khajuriyā kuṭas*, set upon the *baraṇḍa*, there should be 28 *sikharas*. There should also be 4 on the *rāhā*, thus making a total of 32 *sikharas*.

34. MULASREEBACHHA :

(क) मूलश्रीवछ भाग २४ रथक सा ७ सिखर ३२ रेखगुणाघाट २ सिंघपिष्ट (रथक) ३II०-३II०-१-४ (मेलाण) २-१-II० (१४५ पृः)

मूलश्रवछ भाग २४ रथक ७ सिखर वतिसि ३२ रेखगुणाघाट २ राहाजाक भाग ७ दुइ अनुरथ ७ दुइ अनुराहा २ दुइ कणिक भाग ८ गा भाग चविसि २४ सिंहपिष्ट (रथक) ३॥०-३॥०-१-४ (मेलाण) २-१-१ अनुरथरे चारि सिखर ४ आठ चउक वतिसि ३२ मूलस्रीवक्ष समापत (१६३ पृः)

(ख) मूलस्रीबछ ३४ रथक सर्वदा ७ सिखरे पुणीघाट ३॥० (८४ पृः)

The Mulasreebachha consists of 24 *bhāgas*, 7 *rathakas* and 32 *sikharas*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 2 ān. It should be set upon the Singha *pisṭa*. There should be 4 *sikharas* in each *anuratha*, making a total of 32 *sikharas*. The *rathakas* are in the following ratio $3^{1}/_{2}$-$3^{1}/_{2}$-1-4, their projections being 2-1-1 or 2-1-$^{1}/_{2}$ ān.

35. NANDIBARDHANA :

(छ) नन्दिवर्धन भाग १७ रथक ७ ५ सिखर सु (?) मि १०७ (१०० ?) सिखर ३६ (रथक) ३-३॥०-२-५ (मेलाण) २-१-? (१८१ पृः)

नन्दिविरिधन भाग १० रथक ७ सिखर सुमी (?) १०० सिखर ३२ (रथक) ३-३॥०-२-५ (१९ पृः)

नविन्नधन भाग १० रथक ५ सिखर मुण्डि १०० सिखर ३२ (रथक) ३-३॥०-२-५ (मेलाण) ×-१-॥० (७० पृः)

The Nandibardhana consists of 17 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 32 *sikharas*, 100 *munḍis*. Its *rathakas* are in the ratio of 3-$3^{1}/_{2}$-2-5, their projections being 2-1-$^{1}/_{2}$ ān.

36. PURNASALA :

(क) पुर्णसाल भाग १६ रथक ७ सिखर ३२ भूमि १८ रेखगुणा २ (रथक) ३-१॥०-१॥०-२ (मेळाण) २-१-॥० वेदिपिष्ट (१४६-७ पृः)

पुर्णसाला (नष्ट) रथक सात ७ सिखर वतिसि ३२ भूमि अठर १८ रेखगुणाघाठ २ वेदिपिष्ट (रथक) ३-१॥०-१॥०-२ (मेळाण) १॥०-१-× अनुरथे सिखर

वसिब तिनि सिखर लेखाए २४ राहारे सिखरे लेखाए चारि राहारे आठ सिखर ८ राहाजाक करिब भाग ६ दुइ अनुराहा जाक हेव ३ दुइ अनुरथ भाग ३ दुइ कनिक भा ४ गाए भा १६ (१६२ पृः)

ऋतुविधि कृते क्षेत्रे। नेत्रा अंसे गोरथ ३। रा। भाग साअरधोनो १॥० ॥ उपर अनुरथ तद्य भवे तत्र भाकोण वन्ध। सात प्रसादसम्बेवन्तना। पूर्णसाल स्रविकाम विजप्रद। यजश्री वैस्य विवर्द्धन। क्रयाविष्ट पुरेस्तित। श्री। (६४ पृः)

(छ) पूर्णशाला भाग १६ रथक ७ रेखगुणाघाट'३॥० गण्डिरे सिखर ८० अनुरथरे भूइँ···नं मसिरे १० (रथक) ३-१॥०-१॥०-२ न भागे कटाइव।
(५५, १६५ पृः)

The Purṇasālā consists of 16 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 18 *bhumis* and 32 *sikharas*. It should be set upon the Bedi *pista*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 2 or $3^1/_2$ ān. There should be 24 *sikharas* in the *anuratha* and 8 in the *rāhā pagas*.

37. RATNASARA :

(क) रत्नसार भाग २८ रथक सात ७ सिखर नास्ति भूमि २० गुणाघाट २ ए प्रसाद नपुंसक राहाजाक भाग ८ दुइ अनुराहा भाग ६ दुइ अनुरथ ८ दुइ कनिक भाग ६ गाए भाग अ २८ रत्नसार भाग समापत (रथक) ४-३-४-३ (मेलाण) २-१-॥० (१४३, १६४ पृः)

The Ratnasāra consists of 28 *bhāgas*, 7 *rathakas*, 20 *bhumis*. It has no *sikharas* and, as such, is a hermaphrodite. The *rathakas* are in the ratio of 4-3-4-3, their projections being 2-1-$^1/_2$ ān.

38. SARBANGASUNDARA :

(छ) सर्वाङ्गसुन्दर भाग ५४ रथक ७ सिखर ६४ (६५, १८५ पृः)

The Sarbāngasundara consists of 54 *bhāgas*, 7 *rathakas* and has 64 *sikharas*.



Doorway of Chandraśekhara Temple, Khiching, Mayurbhanj

39. SUBARNAKUTA :

(छ) सुवर्णकुट भाग २२ रथक ७ (४७, २१५ पृः)

सुवर्णकुट भाग २० रथक ७ (रथक) २॥० (?)-२॥०-२-३ (मेलाण) २-१-१-।।० (?) (५७ पृः)

सुवन्तुकुट भाग २० रथक स ७ (रथक) २॥०-२॥०-२-३ (मेलाण) १-१-।।।० अथवा २-१-।।० (६१ पृः)

सुवर्णकुट भाग २७ रथक स ७ (रथक) २॥०-२॥०-२-३ कुट आघाट ३॥० सिखर ३२ (१६३ पृः)

The Subarnakuṭa consists of 20 *bhāgas*, 7 *rathakas* and 32 *sikharas*. The *rekhaguṇāghāṭa* is $3^{1}/_{2}$ ān. The *rathakas* are in the ratio of $2^{1}/_{2}$-$2^{1}/_{2}$-2-3, their projections being 2-1-$^{1}/_{2}$ ān.

40. SRIBATSA :

(छ) श्रीवक्षभाग २४ रथक ७ रेखगुणाघट ०३ (मेलाण) २-१-।।०-।। (६४, ८५ पृः)

The Sribatsa consists of 24 *bhāgas* and 7 *rathakas*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān.......

41. SREETARU :

(छ) श्रन्तभृ भाग २६ रथक ९ सिखर नास्ति (रथक) ३-४-१-४ (६५ पृः)

श्रीतभृ भाग २६ रथक ९ सिखर मुण्डि (रथक) ३-३-३-४ (१८५ पृः)

The Sreetaru consists of 26 *bhāgas*, 9 (7 ?) *rathakas*. It has no *sikharas*. The *rathakas* are in the ratio of 3-3-3-4.

42. TRIPATI :

(ख) तीपाटी भा १८ रथक भा ७ सिखर भा २० खयुरिमा कुट (१८२ पृः)

The Tripāṭi consists of 18 *bhāgas*, 7 *rathakas*, and has 20 *sikharas*.

Pancharatha Temples

43. BARABHI :

(क) वड़भि भाग १० रथक पा ५ सिखर २४ मुण्डो आठ ८ राहाके दुइमुण्डी नेखाए चारि राहाकु आठ मुण्डी ८ अनुरथरे ति—३ सिखर गाए चबिसि सिखर अलाभद्र ४ ए वरण उपरे वहइ ॥ मुण्डि चारिटा ४ राहाजाक भाग ४ दुइ अनुरथ ३ दुइ कनिक ति ३ गाए भाग १० (रथक) २-१॥०-१॥० (मेलाण) १-।।।० (१६९ पृः)

वड़भि भाग १० रथक पाञ्च ५ सिखर ३२ अनला भेद ४ भूमि पा ५ परिजंघपिष्ट (रथक) २-१॥०-१॥० पिड़ा करिब सिखर वसिब (१०८ पृः)

(रथक) २-१॥०-१॥० (मेळाण) १॥०-।।।० परिजङ्घपिष्ट (१३५ पृः)

वड़भि भाग १० रथक पा ५ सिखर मुण्डि ३२ अनलाभोदो ४ भूमि पा ५ परिजंघपिष्ट (रथक) २-१॥०-१॥० अनुरथ सिखर ३ राहापासे सिखर दुइ सिखर नेख ८ (१७७ पृः)

The Barabhi consists of 10 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 24 *sikharas*, 8 *mundis*, (evidently on the *bāra*). It should be set upon the Parijāngha *pista*. There should be 5 *bhumis* (in the *gandi*). The *rathakas* should be in the ratio of 2-$1^{1}/_{2}$-$1^{1}/_{2}$, their projections being $1^{1}/_{2}$-$^{3}/_{4}$ ān……

44. BIMANA :

(क) विवान भाग १० रथक प ५ भूमि १८ सिखर २४ रेखगुणा ३ कूर्मपिष्ट (रथक) ३-१॥०-२ (मेलाण) २-१ (१४० पृः)

विमान भाग १० रथक पाञ्च ५ भूमि अठर १८ सिखर चबिसि २४ रेख आघाट गुणाघाट ३ कुमपिष्ट ॥ पिड़ा पोटल काण्ठि कणरे कोड़िए सिखर २० राहारे चारि सिखर ४ गाए सिखर २४ राहाजाक तिनि भाग ३ अनुथजाक देढ़भाग नेखाए तिनि भाग ३ दुइ कनिक दुइ भागे ४ विमान भाग समापत ॥ (रथक) ३-१॥०-२ (मेलाण) १।=-१ (१५५ पृः)

(From the text it is not possible to determine with certainty if the present temple is of the Rekha or Bhadra type. In support of the former, we get the mention of *rekhaguṇāghāṭa* as a distinctive proof. But when it is said in connection with the disposition of the *sikharas*, that 20 *sikharas* should be placed at the "corners of the *kānṭi* between the *poṭalas*, which consist of *piṭhās*," our position becomes doubtful, as this might be taken as an equally conclusive proof of the temple being of the Bhadra type. We have therefore translated the text just as it stands).

The Bimāna consists of 10 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 18 *bhumis*, 24 *sikharas*. It should be set upon the Kurma *pisṭa*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān. 20 *sikharas* should be set at the corners of the *kānṭi* separating the *potalas*, which consist of *piṭhās*. In the *rāhā* there should be 4 *sikharas*, making the total number of *sikharas* 24. The *rathakas* are in the following ratio 3-1½-2, their projections being 2-1 ān.

45. Brishava :

(क) वृषभ भाग १२ रथक पा ५ भूमि १४ सिखर चबिसि २४ रेखगुणाघाट २ (१४० पृः)

वृषभ भाग १२ रथक पा ५ भूमि चउद १४ सिखर चउबिसि २४ रेखगुणाघाट दु २ अनुरथरे तिनि सिखर लेखाए चउबिसि सिखर २४ प्रभहाथकु उच्च पार्श्व हाथ ५···वाड़ए का जांघे कलस नास्ति वृषभ भाग समापत सुन्दरपिष्ठ (रथक) २-२-२ (मेलाण) १॥।०-॥।० (१५५ पृः)

चतृस्रे कृतिक्षेत्रे आदित भाग विभर्जिते पञ्चभिरथ सयुकत ॥ समभागेन कुपितअ । वृषह प्रसादसमापत ।०। श्री ।०। (६७ पृः)

(ख) वृसभ भा १२ रथक ५ सिखर ३२ रेखगुणिघाठ भा ४ (रथक) २-२-२ (मेलाण) २-१ (१८० पृः)

वृषभ भा ५ । चतुरस्ते कृत क्षेत्रे अकृभागे विवतिनि ।१२। कैन्यास वेनि भागेन ॥ अनुरथो पुष्टभागस्तथा । तद्‌गुण मध्यरथो । फिलात वेद्‌भागेन ।४। वृषभ वक्षआसनय ५ । (६३ पृः)

The Brishava consists of 12 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 24 (or 32) *sikharas*. Its *rekhaguṇāghaṭā* is 2 (or 4) ān. It should be set upon the Sundara *pisṭa*. The *rathakas* are in the ratio of 2-2-2, their projections are 2-1 or $1^3/_4$-$^3/_4$ ān. If the length of the *garbha* be 1 cubit, the height of the temple should be 5 cubits.

46. DRABIBANA :

(क) द्रविवान भाग २४ रथक पा ५ सिखर च२४उसि भूमि १६ रेखगुणाघाठ २ (रथक) ४-४-४ (मेळाण) २-२ सुथिर पिष्ट (१३६ पृः)

द्रविवान भाग २४ रथक पा ५ सिखर २४ भूमि १६ रेखगुणाघाट ३ कणिपिष्ट जाति स्वैस ॥ राहाजाक भाग ८ दुइ अनुरथ भाग ८ दुइ कनिक दस आङ्गुल चउद सुथा ।।।=) अनुरथे तिनि सिखर नेखाए चबिसि सिखर २४ (रथक) ४-४-४ (मेळाण) १-॥० (१५६ पृः)

The Drabibāna consists of 24 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 24 *sikharas* and 16 *bhumis*. It should be set upon the Kaṇi *pisṭa*. It is Vaisya by caste. The *rathakas* are in the ratio of 4-4-4, their projections being 1-$^3/_4$ ān. There should be 3 *sikharas* in each *anuratha* making a total of 24 *sikharas*.

47. DUIPADMA :

(क) चत्रुस्रे कृति क्षेत्रे ॥ वसुभागे विभर्ज्जित । गोरथमेकभागेन । मेकअर्द्ध अनुरथ भवेत् । कणिक मेक अर्द्धस्यात् । प्रसाद दुपद्म कारिएत । दुइपद्म प्रसाद समापत । (६७ पृः)

दुइ पद्म भाग ८ रथक पा ५ सिखर २४ भूमि १८ रेखगुणा ३ (रथक) १-१॥०-१॥० (११० पृः)

दुइ पद्म भाग आठ ८ रथक पा ५ सिखर २४ भूमि अ १८ रेखगुणा ३ अनुरथरे तिनि सिखर लेखाए चबिसि सिखर । २४ । (रथक) १-१॥०-१॥० (मेलाण) २-१ (१७६ पृः)

The Duipadma consists of 8 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 24 *sikharas*, 18 *bhumis*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān. The *rathakas* are in the ratio of 1-1$^{1}/_{2}$-1$^{1}/_{2}$, their projections being 2-1 ān.

48. KAILASA :

(छ) कलषा भाग १॥० रथक ५ सिखर गण्डिरे ४० रेखगुणाघाट ४ अरथ पाहो सिखर । (रथक) १॥०-१॥०-२ (मेलाण) २-१ (५८ पृः)

The Kailāsa consists of (10) *bhāgas*, 5 *rathakas* and 40 *sikharas* in the *gaṇḍi*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 4 ān. The *rathakas* are in the ratio of 1$^{1}/_{2}$-1$^{1}/_{2}$-2 and their projections are 2-1 ān.

48. KHANDASALA

(ख) खण्डसाल भा ११ रथक भा ५ सिखर भा २४ रेखगुणिघाट ४ (रथक) ३-२२-४ (?) (मेलाण) २-१ (२०३ पृः)

(छ) खण्डासाल भाग ११ रथक ५ सिखर २४ रेखगुणाघाट ३॥० (१६ पुः)

खण्डासाल भाग ११ प्रिट २ रथक ५ सिखर २४ रेखगुणाघाठ ४ वा ३॥० (रथक) १॥०-१॥०-२ (मेलाण) २-१ (७०,१८१ पृः)

The Khaṇḍasāla consists of 11 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 24 *sikharas*. Its *rekhaguṇāghāṭa* is 3$^{1}/_{2}$ or 4 ān. The *rathakas* are in the ratio of 1$^{1}/_{2}$-1$^{1}/_{2}$-2, their projections being 2-1 ān.

50. MADHYA :

(क) मध्यविभाग ११ रथक ९ शिखर नास्ति (रथक) १।।०-२-२ (शेष पृष्ठा)

(छ) माठधनि भाग ए ११ रथक ९ सिखर नास्ति (रथक) १।।०-२-२ (६९ पृः)

माधे विभाग ११ रथक ९ सिखर नास्ति (१८२ पृः)

The Madhya (Mādhabi ?) consists of 11 *bhāgas*, 9 (?) *rathakas*. It has no *sikharas*. The *rathakas* are in the ratio of $1^1/_2$-2-2.

51. MAHABARABHI :

(क) माहावड़भि भाग २८ रथक पा ५ मुण्डी ३२ भूमि ५ परिजंघपिष्ट (रथक) ५-४-५ (मेलाण) २-१ (१३६ पृः)

माहावड़भि भाग २८ रथक पा ५ भूमि पा ५ मुण्डी वतिसि ३२ चउरस करिब अठा २८ चउरसरु राहा अनुरथ वाहार करि पकाइब अढ़ाइ आंगुल २।।० अढ़ाइ भाग उतारे अठाइ भाग २८ राहाजाक भाग १० दुइ अनुरथ भाग ८ दुइ कनिक भाग १० एहा प्रभहाथकु उच पाञ्च हाथ ५ कनिकरे चारि मुण्डी ४ नेखाए वतिसि मुण्डि वसिब ३२ अठपासे वतिसि मुंण्डि ३२ गाए वतिसि मुण्डि ३४ (रथक) ५-४-५ (मेलाण) १।।०-।।।० (१६८ पृः)

The Māhābaṛabhi consists of 28 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 32 *muṇḍis* and 5 *bhumis* (in the *gaṇḍi*). It should be set upon the Parijāngha *pisṭa*. The ratio of the *rathakas* should be 5-4-5, their projections being 2-1 ān. If the *garbha* be 1 cubit long, the height of the temple should be 5 cubits. In the *kanika*, there should be 32 *muṇḍis* at the rate of 4 *muṇḍis* in each.

52. MULA SREBBACHHA :

(ख) मूलश्रीवछ भा ११ रथक भा ५ सिखर भाग ३२ रेखगुणिघाठ ४ (रथक) १।।०-२-२ (१८४ पृः)



Toraṇa of a rare type, Bhubaneśwar

The Mula Sreebacha consists of 11 *bhāgas*, 5 *rathakas* and 32 *sikharas*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 4 ān. The ratio between the different *rathakas* is $1^{1}/_{2}$-2-2.

53. NANDA SREEBACHHA :

(छ) नन्दश्रीवछ भाग १० रथक ५ मुण्डी १०० सिखर ३६ (रथक) १॥०-१॥०-२ (मेलाण) २-१ (४३ पृः)

The Nanda Sreebacha consists of 10 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 100 *muṇḍis* and 36 *sikharas*. The ratio between the *rathakas* is $1^{1}/_{2}$-$1^{1}/_{2}$-2 and their projections are 2-(1) ān.

54. RATNASARA :

(छ) रत्नसार भाग रथक ५ सिखर गण्डिरे ४० रेखगुणाघाट ४ अनुरथ पाशे वहइ ५ लेखाए ४० (१९१ पृः)

रत्नसार दश रथक पाञ्च ५ सिखर गण्डीरे ४० रेखगुणाघाट ४ अनुरथरं सिखर बहइ ५ लेखाए ४० (२०३ पृः)

The Ratnasāra consists of 10 *bhāgas*, 5 *rathakas*, 40 *sikharas* in the *anuraṭha*. The *rekhaguṇāghaṭa* is 4 ān.

55. SREEBACHHA KHANDASALA :

(क) श्रीवछ्खण्डमाल भाग ११ रथक पा ५ सिखर चउविसि २४ गुणाघाट ३ राहाजाक भाग ३ दुइ अनुरथ भाग ४ दुइ कनिक भाग ४ गाए भाग चविसि २४ जहि सिखर वसिब ताहा जानिमा । अनुरथे तिनि सिखर लेखाए चविसि सिखर २४ खुरपिष्ट (रथक) १॥०-२-२ (मेलाण) २-॥०-१ (?) (१६७ पृः)

श्रीवछ्खण्डसाल भाग ११ रथक प ५ सिखर २४ रेखगुणाघाट ३ खुरपिष्ट (रथक) १॥०-२-२ (मेलाण) २-१ (१४१ पृः)

The Sreebachha Khanḍasāla consistis of 11 *bhagas*, 5 *rathakas*, 24 *sikharas*. It should be placed upon a Khura *pisṭa*. The *rekhaguṇāghāṭa* is 3 ān. The ratio between the different *rathakas* is $1^{1}/_{2}$-2-2, their projections being 2-1 ān.

XVI. The Bhadra Temple:
General Considerations.

XCI. Other names of the Bhadra temple

The Bhadra is also called the Mukhasālā (lit. the building which is placed towards the face or front of the Rekha), or Piṛhā temple on account of its *gaṇḍi* being composed of *piṛhās*.

(क) देउल गोटिए करिब। मुकुसालि जोड़िए करिब। तँहिकि पाचिरिटिए करिब। कले कि होइ ताहा जाणिमा। कोटिए कुल पर्य्यन्त स्वर्गारोहण हुअन्ति। (७६ पृः)

91. Build one (Rekha) temple. Buke two *mukhasālās* (in front of it). Erect a wall round the whole. One should know what follows from such works. One's descendants up to the ten-millionth remove will ascend to heaven.

XCII. Gainthiāla

The Rekha and Bhadra are joined to each other in a very intimate manner. The junction between the two is called the *gainṭhiāla*, which literally means a ceremonial knot tied between the garments of the bride and the bridegroom during the marriage ceremony. According to the traditional view, the Rekha being male and the Bhadra female, they should be joined to each other like man and wife in a state of sexual union. There is nothing in the *silpasāstras* however to support the above view.

The following passage occurs in the *silpasāstras* with reference to the *gainṭhiāla*.

(छ) गइठिआल ६ आङ्गुल दुइ पा १० पछ। (१४६ पृः)

The *gainṭhiāla* is $9^{1}/_{2}$ ān. set back.

XCIII. Relation between the Rekha and the Bhadra

(क) रेखर पिष्ट द्रिघ ३६ आंगुल॥ प्रति चालिसि आंगुल ४० ॥ तहि आगे भद्रपिष्ट द्रिघ बइआलिसि आंगुल ४२ ॥ प्रति चउरालिसि आङ्गुल ४४ ॥ गाए दुइ दउलर पिष्ट समुचा होइँ द्रीघ अठस्तरि आङ्गुल ७८ ॥ (१२५-६)

a. The *pisṭa* of the Rekha is 36 ān. long and 40 broad. In front of that, the *pisṭa* of the Bhadra is 42 ān. long and 44 broad. The total length of the *pisṭas* of the two temples is therefore 78 ān.

(क) रेखगर्भकु ॥ भद्रगर्भ कोड़ि २० (१३८ पृः)

रेखग्रभ आंगुल १६ भद्रग्रभ होइब कोड़िए आंगुल २० (१५१,१५५ पृः)

(ख) रेखगर्भ ६ (१६ ?)। आंगुलकु भद्रर स गर्भ २० आंगुल। (२६ पृः)

(छ) रेखगर्भिकु भदर गर्भि काटिए आ ४ करि (१५४ पृः)

b. If the *garbha* of the Rekha be 16 ān. long, that of the Bhadra should be 20 ān. long.

(क) रेखर बाड़ तिनि भागकु मुखशालि पीड़ा होइब ॥ (५२ पृः)

रेखर तिनि भाग उच्च भदर करिब। (१६७ पृः)

c. The *piṛhā* of the *mukhasāli* should start from a level which is three-fourths of the *bāṛa* of the Rekha in height.

Another specification is given about the relation of the two temples in the following passages ; but it has not yet been possible to find out their correct meaning.

(ख) रेखमभ्फालकु भद्रमभ्फालकु दोली (बोली ?) सएचउदन १५४ भाग करिब। रेखगर्भरे करिब बतिस भाग ३२ कवाट परिछा तेईसि २३ भाग भखि-

रेन्देव ३४ भाग। नवग्रह आठ ८ भाग करिब। खम्ब सताइसि २७ भाग करिब। भद्रगभरे करिब ४० भाग। गाए १५४ सए चउवन भाग। रेखमभ्फालकु। भद्रमभ्फालकु बोलि दुइ काठी ६ आंगुल। (२१२ पृः)

(छ) बड़ देउल मटालक्ष्मृ सान देउल ३६ १ ॥ २॥=)· (६ पृः)

बड़ देउल उञ्च मभ्फालरु सान देउल छतिसि आंगुल ३६ १। २॥=)· दश शरि। (१२१ पृः)

XCIV. Meaning of term ‘gamā’

The term *gamā* has been used in connection with the junction between the Rekha and the Bhadra, but the meaning of it is still obscure. The *silpins* of Lalitgiri however use the term to refer to the corbelled arch placed over the lintel ; but that seems to be a wrong use of the term *gamā*.

(क) रेखमधारु भद्रमधारकु गमामुख्य होइं होइब क्ष ३६ आङ्गुल। हातकु होइ आङ्गुल गमा ॥ (पृः ३५)

मुखसालि मधारु ६ आङ्गुल लेखाए १८ आङ्गुल गमा २ आङ्गुल गाए ३६ आङ्गुल। (४० पृः)

(छ) गमा चारि आङ्गुल दुइ पा १०। (१४६ पृः)

गमा चउअनभाग (१६३ पृः)

XCV. Classification of Bhadra temples

As a rule, the topmost *piṛhā* in the *gaṇḍi* of a Bhadra temple is half in length to the lowermost one. If the temple be of large size, it might require a considerable number of *piṛhās* to bring this about. An unbroken series of *piṛhās* does not present a good appearance. In such cases, therefore, *piṛhās* are grouped into a number of *poṭalas*, each of which consists of 5 or more *piṭhās*. The *poṭalas* are separated from one another by short heights of vertical wall called *kānṭi*.

As the *rāhā* projects forward, its upper half, or part of that, is replaced by a miniature Bhadra *mastaka*, with the *ghanṭā* and *kalasa* complete. Accordingly, in a Bhadra having one *poṭala*, there would be 4 small *ghanṭās* in the *ganḍi* besides the regular one at the top. It is therefore called *panchaghanṭā* or the one having 5 *ghanṭās*. A Bhadra having two *poṭalas* will similarly have 9 *ghanṭās* and would be called *nabaghanṭā*. A Bhadra might also be *trayodasa-ghanṭā* if it has three *poṭalas*, as in the temple of Konārak.

XVII. The Bhadra Temple
Specification of different examples

XCVI. We find reference to the following Bhadra temples in the Silpasastras :

Bhadra, Mahā Bhadra, Bijayā Bhadra, Nalini Bhadra, Medinibijaya, Mahādraviṛā, Kesari and Kesara.

1. BHADRA :

(क) भद्रभाग हाथ १६ आंगुल प्रभकु बाड़ वहल ८ बाड़ उच १६ पिड़ा उच्च पोटल ८ काण्टि ।।।० दुतिअ पोटल वेक ।।।० पा श्राहि उच्च १।।० मेलाण २ घण्टा उच्च ३ मारिब ३ वेक पाए अएला दुइ पा ।।० कपुरि ।।० कलस छ ६ पिड़ा मेलाण दुइ २ लेखाए ४।।।० भूमि जाणिमा पिष्ठभूमि पाभागकु भू २ जांघ ३ बांधणा ४ ए उपरजाङ्घ ५ वरण ६ प्रथम पोटोल काण्ठी १ दुतिअ पोटोल ७ वेक ३ स्राहि ६ घण्टा ५ काण्ठि २ अला चा ४ एहाकु भद्रभाग बोलि ।।५३।। भद्र भा ३४ रथक ६ सिखर ६४ भूमि २० वेदिपिष्ठ (रथक) ३-३-४-३-४ (मेलाण) २-१-।।०-।० (११३ पृः)

If the *garbha* of the Bhadra be 16 ān. in length, its walls should be 8 ān. thick (i. e. each wall should be 4 ān. thick, giving a total of 8 ān. for the two sides). The *bāṛa* should be 16 ān. high, the *srāhi* should be $1^{1}/_{2}$ ān. high, with a projection of 2 ān. outwards. The *ghanṭā* is 3 ān. high, its batter being 3 ān. The *beki* is $^{1}/_{4}$, *amlā* $^{1}/_{2}$, *khapuri* $^{1}/_{2}$ and the *kalasa* 6 ān. The projection of the *piṛhā* (from the *bāṛa*) is 2 ān. on each side, i. e. 4 ān. in all. Now (these are) the bhumis : *pisṭa*, *pābhāga* 2nd., *jāngha* 3rd., *bāndhanā* 4th., the *upar jāngha* 5th., the *baranḍa* 6th., the first *poṭala,* the *kānṭi,* the second *poṭala., beki, srāhi ghanṭā., kānṭi, amlā.* This is called the specification of the Bhadra temple. (It should be set upon a Bedi *pisṭa.*

The Bhadra consists of 34 *bhāgas,* 9 *rathakas,* 64 *sikharas,* 20 *bhumis.* The *rathakas* are in the ratio of 3-3-4-3-4, their projections being 2-1-$^1/_2$-$^1/_4$ ān.

(क) भद्रभाग ३४ रथक ९ सिखर चउसठि ६४ भूमि कोड़िए २० वेदिपिष्ट
(रथक) ३-३-४-३-४ (मेलाण) २-१।।०-१-।।।० भद्रे सिखर जहि वसिव ताहा
जानिमा आग राहा मध्यरे पिड़ारे सिखरे एहि राहा दुइ कणरे दुइ सिखर गाए
तिनि सिखर ३ आर राहा मध्यरे सिखरे गाए सिखर गाए सिखर छ ६ अनुराहा-
कणे सिखरे अनुरथ कणे सिखरे परिरथ मध्यरे सिखर कनिक कणे सिखर।
अनुराहा अनुरथ । परिरथ सवु कउ मध्यरे सिखर बहइ। केमन्त होइँ बसइ
ता जानिमा ।। प्रथम पोटोल पाश्व पिड़ा क.ले तिनि पिड़ा वेकस्राहिघण्टा करिव ।।
ए भद्रकु (× × ×) पादे मर्हित ।। भूमूत वा. काम अं। अर्थ वाड़पर जलन्तर ।।
कलन्त्रर बिससत। भद्रभाग समापत ।। (१७३-४ पृः)

The Bhadra consists of 34 *bhāgas,* 9 *rathakas,* 64 *sikharas* and 20 *bhumis.* The *rathakas* are in the ratio of 3-3-4-3-4, their projections being 2-1$^1/_2$-1-$^3/_4$ ān. Now, we are to know where the *sikharas* should be disposed in the body of the Bhadra. In the *rāhā,* in front, there should be a *sikhara* set upon the *piṭhās.* At the corners of the *rāhā,* there should be two *sikharas* making a total of three for the *rāhā.* In the other *rāhā,* (that one on the opposite side ?), there should be similarly 3 *sikharas* ; making a total of 6 *sikharas* for the *rāhās.* At the corners of the *anuratha, anurāhā* and *kanika,* there should also be *sikharas.* A *sikhara* should be placed in the middle of the *paritatha*. The *anurāhā*, *anuratha*, *paritatha*, shauld bear *sikharas* in the middle. Now, we are to know how they should be disposed. If the first *poṭala* consist of 5 *piṭhās*, then the *beki-srāhi-ghanṭa* should be equal to 3 *piṭhās* in height (this is evidently with reference to the miniature *piṭha-mastaka* to be set in the *ganḍi*).

(क) (श्रीवछखण्डसाल समापत ॥ एथिकि पञ्चुघण्टा भद्र करिब । जेमन्त ताहा जाणिमा ॥ रेखग्रभ आंगुल १६ भद्रग्रभ होइब कोड़िए आंगुल २०) राहा अनुराहार होइब नपा २।० लेखाए चारि आङ्गुल ४॥० कनिककु कनिक नम्ब होइब ३५॥० आङ्गुल दुइ पा ॥ एथिकि दुइ पाटोल उच्च होइब को २० आंगुल पिड़ा मेलाण अढ़ाइ आंगुल २॥० पिड़ा उच्च अढ़ाइ आंगुल पिड़ा मारिब अढ़ाइ आंगुल २॥· प्रथम पोटोल उच्च २० काण्ठि देढ़ आंगुल १॥० पिड़ा उच्च सा ७ वेक उच देढ़ आ १॥० श्राहि उच्च २ मेलाण अढ़ा २॥० घण्टा उच्च ४ वेक उच्च ॥० मेलाण १ कपुरि उच्च १ (मारि)ब आंगुले १ कलस ६॥। एथिकि बाड़ उच्च होइब अठर १८ दुइ पोटोल २० श्राहि घण्टा वेक अला कपुरि होइ १४ गाए एते पदकु आगु ५४॥० ल दुइ पा ॥ पिड़ा उच्च १०̇ काण्ठि १॥० उपर पोटोल··· गाए आंगुल १८॥० कु दुइ भा ॥ भूपिड़ा छाड़िब ६॥० कनिकरु ४॥० अनुरथरु छाड़िब तहिँरु अध दुइ आंगुल पाच्च सुता २॥॥ दुइ आंगुल पाच्चसुता २॥॥ राहारु छाड़िब। पञ्चुघण्टा न कले कनिकरु जेते छिड़िब तहिँ अध छिड़िब अनुरथरु राहारु तहिँरु अध काखमानङ्कु छिड़िब ॥ (१५१-२ पृः)

(Thus end the specifications of the Sribachha Khanḍasāla. To this should be added a *panchaghanṭā* Bhadra. How, that one is to know. As the *garbha* of the Rekha is 16 ān. long, that of the Bhadra should be 20 ān. long. Each of the *rāhā* and *anurāhā* should be $2^{1}/_{4}$ ān. wide, making the total $4^{1}/_{2}$ ān. The length from *kanika* to *kanika* should be $35^{1}/_{2}$ ān. (in the *ganḍi* perhaps). In this temple, the two *paṭalas* should be 20 ān. high. The projection of the *piṛhā* from the *bāṛa* should be 2$^{1}/_{2}$ ān.. Each *piṛhā* is 2$^{1}/_{2}$ ān. high and its batter is 2$^{1}/_{2}$ ān.. The *kānṭi* is 1$^{1}/_{2}$ ān.. The *piṛhās* are 7 (in number). The *beki* is 1$^{1}/_{2}$ ān. high, the *srāhi* 2, with a projection of 2$^{1}/_{2}$ ān.. The *ghanṭā* is 4 ān.. The *beki* (below the *amlā*) is $^{1}/_{2}$...(the projection of the *ámlā* is) 1 ān.. The *khapuri* above is 1 ān. high, with a batter of 1 ān.. The *kalasa* is 6 ān. high.

(In this temple) the *bāṛa* is 18 ān., the two *poṭalas* 20, the *srāhi, ghanṭā, beki, amlā* and *khapuri* 14 ; the total of these items being 54$^{1}/_{2}$ ān.. (In the *ganḍi*, which consists of two *poṭalas*, it is said that) the *piṛhās* (constituting the first *poṭala*) should be 10 ān. high ; the *kānṭi* 1$^{1}/_{2}$, the upper *poṭala*. . . . , the sum of the two being 18$^{1}/_{2}$ ān.. The *kanika paga* should have a batter of 4$^{1}/_{2}$ ān., that of the *anuratha* being half i. e. 2 ān..

The batter of the *rāhā* should also be 2 ān.. If the temple be not made *panchaghanṭā* (i. e. if no miniature *ghanṭās* are set upon the *ganḍi*), then the batter of the *anuratha* should be half that of the *kanika* ; while that of the *rāhā* should be half of that of the *anuratha*.

(ख) (रेखगर्भ ६। आंगुल्कु भद्ररस गर्भ २० आंगुळ ।) पिड़ा भा ४॥० यांघ आ ३॥।० । बन्धन आ १॥० उपर यांघ आ ३॥।० वरण आ ४॥० कनीककु कनीक हुअइ आ २ आउ आ ७ पिड़ा दुइ पोटळ हेब आ १० क्रुल । वेक उंच होइब आ १॥० श्रीहरि वहल होईब आ १॥० । मेळाण होइब आ २ क्रुल । श्रीहरिकी पछ होइब घाट ॥=० घण्टा उच्च होइब आ ३ क्रुल । घटा उच होईब ॥।० वीर केदार अमला वहल हेब आ १। मेळाण होइब पाश्व पा १।० ॥ अलाकु छाड़ी कपुरि वसिब आंगु १ ले । भद्रकु कलस होईब । उच्च खुरामध्य होइब आ ६॥।० कनीककु कनीक होइब येते । तहिँर अर्ध होइब । उपरे पोटल कनीककु कनीक । भद्रर

भाग समापत। पञ्चुत्रट कळे काखुजे कटाइत्र। राहाकु तेतेक फटाइत्र (२६-३० पृ:)

If the *garbha* of the Rekha be (1) 6, then that of the Bhadra is 20. The *pābhāga* should be $4\frac{1}{2}$, *jāngha* $3\frac{3}{4}$, *bāndhanā* $1\frac{1}{2}$, *upar jūngha* $3\frac{3}{4}$, *baraṇḍa* $4\frac{1}{2}$. From *kanika* to *kanika* the length will be ..... (There should be) 7 *piṭhās*. The two *poṭalas* will be 10 ān. high (?). The *beki* is $1\frac{1}{2}$ ān. high ; the *srūhi* $1\frac{1}{2}$. Its projection will be 2 ān.. The *ghanṭā* should be set back $\frac{5}{8}$ ān. from the edge of the *srāhi.* The *ghanṭa* should be 3 ān. high. . . . . . ; the *amlā* should be 1 ān. high, its projection being $1\frac{1}{4}$ ān.. The *khapuri* should be set back 1 ān. from the edge of the *amlā.* There should be a *kalasa* for the Bhadra (set upon the *khapuri*). Its height, including that of the *pāda* (which is here called the *khurā*) should be $6\frac{3}{4}$ ān..

The length (of the *gaṇḍi* from) *kanika* to *kanika* at the top of the *poṭala* should be half the length from *kanika* to *kanika* at the base. Thus ends the specification of the Bhadra. It the temple is of the *panchaghanṭā* type then the batter of the *rāhā* should be equal to the batter of the sides (i. e. the *kanika* ?).

2. A detailed specification is also given for the *gaṇḍi* of the Bhadra as follows :

* भद्रगर्भ हात वार आङ्गुलकु प्रथम पिढ़ कनिक हा ७।१२ वार आङ्गुल। दुतीय पिढ़ कनिककु हा ७।४ चारि आंगुलकु। चारि सुता। मेलाण आ २।।।≥० सुता। वहल आ ६ ङ्गुल। ।।॰ सुता।। तृतीय पिड़ा कनिककु। कनिक हा ६।१० दस आङ्गुल। वहल आ ५।।।–० सुता अधे। मेलाण आ ६।।।० सुता। चतुर्थ पिडा कनिककु। कनिक हा ६।३ कु। दस सुता अधये। मेलाण आ २।० पाए।। षष्ठ पिड़ा कनिककु कनिक हा ५।७ पाए। वहल आ ५ ।१० देढ़

सुता। मेलाण २॥≡० सुता। सप्तम पिढ़ा कनिक्कु कनिक्क हा ५।१ सुता। वह्ल आ ४॥।–० सुता। मेलाण आ २।–० सुता। अष्टम पिड़ाकु कनिक्क हा ४।१२ आंगुल वह्ल आ ४॥।–० सुता। मेलाण आ २।० पाए॥ नवम पिड़ा कनिक्कु कनिका हा ४।६ आंगुल ॥=० सुता अधे। मेलाण आ २।=० दशम पिड़ा कनिक्कु कनिक्क हा ४ थे दुइ आंगुला दुइ सुता। वह् आ ४ सुताए। अधे॥ एकादशम पिडा कनिक्कु॥ कनिक हा ३।१३ आङ्गु अधे। वह्ल अ १३ सुता अधे। मेलाण आ ३।८ सुता। अधे। मेलाण आ १ वार सुता। त्रयोदस पिडा कनिक्कु॥ कनिक हा ३।४ दस सुता॥ वह्ल आ ३। पाञ्चसुता अधे। मेलाण आ १॥० पिड़ा मुहण्टाकु वेक पछ हेब। तेर आंगुल सुता। वेक वह्ल हेब आ ४ अधे। श्रीहि वह्ल आ ५ दस सुता। घण्टा महुण्टो पछ हेब। आ × ळे वह्ल न पा।०। (२०८-१२ पृः)

In the case of a Bhadra having a *garbha* equal to hāta and 12 āngulas in length, the first *pitḥā*, from *kanika* to *kanika*, should be 7 hātās 12 āngulas long. The second *pitḥā* should be 7 hātas·4 āngulas 4 sutās in length; its projection being 2 ān. 15 su., its height being 6$^1/_2$ ān.. The third *pitḥā* is 6 hā. 10 ān., and 5 ān. 13 su. thick. The projection is 6$^3/_4$ ān. (2$^3/_4$?). The fourth *pitḥā* is 6 hā. 3 ān. 10$^1/_2$ su.. Its projection is 2$^1/_2$ān.. The sixth *pitḥā* is 5 hā. 7$^1/_4$ ān.. It is 5 hā. 1$^1/_2$ su. in thickness. Its projection is 2 ān. 11 su.. The seventh *pitḥā* is 5 hā. 1 su. in length; the thickness being 4 ān. 13 su. and the projection 2 ān. 5 su.. The eighth *pitḥā* is 4 hā. 12 ān. long, 4 ān. 13 su. thick and has a projection of 2$^1/_4$ ān.. The ninth *pitḥā* is 4 hā. 6 ān. 10 su. long, and has a projection of 2 ān. 6 su.. The tenth *pirhā* is 4 hā. 2 ān. 2 su. long, 1 ān. 4$^1/_2$ su. (?) thick. The eleventh *pitḥā* is 3 hā. 13$^1/_2$ ān. long, X ān. and 13$^1/_2$ su. thick, and its projection is 2 ān.. The twelfth *pitḥā* is 3 hā. 8 ān. 2 su.

long, 3 ān. $9^{1}/_{2}$ su. broad and it has a projection of 1 ān. 12 su.. The thirteenth *piṭhā* is 3 hā. 4 ān. 10 su., the thickness being 3 ān. $5^{1}/_{2}$ su.. The projection is $1^{1}/_{2}$ ān..

The *beki* should be 13 an. 1 su. (?) set back from the *muhanṭi* of the *piṭhā*. The *beki* should 'be $4^{1}/_{2}$ ān.. The *srāhi* is 5 ān. 10 su. high.

2. MAHABHADRA :

(क) मैधं क्षेते तदावास्तु तअकाल वेवस्तना। गोरथ गुणासेन। तत्र अर्द्धे उपरथो भवेत्। उपरथो वेद आसन। अनुरथ युग्यभागेक। कुन्तपिण्डमिदमोथक्कि परोथो भवेत्। उपरोथो वसुभागेन तदर्द्धो अनुरथ भवेत्। कोणपिण्ड एवु कूज प्रसाद महाभद्र नाम। चत्रुषठि शिखराणि च। यसे देसे प्रसादेक राज सफल भवेत्। प्रसाद महाभद्र समापत ।०। (६० पृः)

माहाभद्र भाग प्रभ काठि आङ्गुले १६ बाड़ ।। पिष्ठ ६ बाड़ आङ्गुल ६।।) बेक ।।।) श्रीहि उच्च २ आङ्गुल मेलाए २ए उपरे घण्टा उच ४ घण्टा वेक पाए अएला उच ।।।) कपुरि उच्च ।।।) मरिच ।।।) कलस उच्च पा ५ ए घटणाकु बुझि करि गढ़िव ।। राहा अनुरथ बाहार होइब आठ आंगुल ८ ।। (११२ पृः)

The Mahābhadra has a *garbha* equal to 16 ān. in length. The *pisṭa* 'is 6 ān., the *bāṛa* $6^{1}/_{2}$ (?) . . . . . . the *beki* is $^{3}/_{4}$; the *srāhi* 2, with a projection of 2 ān.. On it is the *ghanṭā* 4 ān. high. The *beki* is $^{1}/_{4}$; the *amlā*, $^{3}/_{4}$, the *khapuri* $^{3}/_{4}$ with a batter equal to $^{3}/_{4}$ ān.. The *kalasa* is 5 ān. high. Get at the meaning of these specifications fully and then build (the temple). The *rāhā* and the *anuratha* should project 8 ān. (?) . . . . The *goratha* should be 6, the *uparatha* half of that (again, the *uparatha* is said to be equal to 4), the *anuratha* 2, the *pariratha*. . . . . (It is said again that the *uparatha* is 4, the *anuratha* half of that). There should be 64 *sikharas*. . . .

3. BIJAYABHADRA :

According to ( ) and ( ) the Bijayābhadra should be used with the following Rekha temples, Ratnasāra, Duipadma and Mahā Meru

(क) (with refenence to Ratnasāra) आगरे विजआभद्र करिब। भद्रभाग ३४ (११५ पृः)

In front (of the Ratnasāra) build the Bijayābhadra. It has 34 *bhāgas.*

(क) (with reference to the Duipadma) विजआभद्र करिब सेइ सप्तरथ। भद्र कले तिनि पोटल करिब। ए नारदवचन। श्री। (१३७ पृः)

(In front of the Duipadma) build the *Bijayābhadra* temple, which should be of the *saptaratha* type. In this Bhadra, make three *poṭalas* (in the *gaṇḍi).* This is the saying of Nārada.

(छ) (रथक) १॥०-१॥।)०-२ (मेलाण) २-० विजयभद्र बोलि एहाकु (२१७ पृः)

This is called the Bijayābhadra. The ratio of the *rathakas* is $1^{1}/_{2}$-$1^{3}/_{4}$-2 and their projections are 2—0 ān..

याति रेख एहाकु वियथाभद्र (२२४ पृः)

With reference to the Mahā-Meru, it is said it is of the Rekha type and with it there should be the Bijayābhadra temple.

4. KESARI (?) :

It is doubtful if the following temple is of the Bhadra type ; for, in connection with its details, the term *rekhaguṇāghāṭa* has also been used. We have therefore left the passages as they stand, without being able to come to any definite conclusion regarding its form.

(ख) हाथक गर्भ । भूदरण । वरण्डी । पाटी करिब सुतारे १॥० सुता केशरि भाग ॥ श्लोकः ॥ सुता जेते मध्यस्थाने चतुर्दशवेतं ॥ १४ । देभाग अनुरथए ।५। मध्ये च रस अंसेन ।६। केशरिभाग चतुर्दषय । १४। (६५ पृः)

केसरि भा ११ रथक भा ५ गण्डि श्रीही पिड़ा सिखर भा ४० रेख उआघाट भा ४ यातोरे भद्र सिखर भा २० उपर भा २० (रथक) १॥०-२-२ (१८१ पृः)

(छ) केसर भाग ११ रथक ५ घण्टा श्राहि पिड़ा सिखर परे बहइ ४० तल पोटलरे २७ (२२० पृः)

The Kesari consists of 14 *bhāgas,* the middle (rāhā ?) is formed by 6 parts, the *anuratha* by 5 (?). . . . . .

The Kesari is formed of 11 *bhāgas,* 5 *rathakas* . . . the *ghanṭā, srāhi, piṭhā* . . . it will bear 40 *sikharas.* In the lower *poṭala,* 27 . . . . .

5. NALINIBHADRA :

(क) शुद्धक्षेत्रे चत्रुस्रे । १८ । अष्टादश विभर्जिते । कैनसा रसाधेन १॥० ॥ श्रृतुअसंकोणपिण्डका ।६। खुरकुम्भजङ्घ्यास्यात् अवध्या न वरण्डका उभय भारअकिन्ति । विचित्र कर्म्नभाषित । दिपाकार सिखरे ८ । चत्र्रुदिक्षु समतत । प्रसाद् नलनिभद्र सकत वैष्णवि विप्रयः । नलनीभद्र सा । (६३ पृः)

एहाकु नाराणिभद वोलि (१५६ पृः)

नलनीभद्र पृष्ठ उच्च छ आंगुल ६ ॥ एहा खुरपिष्ट करिब । × × × । पिष्टकु बाड़ (पछ ?) होइब दुइ आंगुल २ । बाड़ पाभाग उच्च चारि आङ्गुल तिनि पा ४ ।।।० । एहा पाच्चकाम करिब । खुरा करिब मुचुलि समेधे होइ आङ्गुले छ सुता १।=) । कलस करिब आंगुले दुइ सुता १=) । पटा करिब वार सुता ।।।० । कणि करिब वार सुता ।।।० । वसन्त करिब वार सुता ।।।० । गाए पाच्चकमकु उच्च चारि आङ्गुल तिनि पा ४।।।०

तलजांघ तिनि आंगुल तिनि पा ३।।) । एतहिँ खाखरमुण्डी करिब ।

बान्धण आंगुले तिनि पा १।।) एथि तिनि कम करिब ॥ वरण्डि न सुता

।।– । गाए (पाए) । नोलि न सुता पाए ।।– । (ए दस कम निकर सात सुता ।≡) निकर ।।।) ।।) वसन्त न सुता पाए ।।=० ।।

उपरजांघ तिनि आंगुल तिनि पा ३।।।) । एथि पिड़ा मुण्डि करिब । वरद्व चारि आंगुल तिनि पा ४।।।) उञ्च । एथि दसकम करिब ।५। दसक्रम सरि वहल । प्रथमे वरण्डो सात सुता दुइ पा ।≡)१० । फेणि करिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । पटा करिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । कणि करिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । नोलि करिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । पटा (क)रिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । शेनि करिब दस सुता दुइ पा ।।=)१० । कणि करिब दस सुता दुइ पा सुतारे ।।=)१०। नोलि करिब दस सुता दुइ पा सुतारे ।।=)१० । वसन्त करिब एगार सुता दुइ पा सुतारे ।।≡)१० । श्री । गाए वाड़ जांघ अठर आंगुल तिनि पा उञ्च १८।।।० ।

गण्डि पाञ्च पिड़ाकु उञ्च कोड़िए आंगुल २० । पिड़ा मेलाण दुइ आंगुल नेखाए दुइ आड़कु चारि आङ्गुल ४।५। प्रथम पिड़ा उञ्च चारि आंगुल पाए ४।०। एथि भितरु काण्ठि दुइ पा । काण्ठि पुराइँ मारेणि मारिब चारि आङ्गुल पाए ४।· । प्रथम पिड़ाकु दुतिय पीड़ पछ होइब दुइ आंगुल २। दुतिय पीड़ा उञ्च होइब चारि आंगुल ४। एथि भितरु काण्ठि दुइ पा ।।· काण्ठि सरिकि मारेणि तिनि आंगुल दुइ पा ३।।· । दुतिय पिड़ाकु तृतिय पिड़ा पछ सात पा १।।।· । तृतिया पिड़ा उञ्च तिनि आंगुल तिनि पा ३।।।· । वड़ काण्ठि उच्च आङ्गुले १। काण्ठि सरिकि मारेणि मरिब पाञ्च आंगुल ५। तृतिय पीड़ाकु चतुर्थ पिड़ा पछ होइब देड़ आंगुल १।।· । पिड़ा उञ्च होइब तिनि आंगुल दुइ पा ३।।· । एथि भितरु काण्ठि दुइ पा । काण्ठि सरिकि मारेणि मरिब चारि आङ्गुल दुइ पा ४।।· । चतुथ पिड़ाकु पञ्चम पिड़ पछ होइब दुइ आंगुल २। पिड़ा उञ्च तिनि आंगुल दुइ पा ३।।· । मारेणी मारिब तिनि आंगुल तिनि पा ३।।।· ।

तहिङ्कि वेक पछ होइब तिनि आङ्गुल पाए ३।·।४। वेक उञ्च तिनि आंगुल दुइ पा त्रिपाटि पुराईँ । सढ़ई उञ्च तिनि आङ्गुल तिनि पा ३।।।· । सढ़ई मेलाण तिनि आंगुल आंगुल तिनि पा ३।।।· । सढ़इ कि कपुरि मुहुटा पछ तिनि पा ।।।· ।

मुहुटा उच्च तिनि पा ॥।·। कपुरि मुहुटा पुराइँ अढ़ाइ आङ्गुल २॥·। कपुरि मरिब मुहुटा खरिकि नअ पा २।·। डोरि मोठ दुइ पा ॥०। ए उपरे कपुरि उच्च देढ़ आङ्गुल १॥०। कपुरि मरिब सात पा १॥।०।

अला काण्ठी पछ होइब दुइ पा ॥०। काण्ठी उच्च दुइ पा ॥०। अला मोठ आङ्गुले १। अला मेलाण पाञ्च पा १।०। अलाकु कपुरि मुहा पछ तिनि पा ॥।·। कपुरि मुहुटा सुधा उच्च पाञ्च पा १।०। मुहुटा सरिकि कपुरि मरिब सात पा १॥।·।

कपुरिकि कलसपाद पछ पाञ्च पा १।०। कलसपाद उच्च पाञ्च पा १।०। ए बाहारे मुचुलि पाए।०। कलस दमा उच्च नअ पा २।०। डोरि पाए।०। चाङ्गड़ा उच्च अढ़ाइ आंगुल २॥०। घड़ि आंगुले उच्च १। कलस मोठ छ आंगुल ६।

भद्र एते कामकु उच्च तिनि हात तिनि पा। सोल आंगुल हाथके सोल आंगुल हाथे। श्री × × ५४३८६१२३४। श्री।०।०। (१२६-३२ पृ:)

The Nalinibhadra consists of 18 *bhāgas,* the *kainasā* being 3 (half of six)..........

This is called the Nalinibhadra......

The *pisṭa* of the Nalinibhadra is 6 ān. high. It should be a Khura *pisṭa*...From the *pisṭa,* the *bāṛa* should be set back 2 ān.. In the *bāṛa,* the *pābhāga* is 4³/4 ān.. The *pābhāga* should consist of five mouldings, the *khurā,* including *muchuli,* is 1 ān. 6 su. ; the *kalasa,* 1 an. 2 su., the *paṭā,* 12su., the *kaṇi* 12 su., the *basanta* 12 su.. The sum of the five mouldings in the *pābhāga* is thus 4³/4 ān..

The *talajāngha* is 3³/4 ān.. In it should be placed *khākharā muṇḍis.*

The *bāndhana* is 1³/4 ān. high, and is formed of three mouldings. The *baranḍi* is 9¹/4 su., the *noli* 9 su. and the *basanta* 9¹/4 su....

The *upar jangha* is 3³/4 ān.. In it place a *piṭhā-muṇḍi.*

The *baranḍa* is $4^{3}/_{4}$ in height. In it there should be ten mouldings. The ten mouldings are of equal height. At first comes the *baranḍi*, which is $7^{1}/_{2}$ su., the *pheni* is $10^{1}/_{2}$ su., the *paṭā* is $10^{1}/_{2}$ su., the *kaṇi* is $10^{1}/_{2}$ su., the *noli* is $10^{1}/_{2}$ su., the *paṭā* is $10^{1}/_{2}$ su., the *noli* is $10^{1}/_{2}$ su., the *kaṇi* is $10^{1}/_{2}$ su, the *noli* is $10^{1}/_{2}$ su., the *basanta* is $11^{1}/_{2}$ su.. the total height of the *bāṛa* (including the *jāngha*) is $18^{3}/_{4}$ ān..

The *ganḍi* which consists of five *piṛhās* is 20ān. high. The Projection of the *piṛhās* from the *bāṛa* is 2 ān. on each side. The first *piṛhā* is $4^{1}/_{4}$ ān. high (including the *kānṭi*, which is $^{1}/_{2}$ ān.). The batter is $4^{1}/_{4}$ ān.. The second *piṛhā* is set back 2 ān., from the (edge of the) first. The second *piṛhā* is 4 ān. high, including the *kānṭi* which is $^{1}/_{2}$ ān.. The batter up to the base of the *kānṭi* is $3^{1}/_{2}$ ān.. The third *piṛhā* is $3^{3}/_{4}$ ān. high. The big *kānṭi* (which follows now) is 1 ān., in height. The batter up to the *kānṭi* is 5 (?) ān.. The fourth *piṛhā* is set back $1^{1}/_{2}$ ān. from the third. The *piṛhā* should be $3^{1}/_{2}$ ān. high. This height includes that of the *kānṭi*, which is $^{1}/_{2}$ ān. high. The batter is $4^{1}/_{2}$ ān.. The fifth *piṛhā* is set back 2 ān. from the fourth. The fifth *piṛhā* is $3^{1}/_{2}$ ān. high, and its batter is $3^{3}/_{4}$ ān..

From that, the *beki* should be set back $3^{1}/_{4}$ ān.. The *beki*, including the *tripāṭis*, is $3^{1}/_{2}$ ān. high. The *srāhi* is $3^{3}/_{4}$ ān. high. Its projection is $3^{3}/_{4}$ ān.. The *muhānṭi* of the *khapuri* is $^{3}/_{4}$ ān.. behind the edge of the *srāhi*. The *muhānṭi* is $^{3}/_{4}$ ān. high. The height of the *khapuri*, including that of the *muhānṭi*, is $2^{1}/_{2}$ ān., The batter of the *khapuri* should be $2^{1}/_{4}$ ān.. The *ḍori* is $^{1}/_{2}$ ān.. Placed upon it, the *khapuri* is $1^{1}/_{2}$ ān. high, and its batter is $1^{3}/_{4}$ ān..

The *kānṭi* of the *amlā* is set back $^1/_2$ ān., its height being $^1/_2$ ān.. The height of the *amlā* is 1 ān., and its projection $1^1/_4$ ān.. From the *amlā*, the *muhānṭi* of the *khapuri* is set back $^3/_4$ ān.. The height of the *khapuri*, including that of the *muhānṭi*, is $1^1/_4$ ān.. The batter of the *khapuri* is $1^3/_4$ āngulas.

The *vāda* of the *kalasa* is set back $1^1/_4$ ān. from the *khapuri*, its height being $1^1/_4$ ān.. After this is the *muchuli*, which is $^1/_4$ ān. high. The *damā* of the *kalasa* is $2^1/_4$ ān., the *ḍori* $^1/_4$, the *chāngaṛā* $2^1/_2$. The *ghaṛi* is 1 ān. high ; thus bringing the total height of the *kalasa* to 6 ān..

The total height of the Bhadra is three and three-fourths of a cubit.. .

XVIII. The Khakhara Temple

XCVII. 1. Dravira :

(क) द्रविड़ा वड़भिस्तथा। त्रिभिरथ सयुकत। द्रराविड़ा बड़भिभागि। श्री। श्री। द्रविड़ा प्रसाद समापत। श्री। (पृः ६२)

द्रविभा प्रभकाठि आंगुले १६ दिर्घ गर्भ ए प्रति वार १२ पा ५ जाङ्घ ८ के.रा २ पाखुड़ा २ वरण्डि २ उभा १६ ए उपरे कान्धमुचुलि २ काठि दुइ पा ।।० । कलस २ काण्ठि पा ।।० खाखरामुहुटा आंगुल २ ।। खाखरा ६ कल्स चारि आंगुल ४ कलस दुइ पाख दुइटा सिंघ करिब। गाए एते पदकु ५० बाड़ वहल ६।। एहाकु भद्र नासि (=स्ति)। अनुरथरे सिखर ति तकु २४ राहारे प्रथमे मुण्डीए लेखाए ४ सेहि तहु सिख ४ (१३५ पृः)

The Draviṛā and the Baṛabhi are *triratha*....

The length of the *gårbha* of the Dravirā should be 16 ān. and the breadth 12 ān.. The *pābhāga* is 5, the *jāngha* 8, the *kerā* 2, the *pākhuṛā* 2, the *baranḍi* 2. The *ganḍi* is 16 ān.. On it is the 'muchuli at the shoulder,' which is 2 ān. in height. Then comes the *kānṭi* 1/2 ān. high. The *siāhi* (here the term *kalasa* has been used in this sense) is 2 ān., the *kanṭi* on it being 1/2 ān.. The *muhānṭi* of the *khākharā* is 2 ān. and the *khākharā* itself 6 ān. high. On it should be placed a *kalasa* 4 ān. high. On both sides of the *kalasa* there should be figures of lions. The total height of the temple is thus 50 ān.. The walls are 6 ān. thick (6 each, or 6 as the sum of two sides ?). This temple has no Bhadra. In the *anuratha*, there should be 24 *sikharas* ; in the *rāhā* 4, at the rate of 1 in each.

2. BARABHI :

(क) बड़भि गर्भ काठ आङ्गुले १६ प्रति १२ पिष्ट ६ पाभाग ६ दुइ जांघ १० वरण्ड ६ पीड़ा २ गण्डी २० मुचुलि २ श्राहि २ खाखरा १० कलस ५ उआ छिड़िब २ वेदि नास्ति। मुचुलि सरिकि स्राहि मेलाण। स्राहि सरिकि खाखरा मुहुटा। खाखरा छिड़िब अढ़ाइ आंगुल २॥० लेखाए पा ५ राहारे मुण्डोए नेखाए ४ अनुरथरे तिनि सिखर लेखाए २४ बड़भिभाग १० रथक पा ५ सिखर २४ मुण्डी ८ परिजङ्घपिष्ट।

(रथक) २-१॥०-१॥० (मेलाण) १॥-।॥० (१३४-५ पृः)

The *garbha* of the Baṛabhi is 16 ān. in length and 12 in breadth. The *pisṭa* is 6 ān., the *pābhāga* 6, the two *jānghas* 10, the *baranḍa* 6, the *piṛhā* 2, the *ganḍi* 20, the *muchuli* 2, the *srāhi* 2, the *khākharā* 10 and the *kalasa* 5 in height. The batter of the *ganḍi* is 2 ān.. There is no *bisama* in this temple.

The *srāhi* should project to a point which is vertically above the edge of the *muchuli.* The *muhānṭi* of the *khākharā* should be vertically above the edge of the *srāhi.* The batter of the *khākharā* is 2$^1/_2$ ān. on each side.

In the four *rāhās*, there should be 4 *munḍis*, and in the *anurathas*, there should be 24 in all.

The Baṛabhi temple consists of 10 bhāgas. It is *pancharatha.* It has 24 *sikharas* and 8 *munḍis.* It should be placed upon the Parijāngha *pisṭa.* The ratio of the *rathakas* should be 2-1$^1/_2$-1$^1/_2$ and their projections 1$^1/_2$-$^3/_4$ ān..

3. KOSOLI :

(क) कोसोलि भाग ६० रथक ८ शिखर नास्ति रेख गुण खाखरा खाखर ५॥·
(रथक) ५-५-८-८ (मेलाण) ३(?)-१॥०-।॥०-।= (शेष पृष्ठा)

(ग) ए कासोल भाग ६० रथक ९ सिखर नास्ति रेखगुणाघाठ ३० (६८ पृः)

कोसलिभाग ६० रथक ९ सिखर नास्ति रेखगुलखाखर (रथक) ५-५-४-६-६ (मेलाण) २-१॥०-।॥०-।=)०-(?) (१८२ पृः)

कोसल भाग ६० रथक ९ सिखर नास्ति रेखगुण खाखर (रथक) ? (मेलाण) २-१-।॥०-॥० (१८३ पृः)

कोसली भा १८ रथक भा ५ सिखर नास्ति रेखगुणीघाठ ४ (रथक) ३-३-२-३ (मेलाण) २-१-॥० (२०२ पृः)

The Kosoli consists of 60 bhāgas, 9 *rathakas.* It has no *sikharas.* The *rathakas* are in the ratio of 5-5-4-6-6, their projections being 2-1-$^3/_4$-$^1/_2$ ān..

XIX. Miscellaneous.

XCVIII. Lakshmi-dwara

The main doorway of the temple is called the Lakshmi-dwara or the door of Lakshmi, the goddess of prosperity.

(छ) दुआर ओसार ४ उच्च आठ ८ (१२९ पृः)

द्वार ओसार आ ४ उच्च आ ८ (१९३ पृः)

The door should be 4 ān. wide and 8 in height (in the case of a temple of which the *garbha* is 16 ān. in length).

The term *parichhā* being obscure, it has not been possible to translate the following passages.

लक्ष्मीद्वार ओसार हरि चारि ४।० आङ्गुल पाए। कवाट परिछा उच्च करिब आ १०॥=) विस्वा नवग्रह दुआरे उच्च १३।–) सोल आङ्गुल प्रमाणकु याणी दुआर करिब। सेही लक्ष्मिद्वार उच्च आठ आ ८। (८६ पृः)

रेखगर्भेर करिब बतिस भाग ३२ कवाट परिछ तेईसि २३ भाग भखिरे न्देव ३४ भाग। नवग्रह आठ ८ भाग करिब। (२१२ पृः)

XCIX. Torana or the arch

Toranas are usually built near a temple for the ceremony of swinging the idol of the deity.

(क) एवे त्रोणभाग जानि ॥ त्रोणभाग प्रवक्ष्यामि यथाभागन विद्यते। आएम त (=त्रय ?) विभागेन विस्तारा चत्रुविधिक्रमात्। उक्षर्गे। त्रोणादै विस्तार ४ ॥

(छ) देवदेउले तोरणा खम्भ करिब···तोर्णाभागपि वक्ष्यामि न भागे ९ मुण्डे मुण्डे पन्ध तथा।०। हवहारा कथयामि र्खमाण सिलिपि राजिम (२९ पृः)

देवदेउले तोरणा करिब···तोरणाभागपि वक्ष्यामि मुण्डे मुण्ड पङ्क तथा।०। नवहारा कथयामि पंमाण सलिपि राजिन न भागे ९ (२३७ पृः)

Erect a *toraṇa* in the temple of the deity. The ratio between the height and the width should be as 3 (?) is to 4. Divide the height into 9 parts of which the foils should be in the ratio of 4 : 3 : 2. Or, divide the height into 11 parts making the foils in the ratio of 4-3-2-2.

C. Stambha

Here the pillars to be placed under the above *toraṇa* are alone described.

(क) अर्द्धखम्बपाद् चौरस छभाग करिब ॥ तिनभाग जाङ्घ करिब । भागे बान्धनी करिब । तिनि भाग उपर जाङ्घ करिब । तिनिभाग पालका करिब । गाए भाग १६ । पाश्वभाग करिब मोट । ४८ ॥ (५९ पृः)

एमन्त खम्बकु पिष्ट उच्च १६ भाग होइब । पिष्ट उच्च येते खम्ब उच्च तेते । उच्च तिनि भागरु भागे मोट होइब खम्ब । ४९ । (६० पृः)

ए खम्ब श्लोक । ग्रिव संगतभागेन वाणेन गलका तथा । पालका ग्रहभागेन ॥

१० ५ २०

विशभागेन मोदिता । (८० पृः)

खम्भभाग जानिमा । श्लोक । पादेन खुरभागेन त्रिभाग जंघास्तका भद्ररुद्रभागेन । मालभागेन ग्रहस्तथा पाद ६ दुइ जांघ १६ बान्धना १ वरण ६ ताङ्कमूलवाङ्क मोट ५ कोरभाग कोर १ उपर भाग ४ भाग ४ कोर १ त्रिभवाङ्क ३ कोरपा तिनि पा । (चित्र) (१०१ पृः)

...The *stambha* or pillar should be as high as the *pista* (of the temple ?). The width of the *stambha* will be $^{3}/_{4}$ its height (is it the circumference, or the diameter ?). The *pābhāga* of the *stambha* should be square in section and 6 measures in height. Then should come the *jāngha* 3 measures high, then the *bāndhanā* 1 measure, then the *upar jāngha* 3, lastly the *pālakā*, which is 3 measures in height. The total is thus 16.

According to another reading, the *pābhāga* is 6, the two *jānghas* 16, the *bāndhanā* 1 and the *baraṇḍa* 9.

CI. Nabagrahas

On a panel over the lintel of the main doorway, it is customary to carve the images of the nine planets. In the present section, we get a description of these deities.

It may not be uninteresting to note in this connection that there is a miniature votive shrine at Sarnath, where figures of the Sapta-matrikas with those of Bhairaba and Ganesh appear over the lintel. These matrikas moreover have been depicted in a dancing mood.

(ख) ए नवग्रहंक विचार। रवि अग्निकोणरे वसई। एहांकर आयुध पद्म। शुक्लसमान * । एक चक्ररथ। पद्म उपरे पद्मासन। आउ सप्ताश्व। दुइ भुज। पद्मकान्ति। अभयहस्त। १। चन्द्र स्वेतकान्ति विसिस्वरथ गतं। गदाहस्त। मङ्गल रजतकान्ति। चतृभुज। सक्तिशुलं। गदा वरहस्त। वुध पितकान्ति। खड़गचर्म गदाकरहस्त।४। वृहस्पतो पितकान्तिं। चतृभुज। दण्डवर। अक्षशुत्र कोमण्डल हस्त।६। सनीश्वर नीलकान्ति। गुध्रगत। चतृभुज। शुलवरगदा। धनुहस्ते।७। राहु नोलकान्ति। वीकरालमुख। चतृभुज। खड़गचर्म। शुलवरहस्त।८। केतु धुम्रकान्ति। गदावरहस्त। दुइ भुज ९।
(३२-३ पृः)

This is (a detailed description of) the nine planets (*i. e.* of their presiding deities). Rabi or the Sun should be set at the S. E. corner (of the temple). His chariot has one wheel. On a lotus, He sits in the *padmāsana.* And (his chariot has) seven horses. The deity has two arms. His colour is like that of the lotus flower. His hand is disposed in the *abhaya mudrā.* Chandra or the Moon is white in colour……He has a club in one hand. Mangala is of the colour of silver. He has four arms, having a weapon, a *sula* or spear and a club or *gadā* in the hands, the last one being disposed in the *bara mudrā*. Budha is yellow in colour. He has a sword, shield, club in each hand, the last being disposed in the *bara mudrā*. Brihaspati is yellow in colour. He has four arms. In his hands are the mace, *akshasutra*, *kamanḍalu* and the *bara mudrā*. Sani is blue in colour......He has four arms. In his hands are the spear, *bara mudrā*, the mace and the bow. Rāhu is blue in colour. His face is distorted. He has four arms, with the sword, shield, spear and *bara mudrā* in them. Ketu is of the colour of smoke. He has two arms, in which are the mace and the *bara mudrā*.

XX. Dictionary of Architectural Terms.

Amlā, Alā, Anglā, Aalā, Āmalakya, Amalāna—Fruit of the *Phyllanthus Emblica* ; ribbed structure, of the shape of an extremely flattened spheroid, set above the *beki* in Rekha temple ; *bhumi-a.*, similar structure used to demarcate one *bhumi* from another in *kanika paga* of *rekha ganḍi.*

Anurāhā—Second *paga* from centre in *sapta-* and *naba-ratha* temples.

Anuratha, Anartha, Anortha—Name of 2nd. pilaster, from the central one, in the *rekha-ganḍi* of a *pancharatha* temple ; name of 3rd pilaster in *sapta-* and *naba-ratha* temples.

Ā- —Abbreviation of āngulas.

Āngula—Finger ; measure equal to width of one finger ; one-sixteenth of one *hātha* or cubit.

Āsana—Seat ; posture of sitting ; ground-plan.

Āyudha—Weapon ; article held by a deity in the hand.

Bahala—Adj., wide.

Bandha—System of classifying apartments according to their area in square *hāthas* (See XX—XXIII) ; pose of sexual union ; *b.-kāma*, figures in that state.

Banajība—Wild animal ; *b.-ghaṭita,* adj., adorned with figures of wild animals.

Barajhānji—a water plant ; flower of *b.* carved on jamb of doorway.

Baranḍa, Barana—Crowning set of moulding in *bāṛa* of temple.

Barandi, barani—The first or lowermost moulding in *bāndhanā* or *baranda* ; *bhnmi-b.*, all moulding in *bhumi* of *kanika paga* exeept the *bhumi-amlā* in Rekha temple.

Bara-deul—The big temple ; name of Rekha temple.

Bāndhanā—That which binds ; set of mouldings between *jānghas*.

Bāra—Wall ; portion between *pista* and *gandi* of a temple.

Bedi—Altar ; *bisama* ; a kind of *pista*.

Beka, beki—neck ; portion between *bisama* and *amlā* of Rekha temple ; same between *gandi* and *srāhi* of Bhadra ; *amla-b.*, *beki* under *amlā* and above *ghantā* of Bhadra temple.

Bhadra—Adj., auspicious ; particular order of temple ; a kind of *pista*.

Bhāga—Division ; specification ; see § XV, XVII.

Bhumi—Plane ; planes into which the body of a temple is divided, e.g, *pista, pābhāga* etc. ; planes into which *gandi* is divided.

Biswā—One-sixteenth.

Boli—?

Chakarā—Level piece of ground ; *ghāra-c.*, level platform at the base of *beki*.

Chāngarā—Basket ; upper hemispherical portion in the body of *kalasa*.

Chānguri—Rim of *kalasa* ; portion between *beki* and *ghari* in *kalasa*.

Chhapara—Roof ; *c.-muhā*, turned towards roof, i.e. skywards.

Chhiribā—v. to take off from length or width as height increases.

Dalajharā—Petal ; moulding used in Padmapisṭa with such carving.

Damā—Lower hemisphere in the body of *kalasa* ; similar moulding forming part of *kumbha* in *pābhāga.*

Darapani— ?

Deula—Temple ; *d.-chārani,* female singers in temples ; figures of sitting women set on *ghāṛa chakaṛā* apparently supporting *amlā* upon their neck.

Dhāra—Edge : edge carved on *pagas.*

Dirgha—Long ; length.

Dopichhā—Having two backs ; adj. used to describe figures with one forepart, but two hinder parts set at right angles to each other ; *d.-singha,* similar figure of a lion set on *ghāṛa chakaṛā* of a temple.

Drigha—corruption of *dirgha.*

Ḍāli—scroll ; scroll-work.

Ḍori—moulding resembling a cord ; moulding used between two hemispheres of *kalasa* or *kumbha.*

Gainthiāla—Sacred knot tied between garments of bride and bridegroom during marriage ; junction between Rekha and Bhadra temples.

Gaja—Elephant ; *g.-gamini,* frieze consisting of figures of moving elephants ; *g.-sinha,* figure of a crouchant lion upon a prostrate elephant ; *g.-virala, virāla* in which the head of the lion has been substituted by that of an elephant.

Galakā—throat : *beki.*

Gamā—? ; (according to the *silpins* of Lalitagiri) the corbelled arch placed above the lintel on the inner side.

Gambhirā—Sanctuary ; chief room inside temple, where the image is ; (in Bengal) space between the figure of a deity and the *chālachitra* or background.

Ganḍi—Trunk ; tower immediately above *bāṛa* of temple ; in Rekha, portion between *bāṛa* and *bisama* ; in Bhadra, between *bāra* and *beki* ; in Khakhara, portion between *bāṛa* and *kāndha-muchuli.*

Garbha—Womb ; interior ; bed (of a river) ; room inside a temple ; *g.-muda,* course of stones placed over *garbha.*

Gauṛiya—Of Gauṛa (portion of ancient Bengal) ; style prevalent in Gauṛa.

Gelabāi—Scroll with human or animal figures carved alternately on lelf and right side of it; *manushya-kautuki.*

Geri—Muhānti.

Ghanṭā—Bell : bell-shaped ribbed structure set on *srāhi* of Bhadra temple ; *pancha-g.,* qualification for Bhadra with one set of *piṭhās ; naba-g.,* same for one with two sets of *piṭhās.*

Ghāṛa—Shoulder ; portion above *ganḍi* ; *g.-chakaṛā,* horizontal platform at that place.

Ghaṛi—instrument for measuring time ; truncated cone placed on top of *kalasa.*

Hānḍi—Spherical pot ; similar structure placed below *ghanṭā* or *khākharā.*

Hāta, Hātha—Cubit ; unit of measurement consisting of 16 finger-widths.

Jagamohan—That which pleases the whole world ; that which is most pleasing ; name of structure in front of Rekha, usually a Bhadra.

Jalantara—Niche at junction of different *rathakas* in *jāngha.*

Jāngha, Janghā—Shin ; recessed vertical portion of wall between the projecting elements, namely, *pābhāga*, *bāndhanā* and *baranḍa*.

Jhalama—Amount of projection.

Kākha—Side.

Kalasa—Water-pot ; similar structure placed on top ot a temple ; (rarely) *hānḍi* or the moulding known as *kumbha*.

Kāma—Piece of work ; moulding.

Kāndha—Shoulder; portion at the top of *ganḍi* ; *k.-muchuli*, *muchuli* placed at that point in a Khākharā temple.

Kani—Moulding of the shape of a V placed sideways ; *k.-pisṭa*, particular type of *pisṭa*.

Kanika—Outermost pilaster in the body of a temple ; *kanyāsa*.

Kanyā—Daughter ; female ; female figure ; *nāga-k.*, female figure with the lower half of the body like that of a snake.

Kanyāsa—*Kanika*.

Kānṭi—Throat ; vertical interval between *piṭhās*, two mouldings or two *poṭalas*.

Kapuri—See *khapuri*.

Kāṭeni—Amount of take-off in width or length ; batter.

Kāṭhi—Stick ; unit of measurement equal to one cubit.

Kerā—?

Khākharā—Rectangular parallelopiped with vertical sides replaced by an open S-form ; *k.-deul*, temple having such structure at the top ; *k.-munḍi*, miniature of Khakhara temple used as ornamental motif.

Khapuri—Cranium ; structure resembling flattened bell on *amlā* ; *ghanṭā*.

Khorā—Foot of an article of furniture; lowermost moulding used in *pisṭa* or *pābhāga* (of a particular shape) ; *khurā*.

Khura, Khurā—Same as *khorā.*

Khura—A kind of *pisṭa.*

Kona—angle ; corner ; *k.-singha,* figure of a lion placed at the corner of *jāngha.*

Kumbha—Water-pot ; similar moulding used in *pābhāga* ; a kind of *pisṭa.*

Kurma—Tortoise ; a kind of *pisṭa.*

Kuta—Mountain ; peak.

Lakhā—Particular ornamental pendant suspended from *chānguṛi* of *kalasa.*

Lakshmi-pāta—Lintel (on account of its having a figure ot Lakshmi carved upon it).

Letani—? used as adj. for a particular kind of *piṛhā.*

Lahaṛā—Succession of waves ; corbel.

Lahari—Series of waves ; *hangsa-l.,* frieze with figures of the swan.

Manushya-kautuki—*Gelabāi* scroll.

Māreni—*kāṭeni* ; batter.

Mastaka—Name coined to denote portion of a temple above *ganḍi* and below *kalasa.*

Metāna—Projection.

Muchuli—Circular flattened pillow ; similar moulding placed under *kumbha, kalasa* or *khākharā.*

Muda—To close ; *garbha-m.,* horizontal course of stones closing *garbha* ; *ratna-m.,* similar course closing room above *garbha.*

Muhānṭi—Short vertical portion at the base of *khurā, khākharā, khapuri.*

Mukha—Face ; front ; *m.-sāla,* temple placed in front ot Rekha (usually a Bhadra).

Munḍi, Munḍei—Miniature temple set on wall as decoration; *khākharā-m.*, *piṭhā-m.*, *bajra-m.*, *phula-m.*, same with crown like that of a Khakhara, or Bhadra temple or crowned by ornament known as *bajra* or mass of foliage.

Naba—Nine ; *n.-ratha*, a temple having nine pilasters, resulting from four successive projections upon its face.

Nāga—Mythical tribe of serpents ; figure, half-man and half-serpent below ; *n.-patni*, female *nāga* ; *n.-bandhi*, intertwined figure of two or four snakes carved continuously along jamb and lintel.

Nahaṛa—*Lahaṛā* ; corbel.

Napungsaka—Hermaphrodite ; Rekha wtthout *sikharas.*

Noli—moulding with the edge like that of a semicircle ; torus.

Olamba—Corruption of plumb-line.

Osār—Width.

Pā—Quarter ; foot ; shortened form of *pābhāga.*

Pābhāga—Division corresponding to the foot ; set of three, four or five mouldings at the base of a temple (above *pisṭa* or pedestal).

Pachha—Behind ; set-back from something.

Pāda—Foot ; base ; *pābhāga.*

Padma—Lotus ; *p.-pisṭa*, pedestal of that name.

Pāga—Segment ; segments produced upon face of temple by producing part of it to a more forward plane.

Pāhānrā—Early morning ; twilight (?) ; demarcated edge of mouldings (through which the moulding seems to fade away).

Pākhuṛā—Petal ; petals carved on *khurā*, *ghanṭā*, etc. ; *siju-patra-p.*, carving resembling leaves of Euphorbia.

Pālakā—Capital of column (resembling lotus ?) (?) ; abacus (?).

Pānapatri—Pendant suspended from the *ḍori* of *kalasa.*

Pancha—Five ; *p.-ratha,* temple having five *pagas* ; *p.-ghanṭa,* Bhadra temple having one set of *piṛhās.*

Parichhā—Jamb (?).

Parijāngha—A kind of *pisṭa.*

Pari—Fairy ; *p.-kanyā,* figure of flying women above central image.

Pariratha—Fourth *paga* from centre in *nabaratha* temples.

Pasibā—To be set back.

Patā—Moulding with a square edge.

Pāta—Flat slab of stone ; *Lakshmi-p.,* slab serving as lintel with image of Lakshmi carved on it ; *Nabagraha-p.,* slab placed above lintel with figures of the nine planets carved upon it ; *parāsa-p.,* course of stone placed across angle of a square room in order to reduce square opening at top into an octagonal opening of smaller dimensions.

Petā—Moulding used in *khura pisṭa* (cyma recta).

Pheni, Phenā—Hood of a serpent ; second moulding in *baranḍa* resembling same ; beak, with cavetto replaced by cyma recta.

Pherā pakhuṛā—petals turned upwards.

Piṛhā—Flat wooden seat ; elements of which the *ganḍi* of Bhadra temples is composed ; *p.-deul,* Bhadra temple.

Pisṭā, Piṭha, Prisṭha—Pedestal (examples, Padma, Singha, Bhadra, Bedi, Suthira, Khura, Kumbha, Parijangha, Kurma).

Poṭala—Chapter ; group of *piṛhās.*

Prati—Width (corruption of Sans. *prastha*).

Prisṭha—See *pisṭa.*

Pusangkara, Pungsakara—?

Rāhā—Central projected pilaster of a temple.

Rathaka—miniature *ratha* ; *paga.*

Rekha—Order of temple ; *r.-deul,* Rekha temple ; *r.-gunāghāṭa, -uāghāṭa, -āghāṭagunāghāṭa,* sum of set-backs of *gaṇḍi* from *baraṇḍa,* batter of *gaṇḍi* and that of *bisama* or only batter of *gaṇḍi* (?).

Saṛhai—Cocoanut shell ; element below *ghaṇṭā* in Bhadra temple ; same above *beki* in Khākharā temple.

Srāhi—also called *Saṛhai, Hāṇḍi.*

Sikhara—Miniature of Rekha temple used as ornament on body of Rekha temple.

Singha—Lion ; *s.-pisṭa,* a kind of *pisṭa* ; *s.-āsana,* seat of the deity ; *dopichha-s.,* lion set at corners with one forepart and two hindparts set at right angles to each other; *gaja-s.,* figure of triumphant lion sitting upon prostrate elephant ; *s.-virala,* figure of triumphant lion standing on two legs upon prostrate demon or elephant.

Stambha—Pillar.

Suthira—having stability ; a kind of *pisṭa.*

Ṭānku—Particular ornament set at the edge of mouldings or *piṛhā.*

Toraṇa—Arch.

Tripāṭi—projected borders at upper end of *beki.*

Uā—Rekha-gaṇḍi.

Uchharga—Height.

Virāla—Figure of rampant lion standing, with head turned backwards, upon prostrate elephant or demon ; *gaja-v., nara-v.,* same with the head of a lion replaced by that of an elephant, demon (corruption of Sans. *Vyāla,* terrible ?).

INDEX

A

Abhayamudrā 176
Acharya, Prasanna Kumar 1,2
Ahidhara 8
akshasutra 177
Amlā 158,159,161,162,164 ; of Nalinibhadra, 170
āngula 72
anurāhā 159,160
anuratha 137-139,143,145,146, 150,153,159,160,161,164, 166 ; of Draviṛā, 171 ; of Baṛabhi, 172 ; *a. paga*, 143
Arch, corbelled 121
Architect, Test of a good 69
Astasree 86,98,99,124,125
Astasri 139
Augury §VII ; 19
Auspicious ceremony § XXXI ; 57

B

Bahantisara 125
Bahargamasara 126
Baijnath 94
Bajaura 94
bālāgra 72
bandha 44 ; use of building determined by, 45 ; effects of, 45
bāndhanā LXXI ; 158,162,168, 175,176
Banerji 93 n.; Rakhaldas 1
bāṛa classification of, 92,101 ; 148,155,158,161,164,169 ; in Nalinibhadra, 168,169
bara mudrā 177
Baṛabhi 87,113,126,148,171,172
Baraṇḍa LXXII ; 77,144,159,162, 176 ; ot Nalinibhadra, 169 ; of Baṛabhi, 172
baraṇḍi Nalinibhadra, 168,169 ; of Draviṛā, 171
Basanta 124,168,169
Band 93
beki 158,159,160,161,162,164,169
Bhadra Def., 78 ; 124,149,154, 155,156,163,165,171, classifications, 156-157 ; specifications of different examples, ch. XVII, 158-162 ; detailed specification of the *gaṇḍi* of Bhadra, 162 ff. ; height, 170
bhāga 137,138,139,140,141,142, 143,144,145,146,147,148, 149,150,151,152,153,159, 165,166,168,173
Bhāgabat 70
Bhairaba 176
Bhubaneswar 79,80
Bhubanapradipa authorship, 7 ; 78
Bhumi Delties presiding over, 114 ; def., 115 ; 137,138,139,143, 144,146,148,149,150,151, 152,158,159
Bibāna 99,100,120
bidigasutra 76
Biharāsara 90,126
Bihasta Indra 124
Bijayā Bhadra 158 ; *gaṇḍi* specifications, 165
Bimāna 90,148-149
Biraṭi 124,139-140
bisama 172
Biswakarmā 127
bow 177
Brihaspati 177
Brishava 98,99,100,120,149-150
Budha 177
Building classification of site, 15 ; effects of living in different sites, 16 ; effects of different months, 37 ; of light or dark half, 38 ; of days of the week, 39; of phases of moon, 40 ; of zodiacal sign, 42 ; of constellation, 43 ;—bandha of, 44,45 ; star of, 47 ; pro-

bable age of, 49 ; *nabāngsa* of, 50 ; *nāga* of, 51 ; expenses, 52 ; position of trees with reference to, 66 ; position of water, 67 ; addition to, 70,71 ; foundation of, 74 ; faults in, 76

C

Central India 94
Central Provinces 94
Chamba 94
Chaṇḍikā 114
Chandra 176
Chāngaṛā 170
Chhātā parab 94
Chhatribhusan 140,142
Chitrakuṭa 124,127,140
Club 177
Constellations effect of, 43

D

damā 170
darbha 72
Day of the week, effect of, 39
Dhāra def. of, 121
Dibidāna 124
Divination 60
Door with reference to *nāga*, 35 ; influence of Bandha, 46 ; orientation of, 52 ; luck determined by position, 53
ḍori 170
Drabibāna 88,128,150
Dravira Specifications, 171 ; *garbha*, 171
Dribidāna 124
Dui-padma 84,95,98,99,141,150-151,165

F

Fergusson 1
foils 175
foundation 74

G

gadā 177
Gainthiāla 154-155
Gajapati 94
Gamā 77 ; def., 121 ; meaning, 156
Gaṇḍi of Rekha, LXXIV ; curvature in Rekha, LXXV ; of Bhadra and Rekha, 79 ; of Khākharā, 80 ; relation to *bāṛa*, 114 ; 91, 140,148, 151,152,154, 156, 157,160,161,162,165,169 ; of Drāviṛā, 171 ; of Baṛabhi, 172
Ganesh 176
Ganguli Manomohan, 3
garbha 150, 152, 155, 158, 160, 162, 163, 164, 171, 174 ; of Baṛabhi, 172
Gaṛura 84,98,99, 119,124,128
ghaṇṭa 157, 158, 159, 160, 161, 162 ; in Kesari, 166
ghaṛi 170
goratha 137, 143, 164
Gauṛiya def., 78

H

Hangsa 124
Havell 1, 4
hermaphrodite 146

I

India North-western, 132 ; Western, 132
Indra 129

J

jagamohan 77
Jaipur (Amber) 132
jāngha 158, 162, 169, 171, 172, 175, 176

K

Kailāsa 89, 90, 99, 100, 124, 130, 141, 151
kainasā in Nalinibhadra, 168
kalasa details of, 117 ; 157, 158, 161, 162, 164, 168, 170, 172 ; of Draviṛā, 171

Kalpataru 124, 141-2
kaṇi 168, 169
Kanihastha 142
kamanḍalu 177
kanika -*ā*, 72 ; 137, 152, 159, 160, 161, 162, 163 ; *k. paga*, 140, 161
kānṭi 149 ; def., 157 ; 159, 161 ; of Nalinibhadra, 169, 170; of Draviṛā, 171
Kerā 171
Kesara 158
Kesari 124, 158 ; specifications of *ganḍi*, 165-6
Ketu 177
Khajuraho 94
Khajuriyā 144
Khākharā def., 78 ; of *ganḍi*, 80 ; specifications, XVIII, pp. 171-3 ; measure, 172
Khanḍasāla 151
Khapuri 158, 161, 162, 164 ; of Nalinibhadra, 169, 170
Khiching 93
khura 162 ; -*ā*, 168 ; *k. pisṭa*, 168
Konarak 93, 157
Kosala 124
Kosoli 124 ; specifications, 172-3
Kritidushana 86, 124, 143
Kshetrabhusana 124, 132, 140, 142-3
Kumbha 140
Kusāgra 72
Kuṭa 138, 139 ; *Khajuriya K.*, 144

L

Laghubimāna 124
Laghumandara 143
Laghuseka 124
Lakshmi 174
Lakshmi-dwāra 174
Lalitgiri 4, 73, 121, 156
Lingaraja 79

M

mace 177
Madhabi 124
Madhya (Madhabi ?) 152
Magadha Empire 124
Mahā Baṛabhi 87, 98, 99, 113, 119, 152
Mahā Bhadra 158 ; specifications of, 164
Mahā Draviṛā 87, 144, 158
Mahā-Kailāsa 84, 98
Mahā-Meru 84, 98, 99, 100, 124, 133, 165
Manbhum 93
Mandara 85, 113, 124, 134, 143-144
Mangala 176
Mantra, *Sāvitri m.* 11 ; uttered during an auspicious ceremony, 62
Mastaka different elements in, 115, 157
Medinibijaya 89, 158
Meru 69, 84, 135
months effect of, 37, 38
Moon effects of different phases, 40
muchuli 168, 170' 171, 172
muhanṭi 164 ; of Nalinibhadra, 169, 170 ; of Draviṛā, 171 ; of Baṛabhi, 172
Mukhasālā 154
Mukhasāli 77, 155
Mulasri 124
Mula Sreebachha 85, 98, 99, 100, 144-145, 152-153
munḍi 145, 148, 152, 153, 172
Murtikā 114

N

nabaghanṭā 157
Nabagraha 176
Nabaratha 137, 140
Nāga Lie of the, 29 ; movements, 31 ; divisions of its body, 32 ; position of auspicious pillar with ref. to its body, 34 ; door with reference to its body, 35 ; Chap. IV ; of a building, 51
Nagara 124
Nāgari 124, 136
Naimisha Forest of, 83
Nalinibhadra 86, 158 ; specifications of *ganḍi*, 168-170
Nanda Sreebachha 153
Nandivardhana 124, 145
Nārada 165

Nichasā 124
Nisaṛa 86, 136 ; specifications, 137
noli in Nalinibhadra, 168 ; 169

O

Omkareswar 94
Orchha 94
Osian 94

P

pā 72
pābhāga LXVI, LXVII, LXVIII ; 158, 162, 168, 171, 172, 175 ; 176
pāda 162
Padmakāra 124
Padmāsana 176
Padmasila 124
paga def., 121 ; 137, 138, 143 ; *anuratha p.*, 143 ; *kanika p.*, 140, 161 ; *rāhā p.*, 146
pākhuṛā 171
pālakā 175
panchaghanṭa 157,160, 161, 162
Pancharatha 148 ; of Baṛabhi, 172
parichhā 174
Parijāngha 144 ; of Baṛabhi, 172
Pariratha 137, 143, 160, 164
paṭā 168, 169
Pataliputra 124
pedestal § L, 84 ; different kinds, 84
pheni 169
Pillar, auspicious 34
Pingala 8
piṛhā 77, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 172 ; *p. mastaka*, 160 ; in Kesari, 166
pisṭa 77, 155, 158, 164 ; in Nalinibhadra, 168 ; in Baṛabhi, 172, 175 ; *bedi p.*, 88, 146, 159 ; *bhadra p.*, 84, 89 ; *kani p.*, 88, 150 ; *khuta p.*, 84, 86, 137, 143, 153 ; *kumbha p.*, 84, 90, 138 ; *kurma p.*, 84, 90, 149 ; *padma p.*, 84 ; *parijāngha p.*, 84, 87, 144, 148, 152 ; *Singha p.*, 84, 85, 137, 139, 145 ; *Sundara p.*, 89, 150 ; *Suthira p.*, 84, 89, 138
poṭala 149, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165 ; in Kesari, 166
Punjab Himalayas, 94
Purnasālā 88, 145-46

R

Rabi 176
Rabisuddhi 41
rāhā 138, 139, 143, 144, 149, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 166 ; in Draviṛā, 171 ; in Baṛabhi, 172
Rāhu 177
Rajputana 94
Rākshasi 114
Ram Raz 3
rathaka 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 159 ; ratio and projections in Bijayābhadra, 165 ; in Kesari, 166 ; in Baṛabhi, 172 ; in Kosali, 173
Ratnasāra 85, 96, 98, 99, 119, 124, 137, 138, 146, 153, 165 ; tri-anga r., 95
Ratnasundara 124
Rekha temple, vertical segments, 91 ; classification according to *baṭa*, 92 ; temple, chh. XII-XV ; temple, interior of, 120 ; def., 78 ; 149, 154, 155, 156, 162, 165
rekhaguṇāghaṭa def., 114 ; 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 165
Rudragaṇikā 114
Rudrāyaṇi 114

S

Sani 177
Saptamātrikā 176
Saptaratha 139, 165
Sarbāngasundara 89, 90, 124, 138, 146
Saripalli 94

Sarnath 94, 176
Sastri, Ganapati 2
Savitri mantra 11
shield 177
sikhara 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 159 ; distribution, 123 ; disposal in the body of the Bhadra temple, 159-160 ; 160 ; in Kesari, 166 ; in Draviṛā, 171 ; in Baṛabhi, 172 ; in Kosoli, 173
Silpasastra 5, 69 ; periods of Silpasastras, 94
site for building See 'building site' ; best s., 13
Soil testing by lighted lamp, 14 ; selection, 11 ; four castes, 11 ; classification, (§I) 9.
spear 177
srāhi 158, 159, 160, 161, 162, 164 ; in Kesari, 166 ; in Nalinibhadra, 169 ; in Draviṛā, 171 ; in Baṛabhi, 172
Sreebachha Khanḍasālā 86, 119, 153, 160
Sreebachhanadibardhana 99, 100
Sreetaru 84, 98, 99, 124 ; specifications, 138-139 ; 147
Srivatsa 124,147
Stambha 175
stone-block size of, 75
stone-building 75
Subarnakuṭa 100,124,147
sula 177
Surālaya 124

T

tala-jangha LXIX,LXX, 168
Telkupi 93,94,120
temple classification, 81,82 ; different types, Chap. X, 78 ; height, 93,96
Toraṇa 174,175
trayodasa-ghanṭā 157
tree 65
Tripaṭi 147,169
triratha 171

U

Udipur 132
Ujjain 94,132
United Provinces 94
uparatha 137,164
uparjāngha LXXII ; 158,162,168,175

V

Vaisya 150
Vaital deul 80
Vindhyachal 94
virāla *nara-v., gaja-v.,* 105
Virāt 124
Viswakarmā 7,69,83 See Biswakarmā
Vizagapatam 94

W

Wall thickness in Rekha, 119
Water position in ref. to building, 67

Y

yuka 72

Z

Zodiacal sign influence of, 42

WORKS BY THE SAME AUTHOR

CULTURAL ANTHROPOLOGY

—a useful introduction to the subject, praised in *The Modern Review*, *The Hindu*, etc. Rs. 1-4-0

KANARAKER VIVARAN (in Bengali)

—a study of the temple, specially from the point of view of its architecture (with numerous plates and half-tone illustrations) Rs. 1-12-0

NABIN-O-PRACHIN (in Bengali)

—a volume of essays on many subjects, old and new 0-4-0